
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

South Central Zone Cultural Centre
Ministry of Culture, Government of India

वार्षिक प्रतिवेदन
२०१६–१७



ANNUAL REPORT
2016-17



MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

ANNUAL REPORT 2016-17

मध्यदक्षिणी

SCZCC

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

56/1, CIVIL LINES, NAGPUR-440001
P: 0712-256 2974; F: 0712-256 0966;
E: sczccnagpur1986@gmail.com; W: www.sczcc.gov.in

INDEX

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
1.	**Shri CH. Vidyasagar Rao** Hon'ble Governor of Maharashtra & Chairman, S.C.Z.C.C., Nagpur Raj Bhavan, Malabar Hill, Mumbai 400 035 E-mail: rajbhavan@gmail.com	Chairman
2.	**Dr. Mahesh Sharma** Hon'ble Minister of Culture, Government of India, Room No.501, "C" Wing, Shastri Bhavan, New Delhi 110 001 E-mail: dr.mahesh@sansad.nic.in	Ex-officio Member
3.	**Shri Vinod Tawde** Hon'ble Minister of Culture, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai 400 001 E-mail: vinodtawdeminister@gmail.com	Ex-officio Member
4.	**Smt. Umasri** Hon'ble Minister for Kannada & Culture, Government of Karnataka, Room No.252, Vidhan Saudha, Bengaluru 560 001	Ex-officio Member
5.	**Shri Palle R, Reddy** Hon'ble Minister of Culture, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad 500 004 E-mail: mlapalle@gmail.com	Ex-officio Member
6.	**Shri Surendra Patwa** Hon'ble Minister of Culture, Government of Madhya Pradesh, Vallabh Bhavan, Bhopal	Ex-officio Member
7.	**Shri Dayaldas Baghel** Hon'ble Minister of Culture, Government of Chhattisgarh, Naya Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Capital Complex, Naya Raipur	Ex-officio Member
8.	**Shri N. K. Sinha, IAS** Secretary to Government of India, Ministry of Culture, Room No.502, "C" Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 015 E-mail: secy-culture@nic.in	Ex-officio Member

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
9.	**Smt. Valsa Nair Singh, IAS** Principal Secretary, Tourism & Culture Department, Government of Maharashtra, Room No.721, 7th Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032	Ex-officio Member
10.	**Shri Manoj Shrivastava, IAS** Principal Secretary, Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, Vidhan Bhavan, Bhopal 462 001	Ex-officio Member
11.	**Shri Neerab Kumar Prasad, IAS** Principal Secretary, Department of Youth Services, Tourism & Culture, "H"-Block, 1st Floor, AP Secretariat, Hyderabad 500 022	Ex-officio Member
12.	**Shri S. R. Umashankar, IAS** Principal Secretary, Department of Kannada & Culture, Room No.2, Ground Floor, Vikas Soudha, Bengaluru 560 001	Ex-officio Member
13.	**Shri Santosh Kumar Mishra, IAS** Secretary, Department of Culture, Naya Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Capital Complex, Naya Raipur	Ex-officio Member
14.	**Shri Kumar S. Krishna, IAS** Financial Advisor, Ministry of Culture, Government of India, Room No.135, "B"-Wing, Krishi Bhavan, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
15.	**Prof. Vishwanath Prasad Tiwari** President, Sahitya Academy, Ravindra Bhavan, 35 Feroze Shah Road, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
16.	**Chairman** Lalit Kala Academy, Ravindra Bhavan, 35 Feroze Shah Road, New Delhi 110 001	Ex-officio Member
17.	**Shri Shekhar Sen** Chairman, Sangeet Natak Academy, Ravindra Bhavan, 35 Feroze Shah Road, New Delhi 110 001	Ex-officio Member

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
18.	**Shri Shailesh Jadhav** Director, Directorate of Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Old Secretariat Building, 1st Floor, M. G. Road, Mumbai 400 032	Ex-officio Member
19.	**Dr. D. Vijaya Bhaskar** Director, Department of Cultural Affairs, Kala Bhavan, Saifabad, Hyderabad	Ex-officio Member
20.	**Shri Rajesh Prasad Mishra, IAS,** Director, Directorate of Cultural Affairs, Sanskruti Bhavan, Banganga Road, Bhopal	Ex-officio Member
21.	**Shri Rakesh Chaturvedi** Director, Department of Culture & Archaeology, Government of Chhattisgarh, Raipur	Ex-officio Member
22.	**Shri K. A. Dayananda, KAS,** Commissioner, Department of Kannada & Culture, Government of Karnataka, Kannada Bhavan, J. C. Road, Bengaluru 560 002	Ex-officio Member
23.	**Shri Lalesab Sheikh Master** Chairman, Karnataka Natak Academy, Bengaluru	Ex-officio Member
24.	**Prof. Malathi Pattanashetty** Chairman, Karnataka Sahitya Academy, Bengaluru. Tel.: 080-22244176	Ex-officio Member
25.	**Shri Prasad Mahajan** Project Director, P. L. Deshpande Kala Academy, Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi, Mumbai	Ex-officio Member
26.	**Shri Baba Bhand** Chairman, Sahitya Sanskruti Mandal, Government of Maharashtra, 2nd Floor, Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi, Mumbai	Ex-officio Member

EXECUTIVE BOARD & GOVERNING BODY

Sr. No.	Name & Designation	Official/Non-Official
27.	**Dr. Umesh Kumar Singh** Director, Sahitya Academy, Mulla Ramuji Bhavan, Baanganga Road, Bhopal (M.P.) Tel.: 0755-2557942	Ex-officio Member
28.	**Shri Shyamsunder Ayyagery** 102, Rishi Residency, Street No.12, Somasundara Nagar, 2-2185/63 Bagh Amberpet, Hyderabad 500 013 M.No.: 09247434866	Non-official renowned artists
29.	**Padmashree R. Nageshwar Rao Surabhi** Sri Venkateswara Natyamandali, #12-8-236/7/1/2 Surbhi Building, Mettuguda, Hyderabad 500 017	Non-official renowned artists
30.	**Dr. Alekhya Punjala** Sree Sadan, 3-6-105 Himayat Nagar, Hyderabad 500 029 M.No.: 099959291111	Non-official renowned artists
31.	**Pt. Ravishankar Vyas** Near Hanuman Mandir, Budhapara, Raipur, Chhattisgarh	Non-official renowned artists
32.	**Shri Nagesh Thakur** 877/3/B, Balco Nagar, Korba, Chhattisgarh	Non-official renowned Theatre artists
33.	**Dr. Mandvi Singh** Vice Chancellor, Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh, Chhattisgarh	Non-official renowned artists
31.	**Prof. O. L. Nagabhushana Swamy** #201, 2nd Cross, Rudraksha Residency, Kalena Agrahara, Banerghatta Road, Bengaluru M.No.: 09480379837	Non-official renowned Theatre artists
32.	**Shri Subhash Kammar** No.38, Vinayaka, 2nd Cross, 2nd Main Katriguppe East, BSK 3rd Stage, Bengaluru M.No.: 09535054350	Non-official renowned Painter artists
33.	**Dr. Mruthunjay Agadi** Nada Lahari, Plot No.288, behind Tiwae Quarters, Nisarga Nagar, Dharwad. M: 09448631201	Non-official renowned Vocal artists
36.	**Dr. Piush Kumar** Director, South Central Zone Cultural Centre, 56/1, Civil Lines, Nagpur 440 001; M: 07507300000 Tel.:07122565107; E: director@sczcc.gov.in	Member Secretary

PROGRAMME COMMITTEE MEMBERS

Sr. No.	Name & Address	
01.	**Shri Vinod Tawde** Hon'ble Minister of Culture, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai 400 032 Tel.: 022-22846284, 22843664 E: vinodtawdeminister@gmail.com	Chairman
02.	**Shri Ashutosh Mishra** Director, Department of Culture & Archaeology, M.G.M. Museum, Civil Lines, Raipur-492002 (CG). Tel.: 0771-2234731 / 2537404; E-mail: deptt_culture@yahoo.co.in	Member
03.	**Shri Rajesh Prasad Mishra** Commissioner, Directorate of Cultural Affairs, Mulla Ramoji Sanskruti Bhavan, Aadhar Tal, Banganga Chauraha, Bhopal 462 003 (MP). Tel.:0755-6730000. E: directorculture@rediffmail.com	Member
04.	**Dr. D. Vijaya Bhaskar** Director, Department of Cultural Affairs, Kala Bhavan, Saifabad, Hyderabad 500004 (TS) Tel.: 040-23242482 E: apdirectorculture@gmail.com	Member
05.	**Shri Sanjay Patil** Director, Directorate of Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Old Secretariat Building, 1st Floor, M. G. Road, Mumbai 400 032 Tel.: 022-22842670, 22043571. E: mahaculture@gmail.com	Member
06.	**Ms. M. S. Archana, KAS,** Director, Directorate of Kannada & Culture, Government of Karnataka, Kannada Bhavan, J. C. Road, Bengaluru 560 002 Tel.: 080-22275540, 22212487. E: kanbhavblr@gmail.com	Member
07.	**Shri Shekhar Sen,** Sangeet Natak Academy, Rabindra Bhavan, Feroze Shah Road, New Delhi 110 001 Tel.: 011-23381833, 23382495. E: mail@sangeetnatak.gov.in	Member
08.	**Shri Krishna Kimbahune** Regional Secretary, Sahitya Academy, 172, Mumbai Marathi Grantha, Sangrahalaya Marg, Dadar, Mumbai 400 014. M: 09987214615 Tel.: 022-23381833, 24131948 Fax: 091-22-24147650 E: sahityakademimumbai@gmail.com	Member

PROGRAMME COMMITTEE MEMBERS

Sr. No.	Name & Address	
09.	**Shri R. M. Palaniappan** Regional Secretary, Lalit Kala Academy, Regional Centre, Chennai 600005 M: 094440400220. Tel.: 044-28290804 E: lka.chennai6@gmail.com	Member
10.	**Shahir Dada Pasalkar** 9-B/1, Guruwari Peth, Pune 411 042 Tel.: 020-24495657. E: shahirdadapasalkar@gmail.com	Member
11.	**Smt. Vani Devi** Principal, Sri Venkateshwara College of Fine Arts, Madhapur, Hi-tech City Road, Hyderabad 500 081 Tel.: 040-23543406; M: 09885195165 E: sesvanirao@gmail.com	Member
12.	**Miss Lalitha** Flat No.301, Bhaskara Towers, #3-4-507, Barkatpura, Hyderabad 500 027 M: 09885890979, 09908222437 E: hyderabadsisters@yahoo.com	Member
13.	**Smt. Krishna Verma** Malwa Lok Kala Kendra, L-96, Muni Nagar, near Talab, Ujjain 456010 (MP) M: 09827580135. E: krishnaverma56@rediffmail.com	Member
14.	**Shri Arun Moroney** 35/203, Navya Park Apartment, Lalaran Nagar, Indore 452 001 M: 09425318548. E: arunmoroney@gmail.com	Member
15.	**Shri Anil Kumar** F-43/12, South T. T. Nagar, Bhopal 462 003 M: 09425110004. E: anil1961kumar@gmail.com	Member
16.	**Shri Girish Pande** c/o Pratibha Goregaonkar, C/703, River Park, Opp. Saidham Mandir, Western Express Highway, Kandivali (E), Mumbai 440025 M: 09820377082. E: girishpande24@gmail.com	Member
17.	**Dr. Madhukar Wakode** Daryapur Road, Sangai Plot, Anjangaon Surji 444 705, Dist. Amravati (M.S.) M: 09421826863. Tel.: 07224-242376 E: drwakode@gmail.com	Member

PROGRAMME COMMITTEE MEMBERS

Sr. No.	Name & Address	
18.	**Shri Yogendra Choube** D. N. White, Lalpur, near Ramakrishna Hospital, Raipur 492 001 (C.G.) M: 9424184027. E: yogendra.gudi@gmail.com	Member
19.	**Shri Ashok Chandrakar** Gram - Mujgahan, Post - Sejbahar, Raipur 492 001 (CG). M: 09425522034 E: ashok.chandrakar@gmail.com	Member
20.	**Ms Yasmin Singh** D-1/20, Govt. Officers Colony. Devendra Nagar, Raipur 492 001 M: 09755038387. E: singh.yasmin1@gmail.com	Member
21.	**Shri Ravindra Sirivara** No.M-37/B, 8th Cross, Lalshminarayanpura, Bengaluru 560 001 (KS). M: 09844109706 E: ravisirivara@gmail.com	Member
22.	**Shri Appagere Thimmaraju** No.28, 10th Main, 4th Cross, Humpi Nagar, Vijayanagar, Bengaluru 560040 (KS) M: 09448086269. E: appagere@gmail.com	Member
23.	**Dr. Chakkere Shivashankar,** No.21, Pushya, KaviKeshi Raja Road, 10th “A” Cross Srinagar, Bengaluru 560050 (KS) M: 09945003029. E: dr.chakkere19@gmail.com	Member
24.	**Dr. Sajith E. N.** Director, South Central Zone Cultural Centre, 56/1, Civil Lines, Nagpur 440001 (MS) Tel.: 0712-2565107. E: director@sczcc.gov.in	Member Secretary

FINANCE COMMITTEE MEMBERS

Sr. No.	Name & Address	Tel./Mob./E-mail	Post
01.	**Smt. Valsa Nair Singh, IAS** Principal Secretary, Tourism & Culture, Government of Maharashtra, Room No.721, 7th Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032	022-22023472 / 22024531 09920800457 sec.tourism@maharashtra.gov.in tca.gom@gmail.com	Chairperson
02.	**Shri Kumar Sanjay Krishna, IAS** Financial Advisor, Ministry of Culture, Government of India, Room No.174, "H"-Wing, Krishi Bhavan, New Delhi 110 001	011-23381363 Fax: 011-23382532 08826277007 ypsingh2007@gmail.com samjay.krishna@nic.in	Member
03.	**Shri Manoj Shrivastava, IAS** Principal Secretary, Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, Vidhan Bhavan, Bhopal 462 001	0755-2576006 09425150651 shrivastava.manoj@hotmail.com pscommercialtax@gmail.com	Member
04.	**Shri Neerabh Kumar Prasad, IAS** Principal Secretary, Tourism & Culture, Government of Andhra Pradesh, "H"-Block, 1st Floor, Room No.204, AP Secretariat,, Hyderabad 500 022	040-23456717 / 23453674 Dy.Secy.: 09963979721 secycultureap@gmail.com secy_trsm@gov.in	Member
05.	**Shri S. R. Umashankar, IAS** Secretary to Govt. of Karnataka, Department of Kannada & Culture, Room No.2, Ground Floor, Vikasa Soudha, Bengaluru 560 001	080-22034002 09449597000 secy-kc@karnataka@gov.in	Member
06.	**Shri Santosh Kumar Misra, IAS** Principal Secretary to Government, Department of Culture, Naya Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Capital Complex, Naya Raipur 492002	0771-2510317 / 2510945 09479000471 deptt_culture@yahoo.co.in sectt1@gmail.com	Member
07.	**Shri Shailesh T. Jadhav** Director, Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Old Secretariat Building, 1st Floor, M. G. Road, Fort, Mumbai 400 032	022-22842634/70; 022- 22043571 09869085152 09820297349 mahaculture@gmail.com sanjay.bagade@nic.in	Member
08.	**Shri Rajesh Prasad Mishra, IAS,** Director, Department of Culture, Govt. of Madhya Pradesh, Sanskruti Bhavan, Banganga Road, Bhopal 462003	0755-6730000 Fax: 0755-2770597 mptrbalmuseum@gmail.com directorclture@rediffmail.com	
09.	**Dr. Piush Kumar** Director, South Central Zone Cultural Centre, 56/1, Civil Lines, Nagpur 440 001	0712-2562974 7507300000 director@sczcc.gov.in	Member

मध्यदक्षिणी S C Z C C

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Activity Report for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017

MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

Sl. No,.	Name of the Programme	Venue / State / UT	Duration	Art Forms presented	No of artists participated		No. of programmes		Expenditure Incurred (Rs.)	No. of target beneficiaries	Details of VIP's participation
					Male	Female	Rural & Mofussil area	Urban area			
1.	Aanandam – Yoga Shivir	Centre's premises, Nagpur	01.4.2016 to 30.04.2016	Yoga	35	15		Urban	--	50	Regular event
2.	Rashtriya Mahamurkh Sammelan	Centre's premises , Nagpur	01.04.2016	Shri Surendra Sharma Shri Hariom Pawar Shri Surendra Dubey Shri Pradeep Chaubey Shri Kiran Joshi Sardar Manjeet Singh Smt. Anjum Rahabar Shri G.K. Bansal	07	01	-	Urban		2500	Inaugurated by
3.	Mujhe bhi Kuch Kehana Hai	Centre's premises Nagpur	03.04.2016	Participants	7	5		Urban	5,000/-	150	Regular activity
4.	Brahmanaad	Centre's premises, Nagpur	10.04.2016	Pt. Sanjeev Abhyankar (Vocal)	5	--	--	Urban	1,50,000/-		Regular activity
5.	Baisakhi Festival	Jabalpur (M.P.)	16.04.2016	Bhangada Jindva & Punjabi folk Songs	16	07	-	Urban	1,65,000/-	-	Programme organized by Punjabi Hindu Association, Jabalpur (M.P.)
6.	National Level Meeting of Tribal Woman Grama Panchayat	Vijaywada (A.P)	18.04.2016	Kaksar (C.G.)	08	07	-	Urban	--	--	Programme organized by South Zone Cultural Centre, Thanjavur
7.	Simhasta Khumbha Mela	Bharatmuni Manch Ujjain	22.04.2016	Pt. Jasraj – Vocal	05	01		Urban	3,23,25,637/-	1500	Inaugurated by the hands of Shri Manoj Shrvastava, IAS, Principal Secretary, Department of Culture, Govt .of M.P. in presence of Shri Rajeshprasad Mishra, IAS, Director, Department of Culture, Govt. of M.P., Dr. Piush Kumar, Director, SCZCC, Nagpur
8.	Simhastha Khumbh Mela	Bhoj Manch Sadaval Ujjain (M.P.)	22.04.2016 To 26.04.2016	Kaksar/Gedi Nritya (C.G.) Panthi Nritya (C.G.) Dewar Gayan (C.G.) Pandwani Gayan(C.G.)	11 16 08 06	04 -- 01 01	-	Urban	2,00,000/-	2500	

9.	Sanskar Bharati Rangoli Workshop	Ujjain	22.04.2016 To 28.04.2016	Participants from Gwalior M.P.	18	12	-	Urban	2,00,000/-	3000	
10.	Tribal & Folk Painting Workshop	Gadkalika Manch, Ujjain	22.04.2016 To 28.04.2016	Participant artists from Jharkhand Bihar	02 02			Urban	1,30,000/-		
11.	Simhastha Khumbh Mela	Bharatmuni Manch, Ujjain	23.04.2016	Shri Ratanmohan Sharma, Bhajan	05			Urban	1,00,000/-	1500	
12.	Traditional Painting Workshop	Gadkalika Manch, Ujjain	25.04.2016 To 15.05.2016	Artists from Karnataka, Himachal Pradesh, Jammu Kashir, Rajasthan, Assam, Orissa , Andhra Pradesh , Kerala and Maharashtra	27			Urban	9,99,000/-		
13.	Contemporary Painting Workshop	Gadkalika Manch, Ujjain	25.04.2016 To 01.05.2016	Delhi, Karnataka, Chandigarh, Hariyana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Goa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal	17	05		Urban	7,37,000/-		
14.	Simhastha Khumbh Mela	Bharatmuni Manch, Ujjain	26.04.2016	Nritya Natika Padmashri Geeta Mahalik	04	01			1,10,000/-	1500	
15.	Simhastha Utsav	Bhoj Manch Sadaval Ujjain (M.P.)	27.04.2016 To 01.05.2016	Dahaka (M.S.) Gusadi / Bonalu (A.P.) Bhartari Gayan (C.G.) Khanjeri Vadan (M.S.)	11 12 07 06	-- 08 01 --		Urban	1,50,000/-	3000	
16.	Simhastha Khumbh Mela	Kalidas Manch Ujjain (M.P.)	28.04. 2016	Kalapini Komkali	04	01		Urban	75,000/-	1500	
17.	Sanskar Bharti Rangoli Workshop	Ujjain City (M.P)	30.04.2016 To 07.05.2016	Artists from Pune, District	15	15		Urban	2,00,000/-	3000	
18.	Aanandam – Yoga Shivir	Centre premises Nagpur	01.5.2016 to 31.05.2016	Yoga	35	15		Urban	--	50	Regular event
19.	Mujhe bhi Kuch Kehana Hai	Centre premises Nagpur	01.05.2016		7	5		Urban	5,000/-	150	Regular activity
20.	Rang Sangeet Dhwani Sanskar workshop	Centre's premises, Nagpur	01.05.2016 To 10.05.2016	Shri Amod Bhatt Workshop director Participants	01 35			Urban	44,695/-	100	
21.	Contemporary Painting Camp	Gadkalika Manch, Ujjain	02.05.2016 To 08.05.2016	Artists from All over India	18	16		Urban	9,90,000/-		
22.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Manch Ujjain	04.05.2016	Kavi Sammelan Shri Ashok Chakradhar & Other	05	-	-	Urban	95,000/-	800	
23.	Brahmanaad	Centre premises Nagpur	08.05.2016	Ms. Suchismitha & Ms. Debopriya	5	--	--	Urban	1,30,000/-	400	Regular activity
24.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	08.05.2016	Padmshri Pt. Satish Vyas – Santoor	03	-	-	Urban	1,25,000/-	1200	
25.	Tribal & Folk PaintingWorkshop	Kaladas Academy, Ujjain	08.05.2016 To 14.05.2016	Artists from Madhya Pradesh & Assam State	01 02	01		Urban	1,30,000/-		
26.	Sanskar Bharti Rangoli Workshop	Ujjain	08.05.2016 To 15.05.2016	Participants artists from Solapur District	14	16		Urban	2,00,000/-	3000	

27.	Contemporary Painting Camp	Kalidas Acecemy, Ujjain	09.05.2016 To 15.05.2016	Participants artists from all over India	20	05		Urban	9,90,000/-		
28.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	10.05.2016	Shri Nizami Bandhu Suffi Quwali	08	--		Urban	2,00,000/-		
29.	Malwa Utsav	Indore (M.P.)	10.05.2016 To 16.05.2016	Thangta (Manipur) Dhobia Nritya Bardoi Shikla	15 15 08	-- 7		Urban	--	1500	Programme organised by Lok Sankruti Manch, Indore. The Cente sponsored the artists
30.	Simhastha Khumbh Mela	Bharatmuni Manch Ujjain	11.05.2016	Padmashri Pt. Vishwamohan Bhatt	04	--		Urban	1,75,000/-	1700	
31.	Simhastha Khumbh Mela	Bharatmuni Manch Ujjain	12.05.2016	Padmashri Pinaj Masani-Bhajan	06	01	--	Urban	1,71,492/-	1000	
32.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	12.05.2016	Padmashri Bhai Nirmal Singh – Shabad Gayan	04			Urban	1,25,000/-	1200	
33.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch Ujjain	13.05.2016	Padmashri Pt. Vijay Ghate & his groups Shyam Rang	8	-	-	Urban	5,88,000/-	1500	
34.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	13.05.2016	Shri Chetan Joshi – Flute	03			Urban	1,00,000/-	1200	
35.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Mnach Ujjain	14.05.2016	Shri A. Akash – Bansuri Vadan	03	--	--	Urban	40,000/-	800	
36.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	14.05.2016	Shri Uday Bhawalkar – Dhrupad vocal	04			Urban	75,000/-	700	
37.	Simhastha Khumbh Mela	Bharatmuni Manch, Ujjain	15.05.2016	Padmashri Pt. Suresh Talwalkar & his groups – Tal Kirtan	10	-	-	Urban	4,00,000/-	2500	
38.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Manch	15.05.2016	Shri Samartha Janve-Vocal	03	-	-	Urban	40,000/-	1200	
39.	Tribal & Folk Painting Workshop	Kaladas Academy, Ujjain	15.05.2016 To 21.05.2016	Participants artists from Madhya Pradesh & Assam States	01 02	01	-	Urban	1,30,000/-		
40.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	15.05.2016	Padmashri Bhajan Sopori- Santoor Vadan			-	Urban	1,50,000/-	2500	
41.	Tribal & Folk Painting Workshop	Kalidas Academy, Ujjain	15.05.2016 To 21..05.2016	Participants artists from Madhya Pradesh & Assam states	01 02	01	-	Urban	1,30,000/-		
42.	Traditional Tribal & Folk workshop	Kalidas Academy, Ujjain	15.05.2016 To 24.05.2016	Participation artists from all over India	11	04	-	Urban	2,82,000/-		
43.	Sanskar Bharti Rangoli Workshop	Ujjain	16.05.2016 To 22.05.2016	Participants artists from Nagpur District	06	24	-	Urban	2,00,000/-	3000	
44.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Manch, Ujjain	16.05.2016	Shri Talegaonkar – Guitar	02		-	Urban	60,000/-	1300	
45.	Simhastha Khumbh Mela	Bharatmuni Manch, Ujjain	16.05.2016	Shri Ronu Muzumdar – Flute	05		-	Urban	1,25,000/-	1500	
46.	Simhastha Kumbh Mela Utsav	Sadaval Manch Ujjain	17.05.2016 To 18.05.2016	Smt. Tijanbai (C.G.) Pandwani Gayan	07	01	-	Urban	1,50,000/-	2000	
47.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Manch, Ujjain	17.05.2016	Shri Shirish Bhalerao – Violin	04			Urban	50,000/-	1200	
48.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Manch, Ujjain	17.05.2016	Ira Mukharjee- Vocal	02	01	-	Urban	50,000/-	1500	

49.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Manch Ujjain	18.05.2016	Prof. Sahitya kumar Nahar & Dr. Santosh Nahar - Sitar & Violin Jugalbandi	03	-	-	Urban	35,000/- & 30,000/-	1200	
50.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	18.05.2016	Padmashri Wasifuddin Dagar - Dhrupad Vocal	05	-		Urban	90,000/-	1500	
51.	Simhastha Khumbh Mela	Gadkalika Manch, Ujjain	19.05.2016	Pt. Rajan Kulkarni – Sarod Vadan	03	-		Urban	60,000/-	1200	
52.	Simhastha Kumbh Mela	Bhoj Manch, Ujjain	19.05.2016	Pt. Nathrao Neralkar-Bhajan	06	-		Urban	80,000/-	1200	
53.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	20.05.2016	Dr. Tanuja Nafade	04	01	-	Urban	75,000/-	1500	
54.	Simhastha Kumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	20.05.2016	Shri Premkumar Malik & Songs - Dhrupad	06			Urban	85,000/-	1500	
55.	Simhastha Kumbh Mela	Bharatmuni Manch, Ujjain	21.05.2016	Padmashri Kiran Sahagal	06	--	--	Urban	1,50,000/-	1200	
56.	Simhastha Khumbh Mela	Triveni Manch, Ujjain	21.05.2016	Padmashri Yella Venkat Rao – Instrumental				Urban	4,00,000/-	1500	
57.	Cultural Programme	NADT Nagpur	23.05.2016	Powada (M.S.) Lavani(M.S.) Lingo (M.S.)	07 08 15	-- 07 --		Urban	1,71,110.25p	--	Programme organized by NADT, Nagpur.
58.	Aanandam – Yoga Shivir	Centre premises Nagpur	01.6.2016 to 30.06.2016	Yoga	35	15		Urban	--	50	Regular event
59.	Adiwasi Mahotsava	Futala Talab, Telankhedi, Nagpur	04.06.2016	Songi Mukhwate M.S. Saila Karma (M.P.) Kaksar (C.G.)	15				1,55,000/-		
60.	Mujhe bhi Kuch Kehana Hai	Centre premises Nagpur	05.06.2016		7	5		Urban	5,000/-	150	Regular activity
61.	Anandam	Nagpur	01.07.2016 to 31.07.2016	Yoga	20	10	-	-	-	-	-
62.	Mujhe Bhi Kuchh Kahena Hai	Nagpur	03/07/2016	Vocal & Instrumental	10	03	-	-	5,000	100	-
63.	Shravansari -2 (Painting Training Workshop)	Centre Premises Nagpur	07/07/2016 To 16/07/2016	No. of Experts No. of Participants	14 12	01 138	-	Urban	9,41,321/-	-	-
64.	Brahmanaad	SCZCC Campus, Nagpur	10/07/2016	Geet Gazal by (1) Radhika Chopra (2) Jugalbandi by Aditya Modak & S.Aakash	01	03	-	Urban	2,00,000/-	500	Regular activity. Inaugurated by Shri Anup Kumar, IAS, Divisional Commissioner, Nagpur.
65.	International Seminar	Amarkantak (MP)	12/07/2016	Karma Nritya	15	-	-	Urban	30,000/-		-
66.	India International Garment fare, New Delhi.	New Delhi	19/07/2016	Kathak Ballet by Uma Sharma & Group,N.Delhi	05	13	-	Urban	85,000/-	500	-
67.	Dr. Vasantrao Deshpande Rashtriya Yuva Sanglt Pratiyogita	SCZCC Premises Nagpur	23/07/2016 to 29/07/2016	Hindustani/ Carnatic Classical Vocal & Instrumental Competition	113	41	-	Urban	17,20,447/-	Daily 200	-

68.	Display of famous Portrait Rangoli Workshop of Maharashtra on Legendary Musicians of India.	Raja Ravi Verma Art Gallery, Nagpur & Dr. Vasantrao Deshpande Sabhagruha, Nagpur.	26/07/2016 to 31/07/2016	Rangoli Arists from Mumbai (M.S.)	04	-	-	-	90,000	4500	-
69.	**Silver Jubilee Celebration of** Dr. Vasantrao Deshpande Antar-Rashtriya Sangeet Samaroh.	Dr.Vasantrao Deshpande Sabhagruha, Nagpur.	30/07/2016 to 03/08/2016 (5 days)	**<u>30/7/2016</u>** -Carsten Wicke Germany (Rudra Veena) -Pt. M. Venkateshkumar (Hindustani Vocal) - Dr.L. Subramaniam (Violin)	03 05 04	-	-	-	91,01,176/-	900-925	Inaugurated by Sh. Nitin Gadkari, Hon. Minister of Road Transport and Highways & Shipping, Justice Bhushan Gavai & Sh.Devendra Parekh,ChairamanVED.
				<u>31/7/2016</u> -Taka Hiro, Japan (Santoor) -Pt.Hariprasad Chaurasia (Flute) with Pt. Vijay Ghate (Tabla) & -Pt .Bhavani Shankar (Pakhawaj), -Shama Bhate & Group (Nritya Vasant-Kathak Ballet), Pune.	02 02 01 01 06	- - - - 10	-	-	--	950 -1000	Sh. Krupal Tumane,Hon.M.P Sh. Vijay Darda, Hon.MP,Sh.Anoop Kumar,IAS,Div.Co-mmissioner, Ngp.,& Justice Bhushan Gavai, Sh. Ranjit Deshmukh Ex.Minister,M.S.
				<u>01/08/2016</u> -Tarun Roshan Lala (Tabla) Nagnath Adgaonkar (Hindustani) -Sangeet Preeti-Sangam (Sangeet Natak by Mum. Mar. Sah.Sangh, Mumbai	02 03 24	- - 08	-	-	--	900-1000	Justice Prasanna Varade, Pt. Shyamsunder Khadnavis, Adv. Sh.Dinkarrao Kukde,Sh.Kanse & Sh. Ranjit Deshmukh Ex.Minister,M.S.
				<u>02/08/2016</u> -Deepti Namjoshi (Hindustani Vocal) -Dr. Kadri Gopalnath (Saxo-phone) & Pravin Godhindi(Flute) -Rashid Khan (Hindutani Vocal)	03 05 06	- - -	-	-	--	925-975	Dr. Smt. Kamlatai Bhonde & Prof. Dr. Alaknanda Tuljapurkar,Reno- wned artists,Sh. Ranjit Deshmukh Ex.Minister,M.S. & Sh.Anoop Kumar,IAS,Divisional Commissioner,Nagpur
				<u>03/08/2016</u> - A.Sivamani & Runa Rizvi (Fusion) -Rahul Deshpande (Hindustani Vocal) - Ustad Amjad Ali Khan (Sarod)	05 05 02		-		--	1000-1200	Justice Bhushan Gavai, Justice Prasanna Varale, Sh.Anoop Kumar,IAS,Div.Commissioner,Ngp., Sh. Amit Agrawal, Manager, South Central Eastern Railway, Nagpur & Shri Ranjit Deshmukh.
70.	A Multimedia, Photographic Exhibition &	Raja Ravi Verma Art Gallery,	30/07/2016 to 03/08/2016	Rangoli Artists from Mumbai	04	--	--	--	--	--	Exhibition Inaugurated by Sh Nitin Gadkari, Hon. Minister of Road Transport and Highways &

मध्यदक्षिणी S C Z C C

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Activity Report for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017

MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

	Maharashtra Creative Rangoli Exhibition on Dr. Vasantrao Deshpande.	Nagpur.									Shipping & Sh. Devendra Parekh,Chairaman VED,
71.	Tere Nam Ka Diwana	Nagpur	31/07/2016	Vocal	11	04	-	Urban	25,000/-	600	--
72.	Anandam	CentrePremises Nagpur	01/08/2016 to 31/08/2016	Yoga	35	15	-	Urban	-	50	Regular event
73..	Mujhe Bhi Kutch Kaihana Hai	CentrePremises Nagpur	07/08/2016	Vocal & Instrumental	08	02	-	Urban	5,000/-	165	--
74..	Antar Rashtriya Mool Niwasi Diwas	Raipur (C.G.)	09/08/2016 to 11/08/2016	Songi Mukhawate (M.S.) Siddhi Dhamal (Gujarat) Pung Cholam (Manipur) Baiga Pardhoni (M.P.) Bardoishikhla (Assam) Hojagiri (Tripura) Cherau (Mizoram)	15 14 15 05 08 06 06	- - - 09 07 09 09	Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - - - -	7,07,504/-	103	Programme inaugurated by Sh Raman Singh, Hon. Chief Minister of Chhattisgarh, Hon Shri Gaurishankar A. Vidhan Sabha Speaker (C.G.), Shri Dayal Das, Hon. Culture Minister of C.G. & other dignitaries
75.	Opening of Regional Centre	Raipur (C.G.)	09/08/2016 to 15/08/2016	Madhubani Painting	01	02	Rural	-	45,000/-		-- do –
76.	Opening of Regional Centre	Raipur (C.G.)	10/08/2016 To 16/08/2016	Warli Painting Workshop	02	01	Rural	-	42,000/-		-- do --
77.	Opening of Regional Centre	Raipur (C.G.)	12/08/2016 To 15/08/2016	Creative Rangoli Artists., Mumbai.	06	-	-	Urban	75,000/-		
78.	Bharat Parv	New Delhi	12/08/2016 To 18/08/2016	(1) Songi Mukhwate (M.S.) (2) Pandwani Gayan(C.G.)	15 06	- 01	-	Urban	--	--	Organised by North Zone Cultural Centre, Patiala.
79.	Brahmanaad	SCZCC Campus, Nagpur	14/08/2016	(1) Mr. Om Bongane,Mumbai (Classical Vocal) (2) Pt. Ulhas Bapat, Mumbai. (Santoor)	03 02	- -	-	Urban	1,25,000/-	550	Regular activity. Inaugurated at the hands of Smt. Sangita Piush Kumar, Dr. Suniti Dev, Smt. Aruna Rao, Smt. Namita Sharma & Smt. Anjali Minocha.
80.	Opening ceremony of Regional Centre of SCZCC, Raipur	Raipur (C.G.)	15/08/2016	(1) Sufi Gayan by Wadali Brothers (2) Shiv Mudra Dhol,	10 37	- 13	-	Urban	9,00,000/-	2000	Same (As per Sr. No.3)
81.	World Folklore Day	Ramnagar & Bangalore (K.S.)	20/08/2016 to 22/08/2016	(1) Chakri Bhajan (K.S.) (2) Gangaur (M.P.) (3) Panthi (C.G.)	15 15 15	- - -	-		2,19,605/-	-	Organised by Akhil Karnataka Janpada Kalavidara, Bangalore.
82.	Annabhau Sathe Jayanti. (Annabhau Sathe-nna Manavandana)	Yashwant Natya Mandir, Matunga, Mumbai. (M.S.)	1st August, 2016 (One day)	Folk Art Form of Maharashtra	22	03	--	Urban	3,30,000/-	1000	--
83.	Anandam Yoga Shivir	CentrePremises Nagpur (M.S.)	01.09.2016 to 30.09.2016	Yoga	25	15	-	Urban	--	--	Regular activity
84.	Brics Sammelan	Shilpgram, Khajuraho (M.P.)	02/09/2016	Pung Cholam (Manipur) Bihu Nritya (Assam) Bhavai Nritya (Raj.) Bhangda (Punjab) Sidhhi Dhamal(Guj.) Gotipua (Odisha)	12 07 02 15 15 15	- 08 - - - -	Rural	-	64,508/-	1500	Shri Ram Sahay Pandey, Shikhar Sanmman, Rai Group Leader inaugurated the programme.

				Rai Nritya (M.P.)	12	04					
85.	Mujhe Bhi Kutch Kahena Hai	Nagpur (M.S.)	04/09/2016	Vocal, Dance, Instrumental, Mimicry	12	04	-	Urban	1,80,000/-	500	Regular activity
86.	Katol Festival	Katol, Narkhed & Kondhali (M.S.)	10/09/2016 to 13/09/2016	Theatre (M.S.) Panthi Nritya (C.G.) Songi Mukhwate(M.S.) Rannappa(Odisha) Gudum Baja (M.P.) Bihu Nritya (Assam) Gusadi (A.P.)	10 15 15 15 15 05 12	05 - - - - 10 03	 - Rural Rural Rural Rural Rural	Urban - - - -	4,09,600/-	5000	Inaugurated by Sh. Ashish Deshmukh, M.L.A.
87.	Brahmanaad	Centre's Premises Nagpur (M.S.)	11/09/2016	Classical & Semi Classical (Smt. Aarti Ankalikar - Tikekar)	03	02	--	Urban	2,00,000/-	500	Regular activity. Inaugurated at the hands of Prof. Mahesh Elkunchwar eminent Theatre Personality & Hon'ble Judge Shri Prasanna Warale.

88.	Nayyar Mela	Nayyar (Kerala)	15/09/2016 To 25/09/2016	Gudum Baja (M.P.)	15	-	Rural	-	--	Organised by SZCC Thanjavur	--
89.	National Tribal Music & Dance Festival	Gubbi District-Tumkur (K.S.)	23/09/2016 to 25/09/2016	Soman Kunitha(K.S.) Kilu Kudure (K.S.) Pandwani Gayan Basuri Dance & Thatya Dance (M.P.) Lingo Dance (M.S.) Sambhalpuri Dance(Odisha) Chhau Dance (W.B.) Lambadi & Mathuri Dance (Telangana)	15 10 05 08 13 07 15 07	- - 01 08 07 08 - 08	Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - - - - -	8,15,348/-	1000 per day	Prog. Inaugurated by Mayor & D.C. Tumkur, President Z.P.
90.	Lok Kala Yatra	Jatashankar (M.P.) Dist. Chhatarpur	23/09/2016	Songi Mukhwate(M.S.) Purlia Chhau/Paika Nritya (W.B.) Gusadi Nritya (A.P.) Dholu Kunitha (K.S.)	15 15 15 15	- - - -	Rural Rural Rural Rural	- - - -	5,31,679/-	700	Shri Ravindra Choukse, SDM, Bijavur, Sh. Arvind Agrawal, President, Shivdham, Jatashankar Trust, Sh. R.R. Chadhar, Tehsildar, Sh. K.S. Parihar, Thana Prabhari, Jatashankar
91.	Lok Kala Yatra	Jhamtoli (M.P.) Dist. Chhatarpur	24/09/2016	Songi Mukhwate(M.S.) Purlia Chhau/Paika Nritya (W.B.) Gusadi Nritya (A.P.) Dholu Kunitha (K.S.)	15 15 15 15	- - - -	Rural Rural Rural Rural	- - - -	--	1200	Sh. Raj Bahadur Singh, SarpanchJhamtoli, Sh. K.V. Singh, Thana Prabhari-Bhamitha.
92.	Lok Kala Yatra	Lovkush Nagar (M.P.) Dist. Chhatarpur	25/09/2016	Songi Mukhwate(M.S.) Purlia Chhau/Paika Nritya (W.B.) Gusadi Nritya (A.P.) Dholu Kunitha (K.S.)	15 15 15 15	- - - -	Rural Rural Rural Rural	- - - -	--	500	Sh. Dhurveji, SDM, Lovkushnagar, Sh. Mishraji, SDOP, Lovkushnagar, Sh.Rajendra Deo Chaurasia, Principal, Utkrustha Higher Secondary School, Lovkushnagar.

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Activity Report for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017

93.	World Tourism Day	Chhattisgarh	25/09/2016 To 27/09/2016	Pt. Rajan Sajan Mishr (Classical Vocal) Pt. Vijay Ghate & other (Melodik Rhythm)	06 07	- 01	- -	Urban Urban	13,00,000/-	4500	Programme organized by Dept. of Tourism & Dept. of Culture, Govt. of C.G.
94.	Lok Kala Yatra	Forfoud Khai Khut Jewara (C.G.)	28/09/2016 to 30/09/2016	Rai Nritya (M.P.) Lawani (M.S.) Bhartari Gayan(C.G.) Lok Natya (C.G.)	10 06 05 14	02 06 01 06	Rural Rural Rural Rural	- - - -	6,75,949/-	12000 (Three days)	Prog. Inaugurated by Sarpanch Sh. Himmat Chandar-Farfaud Sarpanch Sh. Shiv Hanumanta – Khairkhunt & Sh. Udai Bhaskar Singh-Jewara
95.	Sanja Lokotsav	Ujjain (M.P.)	30/09/2016 to 02/10/2016	Dandar (M.P.) Gendi Nritya (C.G.) Powada (M.S.)	15 15 15	- - -	Rural Rural Rural	- - -	2,35,673/-	--	- Organised by Pratikalpa Sanskrutik Sanstha, Ujjain (M.P.)
96.	Anandam (Yoga Shivir)	Centre Premises Nagpur (M.S.)	01.10.2016 & 31.10.2016	Yoga	25	15	-	Urban	--	--	Regular activity
97.	Dussehara Festival	Mysore (K.S.)	01/10/2016 To05/10/2016	Lavani (M.S.) Panthi (C.G.) Saila Karma(M.P.)	07 15 10	08 -- 05	- Rural Rural	Urban - -	3,27,165/-	--	Oraganised byDept. Of Kannada & Culture, Mysore.
98.	Mujhe Bhi Kutch Kahena Hai	Nagpur (M.S.)	02/10/2016	Vocal, Dance, Instrumental, Poet	10	04	-	Urban	6,100/-	400	Regular activity
99.	Durga Puja Mahotsav	Nagpur (M.S.)	07/10/2016 & 08/10/2016	Chhau Nritya (Jharkhand) Gondhal (M.S.)	18 18	-- --	Rural -	-	--	1000	Organised by Pashchim Nag-Bangiya Samiti.
100.	Koradi Mahotsava	Koradi, Nagpur (M.S.)	07/10/2016 to 09/10/2016	Chhau (Jharkhand) Gondhal (M.S.) Charkula (U.P.) Baharupi (Rajasthan) Sh. Anup Jalota (Bhajan)	18 10 15 10 06	-- -- 06 --	Rural Rural Rural Rural -	- - - - Urban	--	--	Inaugurated by Sh. Chandrashekhar Bawankule, Hon. Minister for Energy, M.S. Sh. K. Tumane, Hon. Member of Parliament., Sh. Sachin Kurve, Collector, Nagpur & Sh. A.Jaiswal, Ex. MLA, Ramtek.
101.	Dussehara Mela	Hyderabad (Telangana)	08/10/2016 to 12/10/2016	Ghoomar (Haryana) Kaksar (C.G.) Dhangari Gaja (M.S.)	10 10 15	05 05 --	Rural Rural Rural	- - -	3,08,840/-	--	Organised by Shilparamam, Hyderabad.
102.	Brahmanaad	SCZCC Campus, Nagpur (M.S.)	09/10/2016	Shri Rahul Sharma, (New Delhi) (Santoor Vadan)	02	--	--	Urban	1,75,000/-	500	Sh. Anup Kumar, I.A.S. Divisional Commissioner has graced the occasion.
103.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	I.G.N.C.A., New Delhi	09/10/2016 To 15/10/2016	Lavani (M.S.) Panthi (C.G.) Dhollu Kunitha (K.S.) Lezim (M.S.) Mathuri (Telangana) Pandwani (C.G.) Powada (M.S.)	08 15 15 09 10 06 13	07 - - 06 05 01 02	Rural Rural Rural - - Rural Rural	- - - Urban Urban - -	1,00,38,744/-		Programme Inaugurated by Sh. Rajnath Singh Hon. Home Minister, Govt. of India, Dr. Mahesh Sharma, Hon. State Minister of Culture, Govt. of India and other dignitaries.
104.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	I.G.N.C.A., New Delhi	10/10/2016 to 24/10/2016	Portrait Creative Rangoli Artists from M.S.	07	-	-	Urban	Included in Sr.No.103		
105.	2nd International Crafts & Cultural Fair	Belgaum (K.S.)	12/10/2016 to 16/10/2016	Gaur Maria (C.G.) Songi Mukhawate (M.S.)	09 15	06 -	Rural Rural	- -	2,40,234/-	--	Organized by Kannada & Culture, Govt. of Karnataka & Innovative Leisure Pvt. Ltd.
106.	Srijan	Art Gallery, SCZCC, Nagpur.	14/10/2016 to 20/10/2016	Painting Exhibition By Suresh Gangakhedkar, Hyderabad (Telangana)	01	-	--	Urban	1,25,000/-	300 during 7 days	Inaugurated at the hands of Sh. Pramod Babu Ramteke, Senior renowned Artist.

107.	Agni Mahotsava	Panna & Khajuraho (M.P.)	14/10/2016 to 16/10/2016	Veernatyam (A.P.) Thangta (Manipur) Charkula (U.P.) Chari Nritya ((Raj.) Badhai & Norta (M.P.)	15 15 10 05 10	- 01 02 05 05	Rural Rural Rural Rural -	- - - - Urban	4,06,465/-	2500 during 3 days	(1) Smt. J.P. Irene Cynthing, IAS, Collector, Panna (2) Sh. O.P. Tripathi, IPS, Supt. of Police, Panna (3) Sh. Mohanlal Kushwah, (4) President Nagar Palika, Panna (5) Sh. O.P. Dubey, C.E.O.,Panna (6) Sh.M.S. Meena, IAS, SDM Rajnagar, Khajuraho
108.	RashtriyaSanskriti Mahotsava(Painting Workshop)	I.G.N.C.A., New Delhi	15/10/2016 to 24/10/2016	Participants	07	13	16 Rural	4 Urban	Included in Sr.No.103	--	--
109.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava "Drums on Fire" "Lawni Cha Thaska"	I.G.N.C.A., New Delhi -- --	15/10/2016 to 24/10/2016 -- --	**Star Artists on SCZCC Day 21st October, 2016** 1) Shivmani, World Percussionist (MS) 2) Louis Banks, Key Board (MS) 3) Ravi Chari,Sitar(MS) 4) Ojas Adhiya(MS) Tabla, 5) Maya Jadhav & Troupe–Lawni(MS) 6) Padmshri Prahlad Tipania & Group–Kabir Gayan(MP)	09 ---- **09** 13 08	-- -- -- -- 09 -- --	- - - - - - -	Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban	--	3000	**Guests :** Sh N.K.Sinha, Secretary, Ministry of Culture,Govt. of India,Sh. M.L. Shrivastava, Jt. Secretary, Ministry of Culture,Govt. India & Navneet Soni, OSD to Hon.Minister of Culture, Govt. of India.
110.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	I.G.N.C.A., New Delhi	15/10/2016 to 24/10/2016	Craftsmen (National Awardee, State Awardee, N.M.C Holder & General) & Traditional Food Stalls	15 Main + 14 Assts 03	1 Main, 1 Asst. 01	26 Rural -	4 Urban Urban	-- --	-- --	--
111.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	I.G.N.C.A., New Delhi	16/10/2016 to 24/10/2016	Sh. Raghuraj Deshpande (MS) & asso. (Sanskar Bharti Rangoli Artists)	01 04	- -	-	Urban	Included in Sr.No.103	--	--
112.	Workshop on Creating Awareness about the Growing Drug Menace.	Khajuraho (M.P.)	16/10/2016	Sh. Anoop Lather, Mannat Singh, Astha Singh, Prof. Ahu Singh	01	03	-	Urban	50.000	--	--
113.	Lok Kala Yatra	Sawantwadi (M.S.)	16/10/2016	Samai (Goa) Panthi Nritya (C.G.) Gangaur (M.P.) Bardoishikhala (Assam) Rannappa (Odisha)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - -	6,91,348/-	1500	Inaugurated by Sh. Dipak Kesarkar Hon. Minister of State for Finance, Rural Home & Planning, M.S., Sh. R. Pokale, Dy. President, Sawantwadi Nagar Parishad, Sh. A Gaonkar, S.P., Sindudurg,
114.	Lok Kala Yatra	Banda (M.S.)	17/10/2016	Samai (Goa) Panthi Nritya (C.G.)	15 15	- -	Rural Rural	- -	--	1000	Inaugurated by Dy. Sarpanch, Banda.

				Gangaur (M.P.) Bardoishikhala (Assam) Rannappa (Odisha)	05 07 15	10 08 -	Rural Rural Rural	- - -			
115.	Lok Kala Yatra	Nemale (M.S.)	18/10/2016	Samai (Goa) Panthi Nritya (C.G.) Gangaur (M.P.) Bardoishikhala (Assam) Rannappa (Odisha)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - -	--	3500	Inaugurated by Sh. D. Sadale, H.M.& Nemale Panchkoshi.
116.	Lok Kala Yatra	Ugawem (Goa)	19/10/2016	Samai (Goa) Panthi Nritya (C.G.) Gangaur (M.P.) Bardoishikhala (Assam) Rannappa (Odisha)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - -	6,91,348/-	1000	Inaugurated by Sh. A. Mahale, Chairman, Mahuli Devsthan.
117.	Lok Kala Yatra	Thivim (Goa)	20/10/2016	Samai (Goa) Panthi Nritya (C.G.) Gangaur (M.P.) Bardoishikhala (Assam) Rannappa (Odisha)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - -	--	1000	Inaugurated by Sh. Ashok Parab, Dy. Director Art & Culture, Govt. of Goa.
118.	Lok Kala Yatra	Prenem (Goa)	21/10/2016	Samai (Goa) Panthi Nritya (C.G.) Gangaur (M.P.) Bardoishikhala (Assam) Rannappa (Odisha)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - -	--	1000	Inaugurated by Sh. N. Naik, Education Officer, Prenem, Govt. of Goa.
119.	Lokdhara	Ratlam & Prithampur (M.P.)	21/10/2016 to23/10/2016	Lavani & Koli Nritya (M.S.)	11	07	--	Urban	66,690/-	--	Organised by Dept. of Culture, Govt. of Madhya Pradesh
120.	Lok Kala Yatra	Sangli (M.S.)	22/10/2016	Samai (Goa) Panthi Nritya (C.G.) Gangaur (M.P.) Bardoishikhala (Assam) Rannappa (Odisha)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	Rural Rural Rural Rural Rural	- - - - -	61,000/-	4000	Inaugurated by Collector, Sangli & Sh. Gautam Patil, President, Shantiniketan Sangli (M.S.)
121.	Anandam (Yoga Shivir)	Centre'sPremises Nagpur(M.S.)	01.11.2016 & 30.11.2016	Yoga	25	15	--	Urban	--	--	Regular activity
122.	Rajyotsav "Drums of India"	Raipur (C.G.)	01/11/2016	Dhol Nritya(Punjab) Nagada (Haryana) Mridangam(W.B.) Pung & Dhol Cholam (Manipur) Madal (C.G.) Bhangda Dhol(Punjab) Dholak (Haryana) Gudum Baja (M.P.) Sing Baja (M.P.) Britchari (Haryana) Sambalpuri (Jharkhand)	15 05 11 15 11 03 10 13 11 01 10	--			20,58,688/-	800	Inaugurated by Dr. Raman Singh Hon. Chief Minister of Chhattisgarh & Hon. Dignitaries.
123.	Rajyotsav (Folk Dance)	Raipur (C.G.)	01/11/2016	Siddhi Dhamal (Guj) Rathwa Nritya (Guj)	15 15	-- 10	Rural Rural	-- --	Included in Sr.No.122	--	--

124.	Rajyotsav (Ishan Parv)	Raipur (C.G.)	03/11/2016	Bihu Nritya (Assam) Thangta Martial Art (Manipur)	15 08	04 --	Rural	--	3,00,000/-	--	Dr. Raman Singh Hon. Chief Minister of Chhattisgarh & Hon. Dignitaries were present.
125.	Hampi Utsav	Ballari (K.S.)	03/11/2016 to 05/11/2016	Gudum Baja (M.P.) Panthi Nritya(C.G.) Songi Mukhawate (M.S.)	15 15 15	-- -- --	Rural Rural Rural	-- -- --	2,44,792/-	--	Organized by Kannada & Culture, Bangalore
126.	Natya Mahotsava	Sihore (M.P.)	04/11/2016 & 05/11/2016	Theatre	10	10	Rural	--	30,000	--	--
127.	Mujhe Bhi Kutch Kahena Hai	Nagpur (M.S.)	06/11/2016	Vocal, Dance, Instrumental, Theatre	12	02	--	Urban	9,400	600	Regular activity
128.	Natyaotsav	Goa	10/11/2016 & 11/11/2016	Theatre (M.P.) Theatre (C.G.)	13 20	05 --	-- --	Urban	1,50,000	--	Organized by Dept. of Culture, Govt. of Goa.
129.	Brahmanaad (Regular Prog.)	SCZCC Campus, Nagpur(M.S.)	13/11/2016	Vidvan Ganesh & Kumresh	04	--	--	Urban	1,75,000	500	Regular activity. Inaugurated by Shri Anup Kumar, IAS, Divisional Commissioner,Nagpur.
130.	Lok Kala Yatra	Indira Gandhi Municipal High School Kurnool (A.P.)	14/11/2016	Lawani (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Lambadi(Telangana) Panthi Nritya (C.G.) Norta, Badhai Nritya(M.P.) Local Group (A.P.)	09 15 11 15 08 05	06 -- 07 -- 07 --	-- Rural Rural Rural --	Urban -- -- -- Urban	5,22,566/-	2000	Inaugurated at the hands of Shri Atahu Rehaman, Smt. Anusuya Madam,
131.	Lok Kala Yatra	GVRZP High School, Kudumuru (A.P.)	15/11/2016	Lawani (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Lambadi(Telangana) Panthi Nritya (C.G.) Norta, Badhai Nritya(M.P.) Local Group (A.P.)	09 15 11 15 08 05	06 -- 07 -- 07 --	-- Rural Rural Rural -- Rural	Urban -- -- -- Urban --	Included in Sr.No.130		Shri Hanumanth Rao Retd. Head Master, Shri Kashinath, Retd. Head Master
132.	Lok Kala Yatra	ZP High School for Girls, Gudur (A.P.)	16/11/2016	Lawani (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Lambadi(Telangana) Panthi Nritya (C.G.) Norta, Badhai Nritya (M.P.) Local Group (A.P.)	09 15 11 15 08 05	06 -- 07 -- 07 --	-- Rural Rural Rural -- Rural	Urban -- -- -- Urban --	--		Shri Naga Bhupal Naidu (Mandal Education Officer, Shri Jairam (Telugu Pandit)
133.	Lok Kala Yatra	Z.P. High School, Jallapur (Telangana)	17/11/2016	Lawani (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Lambadi(Telangana) Panthi Nritya (C.G.) Norta, Badhai Nritya(M.P.)	09 15 11 15 08	06 -- 07 -- 07	-- Rural Rural Rural --	Urban -- -- -- Urban	10,91,789/-		Shri Laxmi Narayan, Head Master, Mrs. Eeryamma, Headmistress (Primary School)
134.	Lok Kala Yatra	Z.P. High School, Undavalli (Telangana)	18/11/2016	Lawani (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Lambadi(Telangana) Panthi Nritya (C.G.) Norta, Badhai Nritya(M.P.)	09 15 11 15 08	06 -- 07 -- 07	-- Rural Rural Rural --	Urban -- -- -- Urban			Shri Sampat Kumar Hon. M.L.A., Shri Shivprasad, Headmaster,Sh. Damodar Reddy, Sudharkar Reddy (Panchayat Member),
135.	Lok Kala Yatra	Z.P. High School, Alanpur (Telangana)	19/11/2016	Lawani (M.S.) Dholu Kunitha (K.S.) Lambadi(Telangana) Panthi Nritya (C.G.) Norta, Badhai Nritya(M.P.)	09 15 11 15 08	06 -- 07 -- 07	-- Rural Rural Rural --	Urban -- -- -- Urban			Sh. Matha Jagannath Hon. Ex. M.P. Sh. Jayamdu (Sarpanch, Alampur),& Sh. Mahesh Gaud (Local Leader)

136.	Swar Sanskriti	Nagpur (M.S.)	20/11/2016	Musical Concert	12	03	--	Urban	50,000/-	600	Organized by Kudar Musico International, Nagpur.
137.	Traditional Hut Making Workshop	Nagpur (M.S.)	26/11/2016 to 07/12/2016	Rajwada & Ghotul Hut Artists of Chhattisgarh	08	--	Rural	--	25,100/-	1000	--
138.	Aanandam – Yoga Shivir	Centre's premises, Nagpur	01.12.2016 to 31.12.2016	Yoga	35	15		Urban	--	50	Regular event
139.	Mujhe bhi Kuch Kehana Hai	Children Traffic Park, Nagpur	04.12.2016		7	5		Urban	5,000/-	150	Regular activity
140.	Brahmanaad	Centre's Premises, Nagpur	11.12.2016	Pt. Rajan Sajan Mishra + 4 accompanists	06	--	--	Urban	5,00,000/-	500	Inaugurated by the hands Dr. Bhagyashri Gandhe, Dr. Snehal Bhave, Dr. Nishatai Kulkanri, smt. Komal Sahu, Smt. Rita Jaiswal & Smt. Sangeeta Piyush Kumar
141.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	BHU Varanasi	13.12.2016 To22.12.2016	Creative Rangoli & Portrait Workshop	09	-	-	Urban	18,23,129/-	1500 per day	
142.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Various places in BHU, Ghats	15.12.2016 To22.12.2016	Traditional Rangoli (Sanskar)	50	14	-	Urban	--,,--	2000	
143.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Swatantrata Bhavan	16.12.2016 To 24.12.2016	Traditional Tribal Painting workshop	24	--	--	Urban	--,,--	1500 per day	
144.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	BHU Varanasi	17.12.2016	Padmavibhushan Dr. Girija Devi + 6 accompanists	05	02		Urban	--,,--	2000	Inaugurated at the hands of Dr. Mahesh Sharma, Hon'ble Minister for Culture, Shri G.C. Tripathi, Vice Chancellor , BHU, Varanasi, Padmavibhushan Smt. Girija Devi, Eminent classical vocalist
145.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	BHU Varanasi	17.12.2016 To 20.12.2016	Songi Mukhwate Panthi Gudum Baja Thangta Panch Vadhyam	15 15 15 15 10				--,,--	1800 per day	
146.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	BHU Varanasi	17.12.2016	Smt. Ritu Varma Pandwani Gayan	06	01		Urban	--,,--	1200	
147.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	BHU Varanasi	17.12.2016 To20.12.2016	Kabir Gayan Shri Bhairavsingh Chavan	08	--	--	Urban	--,,--	1400	
148.	Srijan (Painting Exhibition)	Raja Ravi Varma, Art Gallelry, SCZCC, Nagpur	17.12.2016 To 24.12.2016	Tanushree Bhattacharjee, Samir Deshmukh Sanjay Maldhure Milind Kalamkar Nishikant Deshmukh	01	04	--	Urban	21,000/-	500 per day	Inaugurated at the hands of Prof. Shri Devghare Sir,
149.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Omkar Nath Thakur Auditorium Varanasi	18.12.2016	Pt. Ajay Chakraborty Pt. Chetan Joshi & Vidvan Mysore Chandan Kumar (Classical Orchestra) Shri Saurav Gaurav Mishra (Kathak Dance)	16	--		Urban	--,,--	600	Inaugurated by Prof. Virendra Mishr, Dr. Vidhi Nagar, Prof. K. Shashi Kumar
150.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Omkar Nath Thakur Auditorium,	19.12.2016	Pt. Bhajan & Rustam Sopori (Santoor Duet) Pt. Chhannual Mishra	18	01		Urban	--,,--	450	Hon'ble Vice Chancellor Prof. Girishchand Tripathi

		Varanasi		(Vocal) Ms. Sonal Mansigh (Kathak Dance) Shri Narendra Mishra (Classical Orchestra)							
151.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Omkar Nath Thakur Auditorium, Varanasi	20.12.2016	Dr. N. Rajam, Sangeeta Shankar and Nandini & Ragini Shankar (Violin)Shri Debashish Dey (Classical vocal)	6	4		Urban	--,,--	660	Inaugurated by Dr. N. Rajan & Dr. Sangeeta Shankar, Prof. Sangeeta Pandit, Prof. Sharda Welkar, Dr. Vidhi Nagr & Dr. Sangeeta Singh
152.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Assi Ghat,& BHU Varanasi	20.12.2016 To22.12.2016	Dhol Tasha	40	14		Urban	--,,--	1500	
153.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Omkar Nath Thakur Auditorium Varanasi	21.12.2016	Dr. Ashwini Bhide Deshpande (Classical vocal) Shri Vishal Krishana (Kathak)	20	1		Urban	--,,--	400	
154.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Swatantrata Bhavan, BHU	22.12.2016	Malini Awasthi (Bhojpuri Gayan)	10	02		Urban	--,,--	3000	
155.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Omkar Nath Thakur Auditorium, Varanasi	22.12.2016	Pt. Prabha Atre Kalakshetra Shri Anshuman Maharaj (Classical Orchestra-Naad – Bhedam)	11	02		Urban	--,,--	400	
156.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Omkar Nath Thakur Auditorium, Varanasi	23.12.2016	Pt. Ulhas Kashalkar (classical vocal) Pt. Niladri Kumar (Sitar vadan) Rahul Rohit Mishtra	15	-		Urban	--,,--	450	
157.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Omkar Nath Thakur Auditorium, Varanasi	24.12.2016	Padmashree Vijay Ghate (Tabla) Shri Bhawani Shankar (Pakhwaj) Shri Rakesh Chaurasia (Flute)Shri Ravi Chari (Sitar) Pt. Sandeep Mahavir (Kathak)	11	06		Urban	--,,--	500	
158.	Rashtriya Sanskriti Mahotsava	Swatantrata Bhavan, BHU Varanasi	22.12.2016	Pandit Jasraj	05	02	-	Urban	--,,--	2000	
159.	Cultural Evening	Mahatma Gandhi Hindi Vishwavidyalaya , Waradha	30.12.2016	(Sagun – Nirgun) Pt. Raja Kale and 4 accompanists	04	01	-	Urban	1,00,000/-	1,000	Programme organized by Mahatma Gandhi Vishwavidyalaya, Wardha, Centre sponsored the artists
160.	Aanandam – Yoga Shivir	Centre's premises, Nagpur	01.1.2017 to 31.1.2017	Yoga	35	15		Urban	--	50	Regular event
161.	Mujhe bhi Kuch Kehana Hai	Children Traffic Park, Nagpur	01.01.2017	Vocal, Dance , Instrumental	06	07		Urban	26,901/-	900	Regular activity
162.	Srijan (Painting exhibition)	Raja Ravi Varma Art Gallery, Sczcc	03.01.2017 To09.01.2017	Chinmay Prathan , Nagpur Solo Show	01	--	--	Urban	11,000/-	500 during exhibition	Inaugurated by the hand of Chandrakant Channe, eminent artist in visual art

163.	Lokotsava	Goa	06.01.2017 To 15.01.2017	Tamasha (M.S.) Dhangari Gaja(M.S.) Lambadi Kunitha (Tel.) Badhai (M.P.) Hojagiri (Tripura) Mungyanta (Nagaland) Craftsman	13 16 10 09 06 -- 07	09 -- 6 06 09 14 03		Urban	7,27,396/-	--	Programme organised by Department of Art & Culture ,Govt. of Goa
164.	Brahmanaad	Centre's Premises, Nagpur	08.01.2017	Pt. Raja & Amruta Kale, Mumbai-classical vocal	04	01	-	Urban	1,50,000/-	300	Inaugurated by the hands of Shri Goyanka, Pt. Raja Kale
165.	4th Assam International AGRI-HORTI Show 2017	Aasam, Guwahati	09.01.2017	Maharashtra chi Lokdhara	10	07			3,00,000/-		Programme organized by 4thAssam International Agri-Horti show, Guwahati
166.	National Stone Carving Camp	MIDC Area, Higma, Nagpur	12.01.2017 To 31.01.2017	37Sculptors from all over India	33	03	-	Urban	60,00,000/-	250 per day	Inaugurated by the hand of Shri Anup Kumar, Divisional Commissioner, Nagpur, Padmashri Biman Bihari Das, Eminent Sculptors, Shri Chandrakant Channe, Shri Pramodbabu Ramteke, Eminent artists in visual arts, Shri Devendra Parekh, Chairman, VED, Nagpur
167.	Srijan (Painting exhibition)	Raja Ravi Varma Art Gallery, Sczcc, Nagpur	13.01.2017 To 17.01.2017	Farhan Ali Baishalika Dhara Shubham Verma, Dharini Kabra Ankit Singh Ravikant Soni Dharam Singh Neta	01	--	--	Urban	51,000/-	500 during exhibition	Inaugurated by the hand of Shri Vijay Biswal, Eminent Painting Artists .
168.	Anahad (25th death Anniversary of Pt. Kumar Gandharva)	Dewas (M.P.)	14.01.2017	Vrindgaan (Gandharv Sangeet Mahavidhalaya, Delhi)	21	15	--	Urban	1,00,000/-	3000	Programme organized by Kumar Gandharva Pratishthan, Dewas. Inaugurated by Hon'ble Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, Madhya Pradesh, in presence of Shri Mahesh Elkunchwar, eminent Play writer
169.	Anahad (25th death Anniversary of Pt. Kumar Gandharva)	Dewas (M.P.)	15.01.2017	**Morning session** Ms. Kalapini Komkali, vocal **Parisamvad** Shri Purushottam Agrawal Shri Ravi Date Shri Satyashil Deshpande Shri Udayan Vajpeyee Shri Ashok Vajpeyee **Evening Session** Shri Yogesh Samsi (Tabla solo) Ustad Amjad Ali Khan (Sarod)	04 05 03 03	01 --	--	Urban	Expenditure incurred in Sr. No. 9	3000	Programme organized by Kumar Gandharva Pratishthan, Dewas. The Centre sponsored the Programme.

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Activity Report for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017

170.	Cultural Evening	Hingna (M.S.)	20.01.2017	Ustad Gafur Khan Mangniyar and Party	08	-	Rural	--	50,000/-	200	Programme organized at National Stone Carving Workshop at Hingna
171.	Cultural Evening	Rajasthani Mahila Mandal, Nagpur	21.01.2017	Ustad Gafur Khan Mangniyar and Party	08	-	Rural	--	50,000/-	200	Programme organized by Rajasthani Mahila Mandal.Nagpur
172.	Republic Day Parade	Chennai	23.01.2017 To 26.01.2017	Lezim (M.S.)	15	--	-	Urban	--	--	Programme organized by South Zone Cultural Centre, Thanjavur
173.	Annual Day Cultural Programme	PDA (C) office Mumbai	24.01.2017	Mumbai chi Maina (Lawani)	02	07	--	Urban	15,000/-	--	Programme organized by PDA (C) Mumbai
174.	Srijan (exhibition of III Rangoli)	Raja Ravi Varma Art Gallery, SCZCC	25.01.2017 To 31.01.2017	Mrs. Supriya Dudhal, Pune Solo Show	01	--	--	Urban	21,000/-	500 during exhibition	Inaugurated by the hand of Prof Smt. Deepali Masirkar, (DCP Zone1, Nagpur City)
175.	Republic Day Parade – 2017 ChildrenContingen t	Raj Path New Delhi	26.01.2017	Students of 22 various schools from Nagpur city (Saila Nritya performed)	75	90	-	Urban	7,67,226/-		Hon'ble Prince of Abudhabi shri Mohmmad Bin Zayed Al Nahyan was the chief guest
176.	Abhinandan Samaroha R.D. Parade Children Contingent	SCZCC, Premises,	31.01.2017	Presented Saila Nritya from 165 students	75	90	--	--	Expenditure incurred in Sr. no. 16		Inaugurated by the hands of Shri Sukul Singh Durve, Saila Dance Group leader in presence of school Principals,
177.	Aanandam – Yoga Shivir	Centre's premises, Nagpur	01.2.2017 to 28.2.2017	Yoga	25	15		Urban	--	40	Regular event
178.	Bilasa Mahtosav a	Bilaspur (C.G.)	03.02.2017 To 05.02.2017	Badhai / Norta Nritya (M.P.)	07	08		Urban	65,450/-	-	Programme organized by Bilasa Mahotsva Committee, Bilaspur. The Centre sponsored the artists
179.	North East Festival	Ravindra Kala kshetra, Bangaluru	04.02.2017 To 05.02.2017	Cherew Nritya – Mizoram Meitai Nritya – Manipur Bihu Nritya – Assam	12 12 10	06 06 06		Urban	2,03,549/-	--	Programme organized by Department of Tourism, Government of Karnataka, The Centre sponsored the artists
180.	Mujhe bhi Kuch Kehana Hai	Children Traffic Park, Nagpur	05.02.2017	Vocal, Dance ,	05	12		Urban	31,500/-	700	Regular activity
181.	Annabhau Sathe Rastriya 2nd Sahitya Sammelan	Nagpur (M.S.)	11.02.2017 To 12.02.2017	Musical Prog. Light Music Programme, Theatre Programme Parisavand , Kavi Sammelan	05 08 10 43	03 02 -- 02			1,00,000/-		Programme organized by annabhau Sathe Rastriya Sammelan Committee, Nagpur. The Centre sponsored the artists
182.	Brahmanaad	Centre's premises, Nagpur	12.02.2017	Dr. Dhananjay Joshi (classical vocal) Nanded M.S. + 3 accompanists	04	--	--	Urban	60,000/-	300	Inaugurated at the hands of local dignitaries

183.	Inter – School Folk/ classical Dance Competition	Centre's premises, Nagpur	16.02.2017	No. of participants from School (20) No. of participants	 150			Urban	--	1500	The programme organized by YMCA, Nagpur .
184.	Indradhanush (Sahiyadri Til Saat Ratne)	Centre's Premices Nagpur	17.02.2017	Shri Praful Mategaonkar	01	-		Urban	51,000/-	400	Inaugurated at the hands of Shri Dhananjay Bapat, Eminent Personality of Nagpur in presence of Shri S.J. Patil, Sr. A.A.O, SCZCC, Nagpur
185.	Shourya Parva	Rama Nagar, Bangalore	17.02.2017 To 20.02.2017	Danpatta (M.S.) Thangta (Manipur) Kalari Payatu (Kerla Kartab Kavayat (M.P.)	15 15 15 15			Urban	1,10,620/-		Programme organized by Sahas Kala Academy, RamaNagar, Bangalore
186.	Amadalli Janapada Utsav	Uttara Kanada Karwar(K.S.)	17.02.2017 To 19.02.2017	Panthi Nritya (C.G.) Badhai/ Norta (M.P.)	15 09	-- 08		Urban	1,71,620/-	1500 per day	Programme organized by Amadalli Janapada Utsav, Uttar Kannada, Karwar (K.S.)
187.	National Folk Fest	Vasai (M.S.)	17.02.2017 To 19.02.2017	Lawani Nritya (M.S. Bhangda Nritya(Pub Panthi Nritya (C.G.) Raas Leela (Manipur	07 15 15 11	08 -- -- 09		Urban	4,57,964/-	-	Programme organized by Bassein Kerala Samajam, Tereza Mansion, Manickpur, Vasai Road, (W) , Dist-Palghar, Mumbai
188.	Kadambotsava	Sirsi (K.S.)	18.02.2017 To 19.02.2017	Gargalu Nritya (A.P) Adiwasi Korku Nritya (M.S.)	07 07	08 08		Urban	1,18.600/-	--	Programme organized by District Administrative, Sirsi (K.S.) The Centre sponsored the troupes.
189.	Anandam (Yoga Shivir)	Centre's Premises Nagpur (M.S.)	01.03.2017 to 31.03.2017	Yoga	25	15	--	1	--	--	Regular activity
190.	Maa Navachandi Mela	Khandwa (M.P.)	03/03/2017 to05/03/2017	Panthi Nritya (C.G.)	15	--	1	--	68,200	2000 (3 days)	--
191.	Mujhe Bhi Kutch Kahena Hai	Nagpur (M.S.)	05/03/2017	Vocal, Dance, Instrumental, Poem etc.	08	08	--	1	24,948	400	Regular activity
192.	Brahmanaad	SCZCC Campus, Nagpur(M.S.)	12/03/2017	Amir Khan (Sarod Vadan)	02	--	--	1	75,000	500	Regular activity. Inaugurated at the hands of local dignitaries of Nagpur.
193.	Ordance Factory Day	Chandrapur (M.S.)	18/3/2017	Lavani Nritya (M.S.) Rathawa (Gujarat)	11 11	07 11	--	1	--	--	--
194.	Tribal Festival	Nagpur (M.S.)	18/3/2017 & 19/3/2017	Lingo Nritya (M.S.) Panthi Nritya (C.G.) Gond Nritya (M.P.) Gour Madia (C.G.) Baiga Pardhoni (M.P.)	09 15 09 09 10	06 -- 06 06 05	--	1	--	--	--
195.	Rashtriaya Sanskriti Mahotsava	Imphal (Manipur)	27/03/2017 to 29/03/2017	Lawani (Maharashtra) Badhai (Madhya Pradesh) Panthi (Chhattisgarh) Mathuri (Andhra Pradesh)	08 09 15 11	04 06 -- 04	--	1	Expenditure incurred by NEZCC, Dimapur (Nagaland)	2000 (Total three days)	Programme Inaugurated by Senior Artists.
196.	Hornadu Uthsav	Bouddhgaya (Bihar)	28/03/2016 & 29/03/2016	1)Seminar Expert (K.S.) 2) Poets (K.S.) 3)Painting artists (K.S.)	07 07 12	01 02 04	--	1	52,53,313/-	--	Prog. Inaugurated by 1)Ven.H.Saddhathissa Thero,Bhante – Maha Bodhi

				4)Light Music Songs(KS) 5)Bhakti Geet (K.S.) 6)Bharatnatyam(K.S.) 7)Folk Song & Music (K.S.) 8)Sitar Vadan (K.S.) 9)Pattakunitha 10)Charma Vadya(KS) 11)Soman Kunitha(KS) 12)Pooja Kunitha(K.S) 13)Nagari (K.S.) 14)Chitimela (K.S.) 15)Gummate Panga(KS) 16)Suggi Kunitha (KS) 17)Mahila Veergase(KS) 18)Yakshgana (K.S.) 19)Gorwara Kunitha 20)Badhai (M.P.) 21)Kahale Dance(K.S.) 22)Sambalpuri (Odisha) 23)Bihu (Assam)	20 12 03 22 04 10 08 10 09 24 08 10 11 01 10 09 10 08 10 08 **233**	01 -- 02 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 11 -- -- 05 -- 05 07 **39**					Society of India, Bodhgaya. 2) Sh.N. Dorjee, Gen. Secretary, BTMC, Bodhgaya.
197.	Ishanya Parva	Nagpur (M.S.)	31/03/2017 to 02/04/2017	Thangata (Manipur) Aphili Kuwu (Nagaland) Ghatu (Sikkim) Cheraw (Mizoram) Chenglaizwan(Mizoram) Lhasha (Manipur) Hozagiri (Tripura) Mamita (Tripura) Rikampada (Arunachal Pradesh) Lakhan (Assam) Mynsiem(Meghalaya) Bihu (Assam) **Craftsmen** Nagaland Manipur Assam	10 -- 06 10 10 15 07 08 -- 10 10 07 -- 02 02	-- 15 09 10 05 -- 08 07 15 05 05 08 01 02 --	--	1	68,21,636/-		Prog.Inaugurated by Smt. Nandatai Jichkar, Hon. Mayor, Nagpur & Shri Dinesh Patil, Accountant General, Nagpur and Concluded by Shri Brijesh Gupta, D.R.M., Central Railway, Nagpur

Director,
SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Glimpses of Programmes conducted during the Year 2016-17


Traditional Hut Making Mahotsav, Nagpur: November-December 2016


Agni Mahotsav at Panna & Khajuraho: 14-11-2016 to 16-11-2016


Brahmanaad at SCZCC Campus, Nagpur: 09-10-2016



Dr. Vasantrao Deshpande Yuva Sangeet Pratiyogita, Nagpur: 23 to 29-07-2016





Dr. Vasantrao Deshpande Antar Rashtriya Sangeet Samaroh, Nagpur: July 30th to August 03, 2016


Dussera Mela, Hyderabad: 01 to 10-10-2016


Guru Shishya Parampara, Devdan Tradition, Hyderabad: Sept.-Oct.-Nov. 2016

Glimpses of Programmes conducted during the Year 2016-17



Ishanya Parv, Nagpur: 31.03.2017 to 02.04.2017



Lok Kala Yatra, Madhya Pradesh: 23-09-2016 to 25-09-2016



Lok Kala Yatra, Raipur (CG): 28-09-2016 to 30-09-2016



Mujhe Bhi Kuchh Kehna Hai, Nagpur: 03-04-2016



National Sculpture Camp, MIDC, Nagpur: 12-01-2017 to 31-01-2017



National Tribal Music & Dance Festival, Tumkur (KS): 23 to 25-09-2017



Opening of SCZCC Regional Centre, Raipur (CG): 15-08-2016



Rashtriya Sanskriti Mahotsav, New Delhi: 15 to 25-10-2015

MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

India on the accounts of the South Central Zone Cultural Centre (SCZCC) for the year ended 31 March 2017.

We have audited the attached Balance Sheet of the South Central Zone Cultural Centre (the Centre) as at 31 March 2017 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date, under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 30(i) of the bye laws of the Centre. The audit has been entrusted for the period up to 2019-20. These financial statements are the responsibility of the Centre's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and

disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report have not been drawn up strictly in the format approved by the Government of India (Ministry of Finance). Further, the Centre has not prepared Receipt & Payment Account.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Centre as required under Clause 29(ii) of its Bye laws insofar as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1. Corpus Fund (Schedule 1) Rs.2562.50 lakh

As per Uniform Format of Accounts, surplus if any, of the Income & Expenditure Account is required to be transferred to Corpus Fund (Schedule 1) of the Balance Sheet. The Centre has however transferred the whole surplus of Rs.133.94 lakh to Reserves &

Surplus instead of, to Corpus Fund. Corpus is therefore understated by Rs.133.94 lakh with corresponding overstatement of Reserves & Surplus.

A.1.2 Earmarked/ Endowment Funds (Schedule- 3)

SCZCC was sanctioned grant of Rs.1.80 crore for 'Construction of Multi-Utility Cultural Complex, Nagpur' under the Scheme for Tagore Cultural Complexes on 31.03.2017. However, the grant was not accounted for by the Centre in its accounts for the year 2016-17 which resulted in understatement of Earmarked/ Endowment Funds with corresponding understatement of Current Assets, Loans & Advances.

A.1.3 Current Liabilities (Schedule 7) Rs.452.94 lakh

Current Liabilities (Schedule 7) include Rs.92.20 lakh on account of rent, water charges, municipal taxes and electricity charges for the period from May 1991 to March 2017. However as per the records the actual outstanding on this account is Rs.89.65 lakh as on 31.03.2017. Thus the Current Liabilities are overstated by Rs.2.55 lakh with corresponding understatement of Reserves & Surplus.

A.2 Assets

A.2.1 Investments- Others (Schedule 10) Rs.2990.13 lakh

SCZCC has not accounted Fixed Deposit worth Rs.0.82 lakh under Investments (Schedule 10). The investments are thus understated

by Rs.0.82 lakh with corresponding understatement of Reserves & Surplus.

A.2.2 Current Assets, Loans and Advances

(Schedule 11) Rs.390.04 lakh

The Bank Reconciliation Statement in respect of five savings bank accounts maintained by the SCZCC for the year 2016-17 revealed that 52 cheques amounting to Rs 9.00 lakh issued up to December 2016 were time barred and required to be written back in the accounts. The Centre, however had not reversed the same which resulted into understatement of bank balance by Rs 9.00 lakh. Current Assets, Loans and Advances (Bank Balance) are thus understated by Rs.9.00 lakh with corresponding understatement of Sundry Creditors.

A.2.3. Current Assets, Loans and Advances

(Schedule 11) Rs.390.04 lakh

Bank reconciliation statement in respect of Bank of Baroda (Savings A/c no.04650100005138) revealed that credit in respect of six demand drafts/ NEFT transfers amounting to Rs.0.44 lakh has not been actually effected by the bank. Current Assets, Loans & Advances (Bank Balance) is thus overstated by Rs.0.44 lakh with corresponding overstatement of Reserves and Surplus.

A.2.4 Current Assets, Loans and Advances

Pension Scheme Expenses (Schedule 11) Rs.390.04 lakh

Ministry of Culture has assigned SCZCC for implementation of 'Artists Pension Scheme and Welfare Fund' from 2014-15 as per terms and conditions contained in the guidelines issued by the Ministry. As per the Annual Accounts the Centre has incurred expenditure of Rs.5.40 lakh in 2014-15, Rs.10.58 lakh in 2015-16 and Rs.13.15 lakh in 2016-17 (Total Rs.29.13 lakh). The Ministry was required to reimburse the expenditure to SCZCC, however not reimbursed so far.

The Centre has reflected only Rs.18.00 lakh under Schedule-11 Current Assets, Loans & Advances under Sundry Debtors. Current Assets, Loans & Advances are thus understated by Rs.11.12 lakh with corresponding understatement of Reserves & Surplus.

B. Income & Expenditure Account

B.1 Income

B.1.1 Income Rs.282.61 lakh

SCZCC has recognised the unutilised balance of grant of Rs.554.89 lakh from the previous year as current year's income in the Income & Expenditure Account, which is incorrect. As the Centre has already accounted the said grant in earlier year's Income &

Expenditure Account, and the balance there of was transferred to 'Schedule 2, Reserves & Surplus', treating the same again as receipts in the current year's Income & Expenditure Account was incorrect. Income of the Centre is thus overstated by Rs.554.89 lakh with corresponding overstatement of Reserves & Surplus.

B.1.2 Grant/ Subsidies (Schedule 13) Rs.1231.17 lakh

The Centre has an unspent balance of grant of Rs.556.52 lakh as on 31st March 2016 and received further grant of Rs.588.43 lakh during 2016-17 (Total Rs.1144.95 lakh) against which the Centre has accounted only Rs.1143.33 lakh in the Schedule 13 - Grant/Subsidies. This has resulted in understatement of Income by Rs 1.62 lakh with corresponding understatement of 'Reserves and Surplus'.

C. General Comments

1. Uniform Format of Accounts was introduced by Government of India to bring uniformity and transparency in Accounts of Central Autonomous Bodies and as per the Format a statement of Receipt & Payments is to be prepared and attached with the Annual Accounts. SCZCC is not in practice of preparing Receipt & Payment Account even after commenting in previous years' Audit Reports.

2. As per AS -12 'Accounting of Govt. Grants' the following facts should be disclosed in Notes to Account:

i) The Accounting Policy adopted for Government Grants including th. methods of presentation in Financial Statements;

ii) The nature and extent of Government grants recognized in the Financial Statements including grants of non-monitory assets given at concessional rate or free of cost.

The Institute has however not disclosed the Policy for Accounting of Government Grants in Notes to Accounts.

3. SCZCC, Nagpur has seven member states viz. Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattishgarh including the newly introduced states, Telangana and Goa. As per Minutes of the Agenda Meeting each member state is required to contribute Rs.2.00 crore towards Corpus. The GoI instructions if any, regarding the corpus contribution to be made by the member states called for in audit was not produced and therefore the outstanding contributions as stated in para 1 of Notes to Accounts could not be verified in audit.

4. SCZCC has not strictly followed Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies, as detailed below:

i. Schedule 8 to Balance Sheet (Fixed Assets) has not been drawn up in the prescribed format.

ii. The amount of Rs. 30.00 lakh advanced to North East Zone Cultural Centre, Dimapur for participation in Simhasta Kumbha Mela 2016 has not been utilized fully by Dimapur Centre and the unutilized amount of Rs. 14.51 lakh is reflected under Sundry Debtors instead of refunding the same to the Ministry of Culture, Government of India.

iii. SCZCC received grant of Rs. 92.00 lakh towards Horandu Uthsava from Government of Karnataka was required to be depicted under 'Schedule 13- Grant/ Subsidies by State Governments', in Income & Expenditure Account.

iv. The Centre received Rs.50.11 lakh from various States/ organisations which was required to be reflected under Schedule 13 Grant/ Subsidies. However, the same is treated as 'Other Income' by the Centre, which is not in terms with the Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies.

5. Lalit Kala Academy, New Delhi had sanctioned financial assistance of Rs 50.00 lakh to the SCZCC, Nagpur for organizing Simhasth Camp at Ujjain, 2016 against which 75 percent of the sanctioned grant amounting to Rs.37.50 lakh was released. The release of the remaining 25 percent was on the condition of submission of UC for the Rs.37.50 lakh released. SCZCC has not submitted the UC in time and therefore the remaining grant

sanctioned was not released by the Ministry and further the Centre incurred total expenditure of Rs.54.33 lakh on this account. Thus the Centre has incurred excess expenditure of Rs.16.84 lakh on this account which was adjusted from the grant received on other heads, which is irregular. Further, the fact has not been disclosed in Notes to Accounts as required under Accounting Standard 1.

6. SCZCC had received grant amounting to Rs.100.00 lakh for 25th 'Orange City Craft Mela', which was not utilised for the intended purpose and the unutilised grant was required to be returned to the Ministry as per the terms & conditions contained in the grant sanction letter, which was not done.

7. The SCZCC had made budget provision of Rs.100 lakh for North East Programmes and an expenditure of Rs.112.00 lakh was incurred as per Schedule 25 to Income & Expenditure Account. However the details to the Agenda Notes reflect Rs.126.51 lakh as expenditure incurred on North East Programmes. SCZCC has not furnished any valid reasons for exhibition of inflated expenditure of Rs.14.51 lakh in the Minutes of the BoG Meeting.

8. The Centre has not made provisions for Leave encashment as per actuarial valuation and the payment towards leave encashment is accounted on cash basis. The Centre is required to make provisions for leave encashment on actuarial basis in terms of Accounting Standard-15.

9. SCZCC has not filed Service Tax Returns/Income Tax Returns for the last three years, viz., 2014-15, 2015-16 and

2016-17. There was undue delay in payment of Profession Tax deducted and TDS from clients etc., to Government Account. The Centre has paid Rs.0.61 lakh on account of interest/ penalty for delay in remittance of TDS to Government account (Schedule 21 (t)) during 2016-17.

10. Capital Reserve (Schedule 2) includes the cost of depreciable asset (building) and hence the difference of depreciation of Rs.7.86 lakh needs to be corrected by passing rectification entry. Though being consistently pointed out in audit, the Centre has not rectified the same.

C. Grants – in- Aid

During the year 2016-17 SCZCC has received Rs.3.39 crore under the head Zonal Cultural Centre (ZCC head), Rs.2.25 crore under Simhasta Kumbha Mela (SKM) and Rs.0.24 crore under the head Tribal Sub Plan (TSP) (Total Rs.5.88 crore). The Centre has unspent balance of Rs.1.40 crore under North East Activities (NEAs) and Rs.4.16 crore under ZCC head from the earlier year. Besides the above, the Centre received Rs.1.80 crore from other States/ Authorities (Total Rs.13.24 crore). The Centre utilized Rs.1.12 crore under NEAs, Rs.10.91 crore under ZCC (including Rs.3.64 crore under SKM), Rs.0.28 crore under TSP and Rs.2.69 crore from other States/ Authorities (Total Rs.15.01 crore). The Centre has Rs.0.28 crore as unutilized balance under NEAs and incurred excess expenditure of Rs.2.04 crore in other heads of

expenditure, which was met from the Internal Revenue generated by the Centre.

The Centre has not maintained the accounts separately for the specific grants, viz. grant for Simhasta Kumba Mela and combined it with ZCC grant, which is not in order and therefore unspent balance under each head could not be ascertained in audit.

D. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Institute through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) Insofar as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs, of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur as at 31 March 2017; and

(b) Insofar as it relates to the Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of

the Comptroller and Auditor General of India,

Director General of Audit (Central)

Place: Mumbai,

Date: 08/05/2018.

Annexure

1	**Adequacy of Internal Audit System** The Centre has no Internal Audit Cell. The Ministry of Culture has not carried out internal audit since April 2011. Internal audit by Chartered Accountant as required under Bye-Laws 30(iii) has **not** been conducted and several loopholes were observed in the Annual Accounts as detailed in the Audit Report.
2	**Adequacy of Internal Control System** The Internal Control System is very weak and not commensurate with the size and nature of the Centre. (i) SCZCC has not made recoveries in respect of the findings of CBI on the alleged misappropriation of funds by the erring officials even after instructions received from the Ministry in August 2016. (ii) The Centre has not followed Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies strictly. (iii) The Centre has not prepared Receipt & Payment Account even after repeated comments in the Audit Report. (iv) Grant received from State Governments & other authorities for specified programmes have not been accounted separately and in many instances excess expenditure has been incurred over and above the grant received. (v) The Centre has held many cultural programmes for which tickets were sold and the accounting of the same was not transparent and the related records called for in audit were not produced.
3	**Physical verification of Assets** Physical verification of assets has not been conducted by the Centre. The Centre has not maintained Fixed Assets Register.
4	**System of Physical verification of Inventory** Physical verification of Inventory has not been conducted during the year as no report was furnished. No action has been taken yet on the Artifacts found missing as reported by the CBI in August 2016.
5	**Regularity in payment of statutory dues.** SCZCC did not make payments of statutory dues in time and the Service Tax Returns/Income Tax Returns were not filed in time. Filing of ST returns for the last three years are pending. There was undue delay in payment of Profession Tax deduced and TDS from clients etc., to Government Account.

Director General of Audit (C)

KEDAR GOKHALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITOR'S REPORT

To,
The Hon'ble Chairman,
South Central Zone Cultural Centre,
56/1, Opp. MLA Hostel,
Civil Lines, Nagpur- 440 001 (MS)

1. We have audited the attached Balance Sheet of South Central Zone Cultural Centre, Nagpur as on 31st March 2017 and also the attached Income and Expenditure Account for the year ended on that date. These statements are responsibility of the management of the Society. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We have enclosed a separate report in Annexure "A" as required under section 33 and 34 and rule 19 of the Bombay Public Trust Act' 1950. Without qualifying our report we invite attention to matters of emphasis reported in the said Annexure "A" regarding weakness in statutory compliances.

4. Reference is drawn to para 10 of the "Notes to Accounts" regarding a search operation that was carried by Anti Corruption Wing of CBI, Nagpur in the month of June 2015. Preliminary Enquiry Report has been received from CBI and, no specific charges have been made by the agency that will have impact on the accounts of the centre. Pending final decision to be taken by the centre, adjustment of Programme Advances of Rs. 10.58 Lakh paid to Shri Gopal Betawar is pending.

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

G-2. UTKARSHA SHEETAL, 33 AMBAZARI LAYOUT. NAGPUR-440033
Ph.: 0712-2245984 Mobile : 9822369002, 9028463366 e-mail : kedargokhale1959@gmail.com

5. Further to above, we report that:-

  i. The said Income and Expenditure Account and Balance Sheet are in agreement with the Books of Accounts.

  ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read together with the notes thereon in Schedule 28 and Annexure "A" to our report, gives the information required by the Bombay Public Trust Act' 1950 in the manner so required and gives a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

  a. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2017; and

  b. In the case of the Income and Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

Place :Nagpur
Dated: July 15,2017

For Kedar Gokhale & Co
Chartered Accountants
FRN: 131980W

(CA Kedar Gokhale)
Partner
M.No. 039140

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	256,250,000	256,250,000.00
RESERVES AND SURPLUS	2	78,197,322	71,305,634
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	-	-
SECURED LOAN AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOAN AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	45,293,880	82,378,934
TOTAL		**379,741,202**	**409,934,568.31**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	41,724,263	42,719,000.96
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9		-
INVESTMENTS- OTHERS	10	299,013,000	297,200,000.00
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	39,003,940	70,015,567.35
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		**379,741,202**	**409,934,568.31**

Place : Nagpur
Date- 15/07/2017

Sr. Accounts & Admn. Officer
South Central Zone Cultural Centre,
Nagpur.

Director
South Central Zone
Cultural Centre, Nagpur

As per our report of even date
FOR KEDAR GOKHALE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 131980W

(KEDAR GOKHALE)
PARTNER
M.No. 039140

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 1 - CORPUS/ CAPITAL FUND :

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning or the year	256,250,000	256,250,000.00
BALANCE AS AT THE YEAR - END	256,250,000	256,250,000.00

SCHEDULE 2 - RESERVE AND SURPLUS :

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve :		
As per last account	8,761,000	8,761,000.00
Addition during the year		
Less : Deduction during the year		
2. Balance in Income & Expenditure Account :		
As per last account	23,794,634	14,150,138.74
Addition during the year	6,744,816	13,394,495.57
Less : Deduction during the year		3,750,000.00
Closing Balance	30,539,450	23,794,634.31
3. General Reserve :		
As per last account	38,750,000	35,000,000.00
Addition during the year		3,750,000.00
Less : Deduction during the year		
Closing Balance	38,750,000	38,750,000.00
TOTAL	78,050,450	71,305,634.31

Schedule -3 EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS :

Particulars	Current Year	Previous Year
Total	-	-

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS :

Particulars	Current Year	Previous Year
1.Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Instions		
a) Term Loans		
b) Interest accrurd and due		
4. Banks:		
a) Term Loans		
- Interest accrurd and due		
b) Other Loans (Specify)		
- Interest accrurd and due		
5. Other Instiutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Other (Specify)		
TOTAL		
Note: Amounts due within one year		

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS :

Particulars	Current Year	Previous Year
1.Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Instions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5. Other Instiutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Other (Specify)		
TOTAL		
Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES :

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
b) Others		
TOTAL		
Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :

Particulars	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances		
2. Sundry Creditors:		
a) For Goods		
b) Others (Sub-Schedule -1)	39,778,750	1,357,256.00
3. Acceptances Received		
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans / borrowings		
b) Unsecured Loans /borrowings		
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue		
b) Others (Sub-Schedule -2)	505,417	1,063,683.00
6. Others Current Liabilities (Sub-Schedule 3 to 6)	5,009,713	79,957,995.00
TOTA (A)	45,293,880	82,378,934.00
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity		
3. Superannuation / Pension		
4. Accumulatrd Leave Encashment		
5. Trade Warranties / Claims		
6. Others (Specify)		
TOTA (B)	-	-
TOTA (A+B)	45,293,880	82,378,934.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

SCHEDULES 'A' TO 'L' FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31/03/2017

Schedule: 8 'F' Fixed Asset

Sub Schedule: 'F-1' Movebal Properties

Particulars	Rate of Dep	Balance As on 1/4/2016	Transfor to other heads	Addition		Adjuestment of Excess Dep	Total	Arrears of Depriciation	Dep During the year	Balance As on 31/3/2017
				01/04/2016 - 30/9/2016	1/10/2016 - 31/3/2017					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
A C Unit	15%	78,630.94	-	-	-	-	78,630.94	-	11,794.64	66,836
Audio Video Equipment	20%	46,122.21	-	-	-	-	46,122.21	-	9,224.44	36,898
Casettes	20%	226.34	-	-	-	-	226.34	-	45.27	181
Computer - Pention Scheme	15%	77,281.30	-	-	-	-	77,281.30	-	11,592.19	65,689
Dead stock Electrical light	15%	192,268.44	-	-	-	-	192,268.44	-	31,169.78	161,099
Dead Stock Sound System A/c	20%	182,176.00	-	-	-	-	182,176.00	-	36,435.20	145,741
Electrical Equipment	15%	291,555.49	-	-	170,162.00	-	461,717.49	-	56,495.47	405,222
Electrical Instrument	15%	43,231.55	-	-	-	-	43,231.55	-	6,484.73	36,747
Exibition& Prog Asset	20%	878.71	-	-	-	-	878.71	-	175.74	703
Furniture - Pention Scheme	10%	205,542.00	-	-	-	-	205,542.00	-	20,554.20	184,988
Furniture & Fixture Shilpgrame	10%	8,082.18	-	-	-	-	8,082.18	-	808.22	7,274
Furniture & Fixture	10%	772,257.14	-	-	-	-	772,257.14	-	77,225.71	695,031
LCD	15%	9,317.36	-	-	-	-	9,317.36	-	1,397.60	7,920
Grass cutting machine	15%	31,067.51		-	-		31,067.51		5,482.49	25,585
Library Books	10%	158,602.91	-	21,850.00	5,048.00	-	185,500.91	-	18,297.69	167,203
Mobile Phone	15%	9,432.64	-	-	-	-	9,432.64	-	1,414.90	8,018
Musical Instruments	10%	637.77	-	-	-	-	637.77	-	63.78	574
Office Equipment Dead Stock	15%	285,013.03	-	45,828.00	25,890.00	-	356,731.03	-	51,567.90	305,163
Office Equipment Camera	15%	31,384.68	-	202,000.00	-	-	233,384.68	-	35,007.70	198,377
Office Equipement Computer note book	15%	110,250.00		-	-		110,250.00		16,537.50	93,713
Office Equipment Computer	15%	432,692.75	-	38,100.00	-	-	470,792.75	-	70,618.91	400,174
Office Equipement HP Pinter	15%	4,990.00		-	-		4,990.00		748.50	4,242
Office equipement HP scanner	15%	14,396.00		-	-		14,396.00		2,159.40	12,237
Office equipement Suit case	15%	12,580.00		-	-		12,580.00		1,887.00	10,693
Office equipement Telephone	15%	5,763.00		-	-		5,763.00		864.45	4,899
Office equipement Tin boxes	15%	8,787.50		-	-		8,787.50		1,318.13	7,469
Office equipement - Xerox machine	15%	171,293.00		-	-		171,293.00		25,693.95	145,599
Office equipement - Biometric M/c	15%	-		20,045.00			20,045.00		3,006.75	17,038
Office equipement - EPABX	15%				29,364.00		29,364.00		2,202.30	27,162
Office equipement - Storewell with Glas	15%				25,718.00		25,718.00		1,928.85	23,789
Photographic Equipment	15%	2,163.72	-	-	-	-	2,163.72	-	324.56	1,839
Presentetion Articals	5%	267,719.63	-	-	-	-	267,719.63	-	9,330.61	258,389
Printer - Pention Scheme	15%	10,614.38	-	-	-	-	10,614.38	-	1,592.16	9,022
Solar Light A/c	15%	332,804.45	-	-	-	-	332,804.45	-	49,920.67	282,884
Solar Water Heater Syatem	15%	31,396.96	-	-	-	-	31,396.96	-	4,709.54	26,687
Tea & Coffee Vending Machine	15%	12,645.20	-	-	-	-	12,645.20	-	1,896.78	10,748
Vehicles	20%	2,066,880.54	-	-	-	-	2,066,880.54	-	516,720.14	1,550,160
Total		**5,908,685.31**	-	**327,823.00**	**256,182.00**	-	**6,492,690.31**	-	**984,257.33**	**5,508,433**

GOKHALE & CO. ★ NAGPUR ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

Immovable

Particulars	Rate of Dep	Balance As on 1/4/2016	Transfor to other heads	Addition		Adjuestment of Excess Dep	Total	Arrears of Depriciation	Dep During the year	Balance As on 31/3/2017
				01/04/2016 - 30/9/2016	1/10/2016 - 31/3/2017					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
Art Gallery	5%	182,086.82	-	-	-	-	182,086.82		9,104.34	172,982
Building Govt of Maharashtra	5%	168,706.13	-	-	-	-	168,706.13		8,435.31	160,271
Building & Road	5%	4,748,330.20	-	-	-	-	4,748,330.20		237,416.51	4,510,914
Construction of cafeteria	5%	75,803.68	-	-	-	-	75,803.68		3,790.18	72,013
Construction of craft stall	5%	154,294.11	-	-	-	-	154,294.11		7,714.71	146,579
Construction of Green room	5%	1,804,629.07	-	-	-	-	1,804,629.07		90,231.45	1,714,398
Dormetary Building	5%	12,432,169.44	-	-	-	-	12,432,169.44		621,608.47	11,810,561
Land & Building Govt of Maharshtra	0%	7,530,000.00	-	-	-	-	7,530,000.00		-	7,530,000
Land Gov of Madhya Pradesh	0%	445,000.00	-	-	-	-	445,000.00		-	445,000
Nala Contraction	5%	876,464.84	-	-	-	-	876,464.84		43,823.24	832,642
Shilpgram Khajuraho	5%	8,139,231.31	-	-	-	-	8,139,231.31		406,961.57	7,732,270
Well & Drainege	5%	253,600.04	-	-	-	-	253,600.04		12,680.00	240,920
TCC Scheme (Work in Progress)				205,106.00	642,174.00		847,280.00		-	847,280
Total		**36,810,315.65**	-	**205,106.00**	**642,174.00**	-	**37,657,595.65**		**1,441,765.78**	**36,215,830**
Total of Movable/Immovable Asset		**42,719,000.96**	-	**532,929.00**	**898,356.00**	-	**44,150,285.96**	-	**2,426,023.11**	**41,724,263**

KEDAR GOKHALE & CO. ★ NAGPUR ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMRKED / ENDOWMENT

Particulars	Current Year	Previous Year
1.In Government Securities		
2.Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHERS

Particulars	Current Year	Previous Year
1.In Government Securities		
2.Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		0.00
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified) FD (Sub Schedule -1)	299,013,000	297,200,000.00
TOTAL	299,013,000	297,200,000.00

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVACES ETC

Particulars	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares		
b) Loose Tools		
c) Stock -in- trade		
Finished Goods		
Work - in - Progress		
Raw Material		
2. Sundry Debtors :		
a) Debts outstanding for the period exceeding six months		
b) Others (Sub Schedule -1)	6,598,051	2,495,476.00
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)	7,007	47,502.00
4. Bank Balances :		
a) With Schedule Banks :		
-On Current Accounts (Canara Bank, Kkajuraho)	0	0.00
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Saving Accounts (Sub Schedule -2)	24,022,530	60,144,415.25
b) With non-Schedule Banks :		
-On Current Accounts		
-On Deposit Accounts		
-On Saving Accounts		
5. Post Office- Saving Accounts		
TOTAL (A)	**30,627,588**	**62,687,393.25**

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans :		
a) Staff (fest & temp loan + med) - Sub Schedule - 3	137,907	197,676.00
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
Advances to staff for expenses (Sub Schedule - 4+5+6)	1,904,891	2,045,048.00
Advances to suppliers of goods and services (Sub Schedule - 7)	2,743,510	2,718,058.00
Utility Deposits (Sub Schedule -8)	408,448	376,892.00
c) Other Debit Balances (Sub Schedule - 9)	416,607	915,621.00
3. Income Accrued :		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds		
b) On Investments- Others - (Sub Schedule -10)	2,149,159	530,060.00
c) On Loans and Advances		
d) Others (grants rec) (includes income due unrealised-Rs......)		
4. Claims Receivable (Sub Schedule 11)	615,829	544,819.10
TOTAL (B)	8,376,351	7,328,174.10
TOTAL (A+B)	39,003,940	70,015,567.35

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedules to Schedules of Balance Sheet as at 31.03.2017 - Liabilities

Sub Schedule 1 to Schedule 7 - Sundry Creditors

Particulars	Amount (Rs) 31.3.2017	Amount (Rs) 31.3.16
Bharat Security agency		22,635.00
M/S Kaloti security agency	159,754	87,870.00
Universal Facilities & Management services	127,180	438,600.00
R.C. Gaba	40,000	80,000.00
Director EZCC, Kolkata		99,500.00
Globle Tours & Travels		17,782.00
Programme expenses Payable to staff	34,195	9,842.00
Travelling Expenses payable to staff	41,955	143,502.00
GSLI Claim Received	74,502	74,502.00
State Cheques	-	383,023.00
AAMDAR NIWAS KARMACHARI GRAHAK SAHAKARI SANSTHA	590,750	-
Admas Advertisement	300,000	-
Alka Pande	93,181	-
Amir Khan (Sarod Vadan)	25,000	-
Arjun Chavah	280,000	-
Art Gallery Rent Payable	9,219,704	-
Association La Boite A Sel France	68,800	-
Audit Fees Payable to DGA(C)MUMBAI	589,305	-
Bajania (Surya Prakash Guru Sambalpur)	94,450	-
Black Diamond Restaurant & Caterers	454,214	-
Bhayana Tent and Decoration	128,743	-
Carmel Builders & Fibrotech Industries P.Ltd.,	627,795	-
Central India Televission (CITV)	4,768	-
Dilip Kumar Pentu Hyderabad	399,960	-
M/s.D.K. Cranes Nagpur	379,577	-
M/s.D. Raj Video Shooting & Photography	77,500	-
Electicity Charges Payable	73,281	-
Hotel Heritage 2001	13,621	-
Hotel Surabhi International , Sarnath	85,000	-
Innovators Nagpur	727	-
Jana Collective New Delhi	400,000	-
Kedar Gokhale & Co	45,800	-
M/s.Kanakshree Services New Delhi	2,850,000	-
Liability for Expenses	10,241,146	-
LIC PREMIUM PAYABLE	21,442	-
Meera Curam	145,000	-
M/s. S.B. Diyewar (Contractor)	951,776	-
Mulkh Raj	22,500	-
Music Broadcast Pvt. Ltd.,	4,979	-
Naik Art Research Centre (Prop.Ajay Nagarale)	240,000	-
News Papers & Periodicals Payable	2,000	-
M/s.Promotions	111,490	-

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Provision For Telephone Exp	16,517	-
Reliable Automation	6,890	-
Riya Flowers A/c	2,550	-
Salary & Wages Payable	7,724	-
Saptrashi Folk Culture Academy (Smt.Ranju Devi)	94,725	-
Shivam Guest House, Sarnath	205,500	-
Shree Sai Caterers	820	-
Shri Prahlad Tipaniya	155,000	-
Salim Sheikh	3,000	-
Shyam Decoration Works	5,748,382	-
Sonam Ambe	80,000	-
Viba Press Pvt. Ltd.,New Delhi	205,000	-
Vijay Decoration Works Nagpur	39,690	-
Vinita Dohare Sagar	74,425	-
Vandana Dutta	11,750	-
Grace Event & Entertentment A/c	10,648	-
Grade 1 Security Force Nagpur	141,475	-
Jai Hind Pest Control	7,777	-
National Co-Op. Consumer Federation of India Ltd.,	19,646	-
Pradip Paints And Hardware	152,742	-
PROSOUND LIGHT& SOUND	112,700	-
Government of Karnataka Dept of Culture	2,410,361	-
Director National School of Drama	750,000	-
Director Sahitya Academi	501,333	-
Total - Sub Schedule -1 Schedule 7	**39,778,750**	**1,357,256.00**

Sub Schedule -2 of Schedule 7 - Statutory Liabilities

Particulars	Amount (Rs) 31.3.2017	Amount (Rs) 31.3.16
CPF Contribution Payable	93,149	76,778.00
G.I.S Subcription A/c	60	540.00
GPF Subcription Paybale	14,998	175,009.00
GSLI PREMIUM PAYABLE	1,887	1,887.00
Leave Salary/ Pension payable	391,123	777,973.00
Professional Tax Payable	4,200	4,100.00
Other recovery a/c	-	27,396.00
Total - Sub Schedule -2- Schedule 7	**505,417**	**1,063,683.00**

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedule- 3 of Schedule 7 : Liability for Expenses

Particulars	Amount (Rs) 31.3.2017	Amount (Rs) 31.3.16
Salary & Wages Payable	-	15,724.00
Admas advertising	-	1,026,435.00
Art Gallery Rent Payable	-	8,500,000.00
Amit Tent house	-	100,880.00
Audit Fee Payable	-	186,701.00
Audit Fees Payable to DGA(C)MUMBAI	-	290,605.00
Beyond Trends, Hyderabad	-	32,802.00
Central India Television	-	79,592.00
Eastern Zonal cultural center	-	474,832.00
Electicity Charges Payable	-	110,220.00
Fair offset	-	18,980.00
Gafoor khan bazaar	-	9,000.00
Geetika arora	-	14,000.00
Girisons bombay dying	-	76,838.00
Golmart publicity	-	54,767.00
Gopika Varma	-	45,000.00
Guru Shisha Parampara Payable	-	17,250.00
Hotel Heritage	-	17,981.00
Innovators Nagpur	-	284,090.00
Jog Hospitality pvt.ltd	-	15,943.00
Jyoti Hedge	-	36,000.00
Kedar Gokhale & Co.	-	45,800.00
Khandelwal travels	-	71,072.00
Komal Publicitty & Entertainment	-	45,863.00
Liability for Expenses	-	2,146,803.00
LIC PREMIUM PAYABLE	-	24,622.00
Laxmi tent Khajuraho	-	43,598.00
Mangrusian Marari	-	107,700.00
Manisha Travels	-	42,844.00
MP State Tourisum	-	48,550.00
Mrs Archana Sapre	-	42,750.00
Nitin Sachdeva & Co.	-	39,275.00
Mukesh Darbar	-	80,000.00
Mulkha raj A/c	-	22,500.00
Music broadcast pvt.ltd	-	4,979.00
Naren Karmarkar	-	82,586.00
News Paper and Periodicals Payable	-	2,385.00
Oshan Tours & Travels	-	42,822.00
Pankaj Advertising, Gwalior	-	63,965.00
Peenaz Masani	-	160,819.00
Perfect Octive media	-	44,880.00
Pooja Kamad	-	99,996.00
Rainbow Society Jaipur	-	25,000.00
Provision For Telephone Exp	-	18,460.00
Ramindar Khurana	-	60,000.00
Ramjoga Rao	-	135,825.00
Reliable automation	-	449,332.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Rituraj Morey sound systeem	-	160,900.00
Riya Flowers A/c	-	3,650.00
Shri Gopal Singh Gond	-	87,950.00
Shyam Decoration works	-	5,163,183.00
Shyam Magician	-	5,000.00
Shyam Tourist Delhi	-	15,225.00
Smt Komalkali Kalapani	-	63,000.00
Smt Malini Awasthi	-	180,000.00
Smt Lalita Kumari	-	10,000.00
Smt Rimpa Shiva	-	54,007.00
State gallary of art	-	120,000.00
Subodh Parmanik	-	89,400.00
Sushama behl	-	80,000.00
Tansen residancy	-	18,717.00
Travel Links	-	1,836.00
Vankar Kanbai Poonam	-	14,800.00
Vedapally Shriniwas	-	109,200.00
Water Bill Payable	-	1,516.00
Uday Anant Dawal	-	16,528.00
Yatra Resources	-	44,750.00
Total - Sub Schedule -3- Schedule 7	-	**21,599,728.00**

Sub Schedule- 4 of Schedule 7 - Security Deposit

Particulars	Amount (Rs) 31.3.2017	Amount (Rs) 31.3.16
SD Against Art Gallery	10,000	10,000.00
SD Against Catering- AMOL CATERERS	250,000	250,000.00
SD- Agest CCTV (OCCM)	3,000	3,000.00
SD Boarding Rights, Nagpur	50,000	50,000.00
SD-Construction of Green Room		48,603.00
SD- Garden Maintenance	5,000	5,000.00
SD Kaloti security services	25,000	25,000.00
SD Shilpagram Decoration	200,000	200,000.00
SD- Shilpagram Decoration Light & Sound	25,000	25,000.00
SD - Shyam Decorators	350,000	350,000.00
SD- Softtech Computers	15,000	15,000.00
SD Stationery		5,000.00
Secirity Deposit - Open Stage	20,000	20,000.00
Security Deposit Against Lawn/Hall/OPT/ Dormerty	364,248	307,948.00
Security Deposit Against Printing Contract- Innovat	25,000	25,000.00
Security Deposit Against Videography	2,000	2,000.00
Security Deposit Cafeteria Nagpur	300,000	300,000.00
SECURITY DEPOSIT - DOCUMENTATION	5,000	5,000.00
Security deposite - Universal services	50,000	50,000.00
Nanda Publicity	20,000	-
Pradeep Advertising Agency	20,000	-
Rajkame Media Waves Pvt Ltd	10,000	-
Chandradeep Tours & Travels	10,000	
Grade 1 Security Force	50,000	-

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Tender for Vehicle	5,000	-
Deposit - Art Gallery	2,000	-
Signposts India Pvt Ltd - EMD	20,000	-
Total - Sub Schedule -4 - Schedule 7	**1,836,248**	**1,696,551.00**

Sub Schedule- 5 of Schedule 7 : Duties & Taxes

Particulars	Amount (Rs) 31.3.2017	Amount (Rs) 31.3.16
Service tax payable		281,182.00
TDS 92A (Salary Payable)	52,497	3,090.00
TDS 94C payable	47,498	240,360.00
TDS 94J (Prof) payable	37,778	262,250.00
TDS/Income tax payable	222,289	223,170.00
Total - Sub Schedule -5 - Schedule 7	**360,062**	**1,010,052.00**

Sub Schedule- 6 of Schedule 7 : Unspent Grants

Particulars	Amount (Rs) 31.3.2017	Amount (Rs) 31.3.16
Unspent Grants - ZCC (NCEP)		41,638,375.00
Unspent Grants - North East Activities	2,813,403	14,013,289.00
Total - Sub Schedule -6 - Schedule 7	2,813,403	55,651,664.00
Total - Sub Schedule -3 to 6 - Schedule 7	**5,009,713**	**79,957,995.00**

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedules to Schedules of Balance Sheet as at 31.03.2017 - Assets

Sub Schedule- 1 of Schedule 10- : INVESTMENTS & DEPOSITS

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
Fixed Deposit- Oriental Bank of Commerce	2,500,000	2,500,000.00
Fixed Deposit- Bank of Baroda	34,343,000	8,260,000.00
Fixed Deposit- State Bank of India	12,600,000	30,804,000.00
Fixed Deposit- Canara Bank		33,000,000.00
RBI Bonds - Corpus Fund	96,166,000	30,166,000.00
Long Term Fixed Deposit- State Bank Of India		2,200,000.00
State Bank Of Patiyala	62,404,000	182,570,000.00
State Bank Of Travancore		7,700,000.00
Short Term Deposit (Allahabad Bank)		-
Allahabad Bank - Corpus	91,000,000	-
Total	299,013,000.00	297,200,000.00

Sub Schedule -1 of Schedule 11 - Sundry Debtors & Other Debit Balances

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
1. Sundry Debtors :		
Director NCZCC Allahabad	1,451,191	-
Grant Receivable- TPS	332,942	-
Grant Receivable- ZCC	2,318,442	
Grant Receivable- Gandhi Shilp Bazar	695,476	695,476.00
Grant Receivable- Pension Scheme	1,800,000	1,800,000.00
Total	**6,598,051**	**2,495,476.00**

Sub Schedule -2 of Schedule 11 - Bank Balances

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
2. Bank Balances :		
Bank of Baroda - FFD	2,010,777	12,865,777.00
Bank of Baroda - Savings	(674,066)	(1,764,474.29)
Bank of Maharashtra Savings	21,917,364	10,147,917.83
Canara Bank Nagpur	(274,740)	1,104,444.00
Oriental Bank of Commerce	800,539	575,188.90
State Bank of India- SB	212,274	2,204,034.91
Short term deposite		35,000,000.00
Canara Bank Khajuraho	30,382	11,526.90
Total	24,022,530	60,144,415.25

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedule -3 of Schedule 11 - Advances to staff

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
3. Advances to Staff as per list	137,907	187,226.00
Total	**137,907**	**187,226.00**

Sub Schedule -4 of Schedule 11 - Prgramme Advances to staff

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
As per List	1,305,857	1,838,284.00
Total	**1,305,857**	**1,838,284.00**

Sub Schedule -5 of Schedule 11 - Travelling Advances to staff

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
As per list	579,143	171,905.00
Total - Travelling Advance	**579,143**	**171,905.00**

Sub Schedule -6 of Schedule 11 - Imprest Advances to staff

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
Imprest Postage	19,891.00	**34,859.00**
Total	**19,891.00**	**34,859.00**

Total of Sub schedule 4 to 6	1,904,891.00	2,045,048.00

Sub Schedule -7 of Schedule 11 -Advances to Others for Goods and Services

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
AMOL CATERERS	500,406	500,406.00
Advance to Dr Sengupta A/c	19,850	19,850.00
Advance to Kapurchand A/c	26,000	26,000.00
Advance to Shahen Carven A/c	21,000	21,000.00
Advance to Surendra Chedam A/c	5,000	5,000.00
Adv P L Deshpande Academy	3,371	3,371.00
Adv Shankar Bangaskar A/c	30,000	30,000.00
Budhaa Mohotsav Adv A/c	30,000	30,000.00
Advance to Ex Engineer CPWD for works	2,045,531	2,045,531.00
Dheesaram Joshi	6,900	6,900.00
Ishwar Shrirame (Transport Allowance Receivable)	25,452	-
Jennefer Madera Adv A/c	30,000	30,000.00
Total	2,743,510	2,718,058.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub Schedule -8 of Schedule 11 - Utility Deposits

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
Deposit With H.P Domestik Gas Servises	2,900	2,900.00
SD Against Securty Gaurd, House Keeoing (OCCM)	2,000	2,000.00
K S R T C - Hospet	15,848	15,848.00
M.P.Electricity Board	9,050	9,050.00
M.S.Electricity Deposit	70,950	40,160.00
Prepaid Group Gratuity Premium LIC	217,000	217,000.00
Prepaid Insurance	51,500	36,684.00
Security deposie - Spanco		16,550.00
Telephone Deposit	26,200	26,200.00
Water Deposit	10,000	10,000.00
S.D.Telephone (BSNL)	3,000	500.00
Total	408,448	376,892.00

Sub Schedule -9 of Schedule 11 - Other Debit Balances

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
i) Telephone Charges Recivebal	51,111.00	51,111.00
ii) G.P.F Subcription A/c	4,998.00	4,998.00
iii) Amount due from sub judice cases:		
A.S. Padmanabh	21,868.00	21,868.00
Shilpagram sales Emporium	89,690.00	89,690.00
Yashwant Sirdeshpande	191,204.00	391,204.00
Lila Media Corp		6,750.00
NIFT Mumbai		350,000.00
KKC	1,927.00	
Service Tax	53,636.02	
SBC	2,173.25	
Total	416,607.27	915,621.00

Sub Schedule -10 of Schedule 11 - Interest accrued on Investments

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
Interst Accrued But Not Due	2,149,159.00	3,908,807.81
Total	2,149,159.00	3,908,807.81

Sub Schedule -11 of Schedule 11 - Claims Receivable

Particulars	Amount (Rs.) 31.3.2017	Amount (Rs.) 31.3.2016
TDS Recievabel A/c	144,332.00	73,322.00
Income Tax Refundable/Receivable	471,497.10	471,497.10
Total	615,829.10	544,819.10

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

List Sub Schedule 3 -Schedule- 11 Advances

Advance	Amont	Amount
Anil Thakre -Festival Advance	2,500	
Bhupendra Singh-Festival Advance	2,500	
Dande-Festival Advance	2,500	
Dhabekar-Festival Advance	2,500	
Dipak Patil-Festival Advance	2,500	
Gajanan Shelke-Festival Advance	2,000	
Ganvir - Festival Advance	2,500	
Ishwar Shrirame-Festival Advance	2,500	
Jadhav-Festival Advance	2,500	
MEDICAL ADVANCE TO STAFF	20,000	
Mulchand Khushwaha-Festival Advance	2,500	
Pande-Festival Advance	2,500	
Punwani-Festival Advance	2,500	
Shende-Festival Advance	2,500	
Shrivastava-Festival Advance	2,500	
Smt. U.V.Indurkar-Festival Advance	2,500	
Temporary Loan Ishwar Shrirame	15,000	
Temporary Loan To Anil KhandagaleA/c	6,000	
Temporary Loan To B Shende A/c	6,250	
Temporary Loan to G.N Thorat A/c	26,672	
Tempory Loan Dinkar Dhabekar	1,979	
Temprory Loan to Ujwala Indurkar	25,006	
Grand Total	**137,907**	

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

List Sub Schedule 3 -Schedule of 11 Advances

Travelling Advance	Amount	Amount
Betawar- Travelling Advance	37,498	
Dande- Travelling Advance	10,500	
Deepak Patil- Travelling Advance	64,254	
DR PIUSH TRAVELING ADVANCE	150,992	
Dr. Sajith E.N. Travelling Advance	66,139	
Indurkar- Travling Adv		5,145.00
Ishwar Shrirame -Travelling Advance	1,148	
Jadhav- Travelling Advanace	5,679	
Khandagale- Travelling Advance	8,000	
Koche- Travling Adv		3,670.00
Kulkarni- Travelling Advance		24,237.00
Prajapati- Travelling Advance	25,051	
Rao Travelling Adv.	7,771	
Shelke -Travelling Adv.		1,824.00
Shende-Travelling Adv	18,000	
SINGAL TAVELLING ADVANCE	55,473	
S.J.Patil Travelling Advance	6,000	
Sonpipare- Travelling Advance	6,477	
Thakare Travelling Adv.		7,079.00
Thorat- Travelling Adv	53,199	
Tiwari- Travelling Advance	58,996	
WANKHEDE-TRAVELING ADV	3,966	
Total- A	**579,143**	**41,955.00**

List Sub Schedule 4 -Schedule- 11 Advances

Programme Advance	Amount	Amount
Betawar- Programme Advance	1,058,153	
Dande- Programme Advance	11,980	
Deepak Patil - Programme Advance		15,499.00
Dhabekar- Programme Advance	4,155	
Ishwar Shriram Prog Adv	34,098	
Khandagale- Programme Advance		5,000.00
Khoche- Programe Advance	5,000	
Kulkarni- Deepak- Prog.Advance		1,320.00
Mukulchand Adv- Program	20,000	
Prajapati- Programme Advance	133,452	
Sonpipare - Programe Advance	990	
Thakre - Programe Advance		12,376.00
Thorat- Programme Advance	18,893	
Tiwari - Programme Advance	8,405	
Wankhede - Programme Adv	10,731	
Total - B	**1,305,857**	**34,195.00**

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2017

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/ Services	12	0.00	15,193,210.00
Grants/ subsidies	13	123,117,645	78,560,563.00
Fees/ Subscriptions	14	1,055,250	2,364,110.00
Income from Investments (income on invest. From earmarked/ endow. funds tranferred to funds)	15		
Income from Royalty, publication etc.	16		
Interest Earned	17	29,259,457	28,261,406.00
Other Income	18	17,292,915	2,376,229.00
Increase / (decrease) in stock of finished goods and works -in- progress	19		
TOTAL (A)		170,725,267	126,755,518.00
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	17,825,612	17,955,362.00
Other Administrative Expenses etc.	21	11,264,370	14,322,675.00
Expenditure on Grants, Subsidies etc	22		
Interest	23		
Expenditure on Regular Programmes	24	72,577,897	72,567,064.00
Expenditure on Special Programmes	25	59,739,677	5,993,499.00
Depreciation (Net Total at the year end- corresponding to Schedule 8)	26	2,426,023	2,522,422.43
TOTAL (B)		163,833,580	113,361,022.43
Balance being excess of the Income Over Expenditure (A-B)		6,891,688	13,394,495.57
Add : Opening Balance		23,794,634	14,150,138.74
Add: Adjusted as per JV passed			
Less: Transfer to Special Reserve (Specify Each)			3,750,000.00
Less/ Add : Transfer to/ From General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUR/CAPITAL FUND		30,686,322	23,794,634.31
Significant Accounting Policies	27		
Notes to Accounts	28		

Place : Nagpur
Date : 15/07/2017

Sr. Accounts & Admn. Officer
South Central Zone Cultural Centre
Nagpur.

Director
South Central Zone
Cultural Centre, Nagpur

As per our Report of even date
FOR KEDAR GOKHALE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 131980W

(KEDAR GOKHALE)
PARTNER
M.No. 039140

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/ SERVICES	Current Year	Previous Year
1. Income from Sales		
a) Sales of Finished Goods		
b) Sales of Raw Material		
c) Sales of Scraps		
2. Income from Services :		
a) Labour and Processing Charges		
b) Professional/ Consultancy Services		
c) Agency Commission and Brokerage.		
d) Maintenance Services (Equipment/ Property)		
e) Others (Specify) - Sub schedule - 1	0.00	15,193,210.00
TOTAL	0.00	15,193,210.00

SCHEDULE 13 - GRANTS/ SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1. Central Government	114,332,645	5,993,499.00
2. State Government(s)		
3. Government Agencies		
4. Institutions/ Welfare Bodies - Grant for Pension Scheme		
5. International Organisations		
6. Others (Specify) (Sponsorship Grant) - Sub schedule -	8,785,000	72,567,064.00
TOTAL	123,117,645	78,560,563.00

SCHEDULE 14 - FEES/ SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
1. Entrance Fees - Sub schedule - 1	318,950	552,350.00
2. Annual Fees/ Subscriptions		
3. Seminar/ Programs Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Entry Passes and Entry Tickets - Sub schedule -2	736,300	1,811,760.00
TOTAL	1,055,250	2,364,110.00

Note : Accounting Policies towards each item are to be disclosed

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Interest :		
a) On Govt. Securities		
b) Other Bonds/ Debentures		
2. Dividends :		
a) On Shares		
b) On Mutual Fund Securities		
3. Rents		
4. Others (Specify)		
TOTAL		

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Current Year	Previous Year
1. Income from Royalty		
2. Income from Publications		
3. Others (Specify)		
TOTAL		

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits :		
a) With Schdule Banks - Sub Schedule -1	27,576,712	27,496,413.00
b) With Non-Schdule Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2. On Saving Accounts :		
a) With Schdule Banks Sub Schedule -2	1,682,745	764,993.00
b) With Non-Schdule Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3. On Loans :		
a) Employees/ Staff		
b) Others		
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
TOTAL	29,259,457	28,261,406.00

Note - Tax deducted at source to be indicated

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
1. Profit on Sales/ disposal of assets:		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Export incentives realised		
3. Other Income - Sub Schedule - 1	17,218,960	2,349,804.00
4. Misccellaneous Income Shilpgrram - Sub Schedule -2	73,955	26,425.00
TOTAL	17,292,915	2,376,229.00

KEDAR GOKHALE & CO. ★ NAGPUR ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 19- INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current Year	Previous Year
a) Closing Stock		
- Finished Goods		
- Work-in-progress		
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods		
- Work-in-progress		
NET INCREASE / (DECREASE) (a-b)		

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
Salaries and Wages	13,597,929	14,212,621.00
DA Arrears Account	240,100	135729.00
Allowances and Bonus	227,964	84,335.00
Children Education Allowance	138,343	178,532.00
Contribution to Provident Fund	1,164,325	1,081,157.00
Contribution to Other Fund (specify) (Leave salary & pension Cont.)		
Leave Salary	488,899	777,973.00
Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits - Gratuity Premium	291,000	
Pension Scheme Expenses	1,315,040	1,057,731.00
Deduction from salary	25,000	
Others (specify) - Medical Reimbursement	337,012	427,284.00
TOTAL	17,825,612	17,955,362.00

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Purchases		-
b) Labour and processing expenses - Sub Schedule -1	3,644,848	2,136,398.00
c) Cartage and Carried Inwards		-
d) Electricity and Power	1,030,940	1,026,450.00
e) Water Charges	11,723	43,539.00
f) Insurance	52,514	16,154.00
g) Repairs and Maintenance - Sub Schedule - 2	2,904,304	4,196,792.00
h) Locker Rent		1,254.00
I) Rent , Rate and Taxes	719,704	779,728.00
j) Vehicles Running and Maintaince	108,831	145,387.00
k) Postage, Telephone and Communication charges - Sub Schedule - 3	383,629	287,971.00
l) Printing and Stationary	235,317	379,177.00
m) Traveling and Conveyance Expenses - Sub Schedule- 4	254,486	404,836.00
n) PF Interest recovery		280,312.00
o) Prior period exp		1,788,464.00
p) Professional Tax		4,600.00
q) Auditors Remuneration	430,124	226,480.00
r) Professional Charges	48,300	107,720.00
s) Provision for Bad and doubtful Debts / Advances		
t) Interest paid on TDS	60,938	974,240.00
u) Programm commite exp		39,300.00
v) Independence day exp	1,000	3,523.00
w) Advertisement and Publicity	183,309	28,143.00
x) Others (specify) - Subschedule 5	1,194,404	1,452,207.00
TOTAL	11,264,370	14,322,675.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Expenditure on Regular Programmes Sub Schedule 1	-	-
b) Expenditure on Special Programmes Sub Schedule -2	-	-
c) Expenditure on theater Scheme -Sub schedule -3		
d) Shilpagram Activities - Sub Schedule -4		
TOTAL	-	-

Note : Name of the Entity, their Activities along with he amount of Grants / Subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE 23 - INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including Bank Charges)		
c) Other (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE 24 - EXPENSES ON REGULAR PROGRAMMES	Current Year	Previous Year
a) Expenses on NCEP Programme - Sub Schedule -1	71,993,552	71,491,642.00
b) Expenses on Theatre Programme - Sub Schedule - 2	584,345	20,000.00
TOTAL	72,577,897	71,511,642.00

SCHEDULE 25 - EXPENSES ON SPECIAL PROGRAMMES	Current Year	Previous Year
a) Special Programmes - Sub Schedule 1	59,612,925	5,993,499.00
b) Shilpgram Activities - Sub Schedule - 2	126,752	1,055,422.00
TOTAL	59,739,677	7,048,921.00

KEDAR GOKHALE & CO. ★ NAGPUR ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule 1 of Schedule -12 : Other Income

Particulars	2016-17	2015-16
24th OCCM craft stall booking		2,756,000.00
24th OCCM food stall booking		1,656,532.00
IFR Vishakhapatanam Stall booking		790,678.00
IFR Vishakhapatanam Programme Receipts		9,990,000.00
Total	0.00	15,193,210.00

Sub Schedule -1 of Schedule 14 : Receipts from Entry Fees

Particulars	2016-17	2015-16
Entry fee receipts from Workshop		54,600.00
Entry fees 29th NECA		461,500.00
Entry from MBKKH		12,750.00
Entry fees	318,950.00	23,500.00
Total	318,950.00	552,350.00

Sub Schedule -2 of Schedule 14 : Receipts from Entry passes & Tickets

Particulars	2016-17	2015-16
Sale from Entry ticket	736,300.00	569,950.00
Sale of 24th OCCM entry ticket		1,241,810.00
Total	736,300.00	1,811,760.00

Sub Schedule - 1 of Schedule 17 : Interest on Long Term Deposits

Particulars	2016-17	2015-16
Interest on Long term deposite	20,827,407.00	22,583,975.00
Interest on RBI Bonds - FDR	6,430,722.00	1,688,135.00
Interest on short term deposite	318,583.00	3,224,303.00
Interest Receivable		
Total	27,576,712.00	27,496,413.00

Sub Schedule - 2 of Schedule 17 : Interest on Savings Accounts

Particulars	2016-17	2015-16
Interest on Savings Accounts	1,682,745.00	764,993.00
Total	1,682,745.00	764,993.00

Sub Schedule -1 of Schedule 18 Receipts from premises & Lawn

Particulars	2016-17	2015-16
Receipts from Prmises & Lawn booking	1,554,200.00	1,254,755.00
Receipts from Khajurao lawn booking		80,000.00
Booking of Art Gallery	7,500.00	
Receipts from Programme	536,810.00	
Sale of office vehicle	50,786.00	
Other misc receipts	302,780.00	489,549.00
Return of painting 28th all india contest	394,225.00	32,000.00
Other Maintenance charges	141,500.00	
Sale of Tender Forms	20,500.00	18,500.00
Funds From Karnataka Govt.(Horanadu Uthsava)	9,199,929.00	
Sponsership of Programme	5,010,730.00	475,000.00
Total	17,218,960.00	2,349,804.00

Sub Schedule - 2 of Schedule 18 - Shilpagram Receipts

Particulars	2016-17	2015-16
Shilpgram Misc Receipts	73,955.00	26,425.00
Total	73,955.00	26,425.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule 1 of Schedule 21 - Labour and Out Sourcing Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Payment to outsource agency	2,684,720.71	1,372,049.00
Wages to Security Guards	960,127.19	764,349.00
Total	3,644,847.90	2,136,398.00

Sub Schedule - 2 of Schedule 21 - Repairs & Maintenance Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Art Gallery Maintenance	3,500.00	6,740.00
Beatification of campus	43,000.00	742,589.00
Garden Maintenance	328,182.00	83,890.00
Land development & Site Development - Shilpagram		-
Maintenance of premises	574,126.00	980,659.00
Repairs & Maintenance to office Building/ Premises	617,289.00	1,733,985.00
Repairs & Maintenance to office Equipments	32,113.00	97,792.00
Shilpgram Maintenance Expenses	834,506.00	530,932.00
Site Development & Land Beautification	282,454.00	-
Tagore Cultural Complex Expenses		
Maintenance of Regional office- Raipur	45,244.00	
maintenance of Art Gallary		5,870.00
Repairs & maint of office Computer	102,949.00	8,925.00
Repairs & Maint of office vehicle	40,941.00	5,410.00
Total	2,904,304.00	4,196,792.00

Sub Schedule- 3 of schedule 21 : Postage, Telephone and Communication charges

Particulars	Current Year	Previous Year
Postage	40,507.00	43,671.00
SMS Expenses	15,000.00	-
Telephone Expenses	316,983.00	233,161.00
Website Expenses	11,139.00	11,139.00
WiFi Expenses		-
Total	383,629.00	287,971.00

Sub Schedule- 4 of Schedule 21 : Travelling & Conveyance Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Local Transport		-
Travelling Expenses	254,486.00	404,836.00
Total	254,486.00	404,836.00

Sub Schedule- 5 of Schedule 21 : Other Expenses

Particulars	Current Year	Previous Year
Leavaries	5,586.00	18,924.00
Bank Charges	103,156.50	48,255.00
Meetiing Expenses	825,582.00	1,123,245.00
News paper & Periodicals	28,596.00	29,170.00
Office & Miscellaneous Expenses	61,358.00	102,033.00
DPR Preparation Expenses		0.00
Insurance of assets	11,180.00	
Sumptuary Expenses	158,945.00	130,580.00
Total	1,194,403.50	1,452,207.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule- 1 of Schedule 24 : Expenditure on regular Programmes Page -1

A) NCEP Programmes

Particulars	Current Year	Previous Year
Orange City Craft Mela, Nagpur		10,698,013.00
28th All India Contemprary Penting Exibition		1,325,961.00
29th National national exhibition of Contemporary art		7,299,282.00
Shataram Pant Khirwadkar Sangit samroh		164,525.00
All woman world folk art festival banglore		33,200.00
Ambedkari Jalsa Prog		228,000.00
Ashtapahlu Kalidas Samaroh		55,062.00
Baisakhi Mahotsav jaipur/Nagpur		148,769.00
Basant Bahar		69,500.00
BRAHMANAD PROGRAM		2,005,120.00
Chikhaldara Tourisum		137,355.00
Classical dance prog- Nagpur		20,000.00
Contemparary art camp gurgaon		14,758.00
Cultural Evening at NADT, Nagpur		40,000.00
Cultural programme at OFC		190,000.00
Cultural programme on 15th Aug		10,000.00
Dance Jathare Banglore		35,000.00
Documentation Exp	-	668,804.00
Dr. Vasantrao Deshpande Smruti Sangeet Samaroh-Nagp		2,193,346.00
Folk Fair Jaganathpuri A/c		106,250.00
Folklore Program Exp A/c		103,640.00
Food festival dharwad		134,961.00
Foundation day celebration		40,000.00
Gandhi Shilp Bazar Nagpur A/c		49,290.00
Gram Mahotsav Gothangaon		192,633.00
Gurushishya Parampara exp	-	172,500.00
Happy Street lazim dance a/c		5,000.00
Hindi Pakhwada		11,206.00
Hindu Yuvjana sangam		278,708.00
International Dhrpad samaroh		2,282,810.00
International Fleet review vishakhapattam		9,378,857.00
International Yoga day		87,125.00
Janani Music festival		15,000.00
Janbhari National theater festival		45,000.00
Kabir Mahotsav		1,283,194.00
Kala Ghoda festival Mumbai		134,900.00
Kala Mohotsav- Aurangabad Exp		677,068.00
Kaleidoscope A/c		8,000.00
Karva -E-Adab (Akhil Bhartiya Mushayara)		751,205.00
Loha Shilf Work Shop A/c		4,708.00
Lok Kala Yatra in Andhra		727,363.00
Lok Kala Yatra- Belgaon		20,000.00
Lok Kala Yatra in Chattisgarh		286,741.00
Lok Kala Yatra in Karnataka		861,149.00
Lok Kala Yatra in Karwar		774,981.00
Lok kala yatra multai		433,535.00
LOk Kala Yatra - Sangali A/c		8,000.00
Lok kala yatra umaria		7,547.00
Lok kala yatra warud		429,162.00
Lok kala yatra vidarbha		526,900.00

Contd

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule- 1 of Schedule 24 : Expenditure on regular Programmes Page-2

A) NCEP Programmes

Contd

Particulars	Current Year	Previous Year
Lok rang festival		390,831.00
Lok rang mahotsav bhopal		108,488.00
Lok sanskritik sandhya		30,232.00
Maa Nav Chandika Mela Utsav A/c		244,716.00
Mahamurkha Sammelan		583,320.00
Maharashtra darshan in MP		3,091,076.00
Mahashivratri Festival		60,000.00
Make in india -Mumbai		849,514.00
Malwa Utsav at Indore		120,000.00
MP Darshan in Maharashtra		14,478.00
Muze Bhi KUch Kahana Hai		57,017.00
National cultural exchange prog		278,693.00
National Mask Dance & Martial Art Festiwal A/c		21,596.00
Pola festival		8,600.00
Police sports meet		236,000.00
Rajasthani folk song		80,000.00
Rasbhakti Sangit sham		2,000.00
Rashtriya sanskriti mahotsav		4,997,661.00
Ras rang (Kawwali) 2016 Raipur		1,313,879.00
RD Parade		6,141,586.00
RD Parade celebration 2015		30,000.00
Rajyotsava Raipur (C.G.)		18,383.00
Rashtriya Bhakti Sanget Smaroh , Sevagram		80,650.00
Sanskriti sandhya nagpur		165,000.00
Shourya Parwa , Bangloru		274,280.00
Silver jubilee celebration		3,047,387.00
Simhasta Kumbha mela ujjain	-	60,561.00
Swaccha bharat abhiyan		300,000.00
Swanrna jayanti gramin rojgar cultural prog		77,880.00
Tapti mahotsav		98,030.00
Tapti mahotsav		36,640.00
Thematic exhibition		58,905.00
Tribal fashion show		7,071.00
Training Painting Work Shop - Delhi		383,702.00
Training Painting Workshop, Nagpur		1,088,667.00
Varhadi hasya sammelan		50,000.00
Womens day festival Hyderabad		898,822.00
Yuva sangeet nritya prog Neemuch		60,000.00
Yuva Sangeet Pratiyogita A/c		511,849.00
14th Folk Fair-2016	154,905.00	
25th Orange City Craft Mela'2017	283,820.00	
25th Vasantrao Deshpande Smruti Sangeet Samaroh	9,101,176.00	
29th National Exhibition of Contemporary Art	912,841.00	
2nd International Crafts & Cultural Fair	240,234.00	
350th Birth AniversaryGuru Govind Singhji Nanded	25,000.00	
4th Assam International Agri-Traditional Show	300,000.00	
Agni Mohotsav - Panna Dist.	406,465.00	
Amadalli Janapada Folk Cultural Festival	171,620.00	
Ambedkari Jalsa Programme	300,000.00	
ANNA BHAU SATHE MARATHI MUSICAL PROG.	330,000.00	
Annual Day Cultural Prog. at PDACC, Mumbai	15,000.00	
Ashadi Ekadashi Utsav, Kolhapur	300,000.00	
Baisakhi Mohotsav Jabalpur/ Nagpur A/c	165,000.00	
Brahmanad Programe, Nagpur	1,732,483.00	
Classical Prog. Dragon Palace Kamptee	100,000.00	
Clay Workshop Gadchiroli	96,285.00	
Cultural Progamme -Tere Naam Ka Diwana	25,000.00	
Cultural Prog At NADT	171,110.25	
Cultural Programe at Nagpur	100,000.00	
Cultural Programe -MTDC Food Festival Nagpur	75,000.00	
Cultural Programme at O.F.C.	75,000.00	
Documentation Expenses A/c	4,752,517.00	
Dr.Vasantrao Deshpande Yuva Sangeet Pratiyogita	1,720,447.00	
Gurushisha Parampara Exps	275,130.00	
Hindi Patrachar 2016-17	13,100.00	
Horanadu Uthsava Amarkantak	342,404.00	

contd

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR ★ ACCOUNTANTS ★

SOUTH CENTRAL CULTURAL ZONE, NAGPUR

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule -1 of Schedule 25 Expenditure on Special Programmes

B) Tribal Sub plan - TSP

Particulars	Current Year	Previous Year
Bilasa Mahotsav		126,017.00
Geeta Gayatri		253,356.00
Lok Kala Yatra, Chhatisgarh		248,279.00
Lok Kala Yatra, (AP)		780,771.00
Lokotsav At Bangloru		96,170.00
Lopmudra Amravati		86,875.00
Rajhim Kumbha Prog		365,027.00
Traditional folk painting		49,980.00
Tribal festival of india		243,525.00
Adivasi Mahotsav Futala Lake Nagpur	155,000.00	
BILASA MAHOTSAVA-BILASPUR	65,450.00	
Hampi Festival	244,792.00	
Katol Festival (Cultural Programe)	409,600.00	
Loha Shilp Work Shop Chhattisgarh	674,700.00	
Lok Kala Yatra AP (TSP)	165,230.00	
Lok Kala Yatra, Chhatisgarh	389,208.00	
Lok Kala Yatra Telangana (TSP)	236,490.00	
Lokutsav Goa (TSP)	110,420.00	
National Folk Dance Festival Basavakalyan (K.S.)	120,552.00	
National Folk Festival Vasai (TSP)	89,057.00	
Traditional Tribal Painting Workshop, Nagpur	6,700.00	
ZCC Wall Painting Workshop (2016-17)	128,743.00	
NORTH EAST ACTIVITIES :		
Agni Mohotsava (NEA) Panna Dist	181,406.00	
Antar Rashtriya Mool Niwasi Diwas	719,704.00	
Bastar Lok Utsav 2016 Jagdalpur	4,469.00	
Horanadu Uthsava Bodhgaya (NER)	94,725.00	
Horanadu Uthsava Sarnath (NER)	119,482.00	
Ishanya Parva' 2017 (Octave)	6,821,636.00	
Katol Cultural Festival (NEA)	106,904.00	
Lok Kala Yatra Maharashtra (NEA)	162,960.00	
Lokutsav Goa (NEA)	319,375.00	
NATIONAL FOLK FESTIVAL VASAI (NEA)	231,132.00	
North East Festival Bangalore	547,479.00	
Rajyutsav Raipur (NEA)	176,135.00	
Shourya Parva Banglore (NEA)	165,670.00	
Simhastha Kumbh Ujjain 2016 (NEA)	1,548,809.00	
Total (B)	**13,995,828.00**	**2,250,000.00**

Total A+B	59,612,925.00	5,993,499.00

KELKAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule- 2 of Schedule 24 : Expenditure on regular Programmes

B) Theatre Scheme

Particulars	Current Year	Previous Year
Lok Kala Natya Pra Shibir Akola A/c		-
National MIne Festiwal Jabalpur A/c		-
National Natya Samaroh A/c		-
National School of Drama Festival- Nashik		-
Roti wali gali theatre show		20,000.00
French Drama Show Nagpur	249513.00	
Goa Natya Utsav	196968.00	
National Theatre Festival, Gubbi (K.S.)	137864.00	
Total (B)	**584,345.00**	**20,000.00**

<u>Sub Schedule -1 of Schedule 25 Expenditure on Special Programmes</u>

A) Special Programmes

Particulars	Current Year	Previous Year
24th OCCM (NEA PROG)		231,080.00
All india craft mela		435,027.00
Bharat lokrang mahotsav		474,832.00
Dashera Mahotsav, Chattisgarh		526,658.00
Drums of India Ram nagar		654,622.00
Lok kala yatra NEA		32,060.00
Lok kala yatra multai		108,024.00
Lok Kala yatra morshi		108,025.00
Mandai Mahotsav		96,776.00
North East Activity/ Handicraft villege banglore		141,800.00
Pachmari Mahotsav		126,161.00
Sanskrutik Cultural Prog		454,167.00
Shourya parva banglore		180,217.00
Utkal bangla utsav		174,050.00
Documentation Expenses A/c - Sinhastha Kumbh Mela	4,078,311.00	-
Horandu Utsava - Buddhagaya	4,989,713.00	
Horandu Utsava - Mumbai	2,911,466.00	
Horandu Utsava - Sarnath	1,298,750.00	
International Fleet Review - Vishakhapattanam	13,220.00	
Sinstha kumbh Mela Ujjain - 2016	32,325,637.00	
Total - A	45,617,097.00	3,743,499.00

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule -1 of Schedule 25 Expenditure on Special Programmes

B) Tribal Sub plan - TSP

Particulars	Current Year	Previous Year
Bilasa Mahotsav		126,017.00
Geeta Gayatri		253,356.00
Lok Kala Yatra, Chhatisgarh		248,279.00
Lok Kala Yatra, (AP)		780,771.00
Lokotsav At Bangloru		96,170.00
Lopmudra Amravati		86,875.00
Rajhim Kumbha Prog		365,027.00
Traditional folk painting		49,980.00
Tribal festival of india		243,525.00
Adivasi Mahotsav Futala Lake Nagpur	155,000.00	
BILASA MAHOTSAVA-BILASPUR	65,450.00	
Hampi Festival	244,792.00	
Katol Festival (Cultural Programe)	409,600.00	
Loha Shilp Work Shop Chhattisgarh	674,700.00	
Lok Kala Yatra AP (TSP)	165,230.00	
Lok Kala Yatra, Chhatisgarh	389,208.00	
Lok Kala Yatra Telangana (TSP)	236,490.00	
Lokutsav Goa (TSP)	110,420.00	
National Folk Dance Festival Basavakalyan (K.S.)	120,552.00	
National Folk Festival Vasai (TSP)	89,057.00	
Traditional Tribal Painting Workshop, Nagpur	6,700.00	
ZCC Wall Painting Workshop (2016-17)	128,743.00	
NORTH EAST ACTIVITIES :		
Agni Mohotsava (NEA) Panna Dist	181,406.00	
Antar Rashtriya Mool Niwasi Diwas	719,704.00	
Bastar Lok Utsav 2016 Jagdalpur	4,469.00	
Horanadu Uthsava Bodhgaya (NER)	94,725.00	
Horanadu Uthsava Sarnath (NER)	119,482.00	
Ishanya Parva' 2017 (Octave)	6,821,636.00	
Katol Cultural Festival (NEA)	106,904.00	
Lok Kala Yatra Maharashtra (NEA)	162,960.00	
Lokutsav Goa (NEA)	319,375.00	
NATIONAL FOLK FESTIVAL VASAI (NEA)	231,132.00	
North East Festival Bangalore	547,479.00	
Rajyutsav Raipur (NEA)	176,135.00	
Shourya Parva Banglore (NEA)	165,670.00	
Simhastha Kumbh Ujjain 2016 (NEA)	1,548,809.00	
Total (B)	**13,995,828.00**	**2,250,000.00**

Total A+B	59,612,925.00	5,993,499.00

KEDAR GOKHALE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NAGPUR

Sub schedules of Income & Expenditure Account for the year ended on 31.03.2017

Sub Schedule -2 of Schedule 25 Expenditure on Special Programmes

C) Shilpgram Activities

Particulars	Current Year	Previous Year
Anandam, A/c		-
Anandam, A/c Aug 14		-
Anandam A/c Sep 2014		-
Archologist Sir Ki Class, A/c		-
Bhakti Sangeet Sandhya A/c		-
Bundeli Utsav		202,529.00
Childrens Summer Camp A/c		-
DM. Sir Ki Class, A/c		-
Dr.Sir Ki Class		-
Hindi Sangoshti, A/c		-
International Fleet Review , Vishakhapatanam		-
Kalakari Pratiyogita, A/c		15,926.00
Kalakari Lok Geet competition		17,923.00
Khajuraho Nritya Sama A/c		570,000.00
Lohashilp Workshop at Khajuraho		
Lok Natya Utsav,Naach		26,667.00
Lok Natya Utsav,Maach		125,099.00
Musium At Shilpgrams Khajurah A/c		-
Nari Sanskrutik Sandhya,A/c		-
Nari Womeans Programe, Shilpgrame		-
Paramparik Yatra Rally, A/c		-
Rang Bundeli, Shilpgrame		77,278.00
Rangoli Pratiyogita, A/c		-
Sanskrutik Sandhya A/c		-
SDOP Sir Ki Class, A/c		-
Shivratri Mahotsav Khajuraho		20,000.00
S.P Sir Ki Class A/c		-
Brics Utsav Khajuraho	64,508.00	
Kalakari -Folk Painting Competitions	10,646.00	
Kala Kari Lok Geet Compitition	10,103.00	
Lok Natya Ustav Nacha	26,667.00	
Rang Bundeli Kavi Sammelan A/c.	7,296.00	
Rang Bundeli Loknritya Utsav,Shilpgrame	7,532.00	
Total (C)	**126,752.00**	**1,055,422.00**

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SUB SCHEDULE 1 OF SCHEDULE 13 **OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2017**

GRANTS RECEIVED

Particulars	Unutilised Grants of 2015-2016 Brought Forward	Grants Received/ Receivable During The Year 2016-2017	Excess Grants Transferred to other Schemes/ Returned	Sub Total	Unspent Grants Carried Forward	Grants Credited During the Year 2016-2017
	1	2	3	4	5	6
				[1+2+3]		[4-5]
Grant For Tribal Sub Plan	-	2,795,942.00	-	2,795,942.00	-	2,795,942.00
Grant For North East Activities	14,013,289.00	-	-	14,013,289.00	2,813,403.00	11,199,886.00
Grants from NCZCC for RSM 2016	-	4,285,000.00	-	4,285,000.00	-	4,285,000.00
Grants from Lalitkala Academy - Sinhastha Kumbh Mela		3,750,000.00	-	3,750,000.00		3,750,000.00
Grants from Lalitkala Academy - Stone Carving WS Udaipur		750,000.00		750,000.00		750,000.00
				-		-
Sub Total A	14,013,289.00	11,580,942.00	-	25,594,231.00	2,813,403.00	22,780,828.00
GRANTS FOR ZCC HEADS (General)						
NCEP Programmes, Theatre Scheme, Singhastha Kumbh Mela etc	41,638,375.00	58,698,442.25		100,336,817.25		100,336,817.25
Sub Total B	41,638,375.00	58,698,442.25	-	100,336,817.25	-	100,336,817.25
Total Rs. (A+B)	55,651,664.00	70,279,384.25	-	125,931,048.25	2,813,403.00	123,117,645.25

KEDAR GOKHALE & CO. ★ NAGPUR ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Schedules forming part of the Balance Sheet as at 31/03/2017

SCHEDULE: 27 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO THE ACCOUNT

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Accounts of the society are maintained on the mercantile system of account.
2. Fixed assets are accounted at cost of acquisition plus incidental expenses and are shown in the Balance Sheet at written down value.
3. Grants received for acquisition of non depreciable assets are shown in the Balance Sheet under the head "Capital Reserve."
4. No depreciation has been charged on the land. Depreciation on the assets has been charged at the rates approved by the competent authority of the Centre. Depreciation has been charged on the written down value method.
5. Grants received for acquisition of depreciable assets are shown as deduction from the cost of assets acquired.
6. Grants received for the specific events to be completed in more than one accounting period are credited to the Income and Expenditure Account to the extent they are spent during that financial year. Remaining portion is shown in the Balance Sheet under the head "Specific Grants." Upon completion of the event unutilized portion is shown in the Balance Sheet under "Current Liabilities" till they are returned to the respective authorities.
7. Expenses incurred on various programs are allocated under specific heads. General and administrative expenses are shown separately as overall expenses of the Centre.

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR ACCOUNTANTS

SCHEDULE: 28

B. NOTES TO THE ACCOUNTS:

1. The equal contribution towards corpus fund from the state of Andhra Pradesh amounting Rs. 137.50 lakh is pending since long time, and 1 crore each from Madhya Pradesh, Karnataka and Maharashtra.

2. Investment against the Corpus Fund and General Reserve amounting Rs. 2950 lakhs (P.Y. 2972 lakhs) have been made in the fixed deposits / bonds of nationalised banks/ Reserve Bank of India as per Schedule "10" to the Balance Sheet.

3. Following items due from employees/ ex-employees are remaining outstanding for more than one year as these amounts are connected with the civil suit no. SCS-497/03 against Mr. A. S. Padmanabha and civil suit no. 496/03 against Mr. Y. S. Sirdeshpande. The Centre has initiated action on such persons and matter is sub-judice:

Sr No	Particulars	Amount FY 31.03.17 Rs.	Amount FY 31.03.16 Rs.
i	Mr. A. S. Padmanabha	89,690-	89,690/-
ii	Mr. Y. S. Sirdeshpande	1,91,204/-	3,91,204/-
iii	Mr. A. S. Padmanabha	21,868/-	21,868/-

During the year 2016-17, an amount of Rs. 200,000 has been recovered from Mr. Y.S. Sirdeshpande as final settlement amount. Balance Rs. 1,91,204 appearing outstanding as at 31.03.2017 will be written off from the books of accounts after receiving approval of Executive Board Governing Body (EBGB).

4. An amount of Rs. 500,406 [PY Rs. 500,406] is outstanding against M/s. Amol Caterer, who was running Ghotul Restaurant in premises of the centre is outstanding for more than one year. The matter is subjudice. No provision has been made in the accounts.

5. Statutory Compliance: Centre is not following statutory compliance prescribed under most of the statutes governing it on timely basis. Tax payment and filing of returns under the statues/ laws given below has been delayed:

   i. Annual income tax return sunder the Income Tax Act'1961have not been submitted for the financial year 2009-10, 2015-16.

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

ii. Filing of Service Tax Returns for the year 2014-15, 2015-16 and 2016-17 are pending.

iii. Centre has not filed electronic returns under The Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 since July'2011. Payment of profession tax deducted from the employee salary to the credit of the State Government has been delayed in many cases.

iv. Centre has not submitted the annual budget as prescribed under section 58 of the Bombay Public Trust Act'1950.

6. Construction and furnishing work of dormitory cum administrative block has been completed during the year under audit. This work was executed through the Central Public Works Department. Rs. 17.52 lakh are lying idle with it since the completion of work in the month of November'2013. It is noticed that the contractor has filed arbiter case.

7. The centre has valued the artifacts but not included in the books of accounts because some of them are unserviceable, broken and beyond economically repairable condition and those artifacts are produced during the various workshop under the scheme of National Cultural Exchange Programs.

8. No provisions have been made for leave encashment payable to employees of the Centre, Contribution payable under section 58 of the Bombay Public Trust Act, 1950.

9. The centre has not paid Rent of Art Gallery in Vasantrao Deshpande Halla mounting to Rs. 92.20 Lakh (PY Rs. 85.00 lakh) on account of dispute with State PWD and, the centre has contested this demand. However, provision has been made in the accounts.

10. Programme Advance of Rs. 10.58 Lakh (PY 14.04 Lakh) is appearing outstanding against Mr. Gopal Betawar. The CBI has given its preliminary enquiry report. Hence, adjustment entry is pending in the books of account.

11. Some Accounts of Programme Advances, Travelling Advances, Other Advances are under reconciliation.

12. Previous year's figures have been regrouped or re-arranged wherever necessary.

For South Central Zone Cultural Centre

(Dr. E.N. Sajith)
Director

Director
South Central Zone
Cultural Centre, Nagpur

Place : Nagpur
Date : July 15, 2017

for Kedar Gokhale & CO
Chartered Accountants
FRN- 131980W

(Kedar Gokhale)
Partner
M. No. 039140

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE IX - C

(Vide Rule 32)

Name of the Public Trust : SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE
56/1, CIVIL LINES, OPP. MLA HOSTEL, NAGPUR

Registration No. : F-7231

PTR No. : Maharashtra 489/86 (Nagpur)

Statement of Income liable to contribution for the year ended on : 31st March, 2017.

AMOUNT

	(Rs.)
I) Income as shown in the INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (Sch. IX)	17,07,25,267
II) Items not chargeable to contribution under section 58 and rule 32.	
i) Donations received from other public trusts and Dharmadas.	-
ii) Grants received from Government and local authorities.	12,31,17,645
iii)Interest on Sinking or Depreciation Fund.	-
iv) Amount spent for the purpose of secular education.	-
v) Amount spent for the purpose of medical relief.	-
vi) Amount spent for the purpose of veterinary treatment of animals.	-
vii)Expenditure incurred from donations for relief of distress caused by scarcity , draught, flood, fire or other natural calamity.	-
viii)Deductions out of income from lands used for agricultural purposes.	
a) Land Revenue and Local Fund Cess.	-
b) Rent Payable to superior landlord.	-
c) Cost or production, if lands are cultivated by trust.	-
ix) Deductions out of Income from lands used for non- agricultural purposes.	
a) Assessment ,Cessess and other Government or Municipal taxes	-
b) Ground rent payable to the superior landlord.	-
c) Insurance premia.	-
d) Repairs at 10% of gross rent of building.	-
e) Cost of collection at 4% of the gross rent building let out.	-
x) cost of collection of income or receipts from securities, stocks etc. at 1 percent of such income.	-

KEDAR GOKHALE & CO. ★ NAGPUR ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

xi) Deductions on account of repairs in respect of buildings not rented and yielding no income, at 10% of the estimated gross annual rent.	-
Gross annual income chargeable to contribution.	4,76,07,622
(Amount of contribution computed at the rate fixed under sub-section (1) of section 58 and payable)	9,52,152

Certified that while claiming deductions admissible under above Schedule , we have not claimed any amount twice either wholly or partly, against any of the items mentioned in the Schedulewhich have the effect of double-deduction."

For KEDAR GOKHALE & CO
Chartered Accountants
FR No 131980W

CA Kedar Gokhale
Partner
M.No.039140

Place: Nagpur
Date: July 15, 2017

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

ANNEXURE – A TO THE AUDIT REPORT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2017

Report of Auditor relating to accounts audited under Sub Section of Section 33 & 34 & Rule 19 of Bombay Public Trust Act,1950.

1	Name of the Public Trust	SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE 56/1, CIVIL LINES, OPP. MLA HOSTEL NAGPUR 440001
2	Registration No.	F- 7231
3	PTR No	Maharashtra 489/86 (Nagpur)
4	Accounts for the year ended on	31st March, 2017
5. a	Whether accounts are maintained regularly and in accordance with the provision of the act and the rules.	Accounts have been maintained regularly and in accordance with the provision of the act and rules.
B	Whether receipts and disbursements are properly and correctly shown in the accounts.	Receipts and disbursement have been properly and correctly shown in the accounts.
C	Whether the cash balance and vouchers in the custody of the Manager or Trustee on the date of the audit were in agreement with the accounts.	Cash balance and vouchers are in safe custody of the authorised officer, and they are in agreement with the accounts.
D	Whether all books, deeds, accounts vouchers or other documents or records required by the auditor were produced before him.	All books, accounts, vouchers and other documents are required for the purpose of our audit were produced before us.
F	Whether the manager or trustee or any other person required by the auditor to appear before him did so and furnished the necessary information required by him.	We have obtained all the information and explanations, which were necessary for our audit from the Director and Officers of the Centre.
G	Whether any property or funds of the trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the trust.	Property or Fund of the Centre have not been applied for any object or purpose other than the objects of the trust.
H	The amounts outstanding for more than one year and the amounts written off if any:	Nil

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

I	Whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs.1,00,000/-	Tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 1,00,000/-
J	Whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Section 35.	Money of the Centre has not been invested contrary to the provisions of Sec. 35 of the act.
K	Alienation, if any of the immovable property contrary to the provisions of section 36 which have come to the notice of the auditor.	Immovable property of the Centre has not been alienated contrary to the provisions of Sec. 36 of the act.
L	Any special matter, which the auditor may think fit or necessary to bring to notice of the Deputy or Assistant Charity Commissioner. [Matters of emphasis].	***1. The Centre has not paid contribution as required by provisions of Sec. 58(1) of the act.*** ***2. The centre has not filedService Tax and Profession Tax Returns in time.*** ***3. Some Loans and Advances given for Programmes, Travelling and other Advances are under reconciliation.***
M	All cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover money or other property belonging to the Public Trust or Loss or waste of money or other property thereof and whether such expenditure failure, omission, loss or waste was caused in consequences of breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustee or any other person while in the management of the trust.	During the period covered under audit, we have not come across of any instance of irregular, illegal or improper expenditure or omission to recover money where such instance had caused in consequence of breach of trust; miss application or miss conduct on the part of the trustee.
N	Whether budget has been filed in the form provided by rule 16 (A).	The Centre prepares budget every year and obtains approval of Competent Authority. However, the Centre has not filed budget with Charity Commissioner. The Centre is advised to file a copy of approved budget with the Charity Commissioner at least one month before commencement of the financial year as per the provisions of Sec. 31A of the Bombay Public Trust Act,1950.

KEDAR GOKHALE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NAGPUR

	ADDITIONAL POINTS OF AUDITOR'S REPORT	
I	Whether the maximum and minimum number of the trustees is maintained.	Yes
II	Whether the meetings are held regularly as provided in such instruments.	Yes
III	Whether the minute book of the proceedings of the meetings is maintained.	Yes
IV	Whether any of the trustees has any interest in the investment of the trust.	No
V	Whether any of the trustees is debtor or creditor of the trust.	No
VI	Whether the irregularities pointed out by the auditor in the accounts of the previous year have been duly complied with by the trustees during the period of audit.	Yes

For KEDAR GOKHALE & CO
Chartered Accountants
FR No 131980W

Place: Nagpur
Date: July 15, 2017

CA Kedar Gokhale
Partner
M.No.039140

KEDAR GOKHALE & CO. NAGPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन २०१६–१७

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

५६/१, सिविल लाईन, नागपुर–४४०००१

फोन: ०७१२–२५६ २१७४; फैक्स: ०७१२–२५६ ०९६६;

ई–मेल: sczccnagpur1986@gmail.com; वेबसाईट: www.sczcc.gov.in

अनुक्रमणिका

मध्यदक्षिणी SCZCC **दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर**

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यकारी तथा नियामक मंडल सदस्यों की सूची वर्ष 2016-17

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	पद
1	श्री च.विद्यासागर राव माननीय राज्यपाल तथा अध्यक्ष, द.म.क्षे.सा.कें, नागपुर, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई - 400 035	अध्यक्ष
2	डॉ. महेश शर्मा, मा. सांस्कृतिक मंत्री, भारत सरकार, कक्ष सं 351 "सी" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001	पूर्व- पदेन सदस्य
3	श्री विनोद तावडे, मा. सांस्कृतिक मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई- 440032	पूर्व- पदेन सदस्य
4	श्रीमती उमाश्री, मा. कन्नड तथा सांस्कृतिक मंत्री, रुम नं. 252, विधान सौदा, बंगलोर 560001	पूर्व- पदेन सदस्य
5	श्री पल्ले आर रेड्डी, मा. सांस्कृतिक मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, रुम. नं 310, साउथ "H" ब्लॉक, सचिवालय इमारत, हैद्राबाद (आं.प्र.) 500004	पूर्व- पदेन सदस्य
6	श्री सुरेंद्र पटवा, मा. सांस्कृतिक मंत्री, मध्यप्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल	पूर्व- पदेन सदस्य
7	श्री दयालदास बघेल, मान सांस्कृतिक मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार, नया मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर	पूर्व- पदेन सदस्य
8	श्री एन.के.सिन्हा, आई.ए.एस सचिव भारत सरकार,सांस्कृतिक मंत्रालय, कक्ष सं 502 "सी" विंग, शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली -110015	पूर्व- पदेन सदस्य
9	श्रीमती वल्सा नायर सिंह, आय.ए.एस. प्रधान सचिव,पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग, रुम नं.721, 7 वां माला, मंत्रालय, मुंबई 32 महाराष्ट्र सरकार	पूर्व- पदेन सदस्य
10	श्री मनोज श्रीवास्तव, आय.ए.एस. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल 462 001 (म.प्र.)	पूर्व- पदेन सदस्य
11	श्री एन. कुमार, आए.ए.एस. प्रधान सचिव, युवा सेवाएं, पर्यटन तथा सांस्कृतिक विभाग, "एच" ब्लॉक, प्रथम माला, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैद्राबाद 500022	पूर्व- पदेन सदस्य
12	श्री एस.आर. उमाशंकर, आए.ए.एस. प्रधान सचिव, कन्नड और सांस्कृतिक मंत्रालय, रुम नं 2, ग्राउंड फ्लोअर, विकास सौधा, बंगलोर 560 001	पूर्व- पदेन सदस्य
13	श्री संतोष कुमार आय.ए.एस., सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, नया मंत्रालय, महानदी भवन, राजधानी संकुल, नया रायपुर	पूर्व- पदेन सदस्य
14	श्री कुमार एस कृष्णा, आय.ए.एस. वित्तिय सलाहकार, सांस्कृतिक मंत्रालय, भा.स. रुम नं.135, बी विंग, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001	पूर्व- पदेन सदस्य
15	प्रा. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी रविंद्र भवन, 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली 110001	पूर्व- पदेन सदस्य

16	अध्यक्ष ललित कला अकादमी रविंद्र भवन, 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली 110001	पूर्व- पदेन सदस्य
17	श्री शेखर सेन, अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी रविंद्र भवन, नई दिल्ली 110001	पूर्व- पदेन सदस्य
18	श्री शैलेश यादव, निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार पुराना सचिवालय इमारत, पहला माला, एम.जी.रोड, मुंबई-32	पूर्व- पदेन सदस्य
19	डॉ. डी. विद्याभास्कर, निदेशक, भाषा तथा सांस्कृतिक विभाग, कला भवन, सैफाबाद, हैद्राबाद- 500 004 (आं.प्र.)	पूर्व- पदेन सदस्य
20	श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, आय.ए.एस., निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल	पूर्व- पदेन सदस्य
21	श्री राकेश चतुर्वेदी, भा.व.से, निदेशक,सांस्कृतिक विभाग, छत्तीसगढ सरकार, संत घासीदास संग्रहालय, घडी चौक, सिविल लईंस, रायपुर	पूर्व- पदेन सदस्य
22	श्री के.ए. दयानंद, के ए एस, आयुक्त, कन्नड तर्हा सांस्कृतिक विभाग, कर्नाटक सरकार, कन्नड भवन, जे.सी. रोड, बंगलोर 02	पूर्व- पदेन सदस्य
23	श्री लालेसाहेब शैख मास्टर, अध्यक्ष, कर्नाटक नाटक अकदमी, बंगलोर	पूर्व- पदेन सदस्य
24	प्रा.आ मालाथी पाटणशेट्टी, अध्यक्ष कर्नाटक नाटक अकदमी, बंगलोर	पूर्व- पदेन सदस्य
25	श्री प्रसाद महाजन, प्रकल्प निदेशक, पु.ल. देशपांडे कला अकादमी, रविंद्र नाट्य मंदीर, प्रभादेवी, मुंबई	पूर्व- पदेन सदस्य
26	श्री बाबा भंड, अध्यक्ष, साहित्य सांस्कृति मंडल, महाराष्ट्र सरकार रविंद्र नाट्य मंदीर, 2 व. माला, प्रभादेवी, मुंबई-25	पूर्व- पदेन सदस्य
27	डॉ. उमेश कुमार सिंह, निदेशक, साहित्य अकादमी, मुल्ल रामुजी भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल (म.प्र.)	पूर्व- पदेन सदस्य
28	श्री शामसुंदर अय्यागिरी हैद्राबाद, 102, ऋषि रेसिडेंसी, स्ट्रीट नं 12, सोम, 2-2185/63,सुंदर नगर, बाग अंबरपेट, हैद्राबाद 500013	अशासकीय प्रख्यात कलाकार
29	पदम्श्री आर.नागेशवर राव, श्री वेंकटशवरा नाट्यमंडली 12-8-236/7/1/2 सुरभि बिल्डींग, मेट्टीगुडा, हैद्राबाद 500017	अशासकीय प्रख्यात कलाकार
30	डॉ. अलेख्या पंजाला, श्री सदन, 3-6-105, हिमायत नगर हैद्राबाद 500029	अशासकीय प्रख्यात कलाकार
31	पं. रविशंकर व्यास, हनुमान मंदीर के पास, बुढ़ापारा, रायपुर	अशासकीय प्रख्यात कलाकार
32	श्री नागेश ठाकुर, 877/3 बी, बाल्को नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़	अशासकीय प्रख्यात रंगमंच कलाकार
33	डॉ. मांडवी सिंह, उप-कुलपती, इंदिरा कला, संगीत विशविद्यालय, खैरागड	अशासकीय प्रख्यात कलाकार
34	प्रा. ओ.एल. नागभूषणस्वामी, #201, 2nd क्रॉस, रुद्राक्ष रेसीदडेसी, कलिना अग्रहरा, बाणेरुघट्टा रोड, बंगलोर	अशासकीय प्रख्यात रंगमंच कलाकार
35	श्री सुभाष कम्मर, नं.38, विनायका, 2 क्रॉस, 2 में, कटरीगुपा ईस्ट, बीएसके 3स्टेज, बंगलोर 560085	अशासकीय प्रख्यात पेंटींग कलाकार
36	डॉ. मृत्युंजय आगडी, नाद लहरी, प्लॉट नं 288, तिवाई क्वाटर के पिछे, निसर्ग नगर, धारवाड	अशासकीय प्रख्यात गायक कलाकार
37	डॉ. सजीथ, इ. न., निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 56/1, सिविल लाईन्स, नागपुर	सदस्य सचिव

कार्यक्रम समिति 2016-17

क्रम संख्या	नाम तथा पता	पद
1	श्री विनोद तावडे मा. सांस्कृतिक मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई- 440032 (म.रा.)	अध्यक्ष
2	श्री आशुतोष मिश्रा निदेशक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग, एम.जी.एम म्युझियम, सिविल लाईंस, रायपुर-492002 (छ.ग.)	सदस्य
3	श्री राजेश प्रसाद मिश्र आयुक्त, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुल्ला रामोजी सांस्कृति भवन, आधार ताल बाणगंगा चौराहा, भोपाल- 462003	सदस्य
4	डॉ. डी. विजय भास्कर निदेशक, सांस्कृतिक कार्य विभाग,कला भवन, सैफाबाद, हैद्राबाद 500006	सदस्य
5	श्री संजय पाटील,निदेशक सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार, पुरानी सचिवालय इमारत, पहला माला, एम.जी. रोड, मुंबई -400 032 (म.रा.)	सदस्य
6	सुश्री एम.एस. अर्चना, KAS, निदेशक, कन्नड तथा सांस्कृतिक निदेशालय, कर्नाटक सरकार, कन्नड भवन, जे.सी रोड, बंगलोर- 560 002 कर्नाटक	सदस्य
7.	श्री शेखर सेन संगीत नाटक अकादमी, रबिंद्र भवन, फिरोज शहा रोड, नई दिल्ली -110 001	सदस्य
8	श्री कृष्ण किंबहुने, क्षेत्रीय सचिव, साहित्य अकादमी, 172, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय मार्ग, दादर, मुंबई 400 014 (म.रा.)	सदस्य
9	श्री आर.एम. पलनिअप्पन, क्षेत्रिय सचिव, ललित कला अकादमी, क्षेत्रिय केंद्र, चेन्नई- 600006 (तामिलनाडू)	सदस्य
10	शाहिर दादा पसालकर, 9-B/1, गुरुवारपेठ, पुणे 4011042 (म,रा.)	सदस्य
11	श्रीमती वानी देवी, प्रधानाचार्य, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स, मधापुर, हाई टेक सिटी रोड, हैद्राबाद - 500027, (आं.प्र)	सदस्य
12	सुश्री ललिथा फ्लैट णो. 301, भास्करा टॉवर्स, 3 3-4-507, बरकतपुरा, हैद्राबाद 500027 (आंप्र)	सदस्य
13	श्रीमती कृष्णा वर्मा, मालवालोक कला केंद्र,एल-96, मुनी नगर, तालाब के पस, उज्जै-456010, (म.प्र)	सदस्य
14	श्री अरूण मोरोने, 35/203, नव्य पार्क अपार्टमेंट, लालारण नगर, इंदौर -452001	सदस्य
15	श्री अनिल कुमार, एफ-43/12, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल- 462003, (म.प्र.)	सदस्य
16	श्री गिरिष पांडे, द्वारा प्रतिभा गोरेगावकर, सी/703, रिवर पार्क, साईधाम मंदीर के सामने, वेस्ट ई. हाईवे, कांदिवली (पू), मुंबई-440025	सदस्य

17	डॉ. मधुकर वाकोडे, दर्यापुर रोड, संगई प्लॉट, अंजनगांव सुर्जी- 444705, जि.अमरावती (म.रा.)	सदस्य
18	श्री योगेंद्र चौबे, डी.एन. व्हाईट, लालपुर, रामकृष्ण हॉस्पिटल के पास, रायपुर-492001 (छ.ग.)	सदस्य
19	अशोक चंद्राकार, ग्राम: मूजगहान, पोस्ट: सेजबहार, रायपुर-492001, (छ.ग)	सदस्य
20	सुश्री यास्मिन सिंह, डी -1/20, सरकारी अधिकारी कॉलोनी, देवेंद्र नगर, रायपुर 492001 (छ.ग.)	सदस्य
21	श्री रविंद्र सिरिवरा, No. M-37/B, 8th लक्ष्मीणारायणपुरा, बंगलोर - 6560001 कर्नाटक	सदस्य
22	श्री अप्पगेरे थिम्माराजु, # 28, 10th Main, 4th Cross, हम्पी नगर, विजयनगर, बंगलोर 560040 कर्नाटक	सदस्य
23	डॉ. चक्केरे शिवशंकर, 21, पुष्य, कविकेशी राजा रोड, 10th "A" Cross श्रीनगर, बंगलोर -560040, कर्नाटक	सदस्य
24	डॉ. सजिथ, ई.एन. निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर -440001(म.रा)	सदस्य सचिव

वित्तीय समिति सदस्य बैठक 2016-17

क्र. सं	नाम तथा पदनाम	दू.भाष/मो. सं	पद
1	श्रीमती वलसा नायर सिंह, आए.ए.एस. सचिव, सांस्कृतिक तथा पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई sec.tourism@maharashtra.gov.in tca.gom@gmail.com valsanairsingh@gmail.com	022-22023472 सचिव-22024531 मो.09920800457 श्री भोकरे उप सचिव 22025609 श्री जाधव अवर सचिव 220499122	अध्यक्ष
2	श्री संजय कुमार कृष्णा, आय ए एस वित्तीय सलाहकार, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, रुम नं.174,एच विंग, कृषि भवन, नई दिल्ली-1100010	दू.011-23381363 vpsingh2007@gmail.com (PS) sanjay.krishna@nic.in	सदस्य
3	श्री मनोज श्रीवास्तव, आय ए एस प्रधान सचिव,सांस्कृतिक विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल - 462004	दू.0755-2576006((t&f) M.09425150651 2430541(R)	सदस्य
4	श्री निरभ कुमार प्रसाद, आय ए एस , प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृति, आंध्र प्रदेश सरकार, एच ब्लॉक,1 माला, रुम नं 204, आंध्र सरकार सचिवालय बिल्डींग, हैद्राबाद -500022	दू.040-23456717 040-23453674,23451832 उप सचिव 09963979721 secycultureap@gmail.com	सदस्य
5	श्री एस.आर. उमाशंकर, आई.ए.एस. प्रधान सचिव कन्नड और सांस्कृतिक मंत्रालय, रुम नं 2, ग्राउंड फ्लोअर, विकास सौधा, बंगलोर 560 001	दू.080-22034002 09449597000 secy.kc@karnataka@gov.in	सदस्य
6	श्री संतोष कुमार मिश्रा आय.ए.एस. सचिव छत्तीसगढ़ सरकार, सांस्कृतिक विभाग, नया मंत्रालय, महानदी भवन, राजधानी संकुल, नया रायपुर	दू.0771-2510317 2510945 / 09479000471 deptt culture@yahoo.co.in sectt1@gmail.com	सदस्य
7	श्री शैलेश टी जाधव, निदेशक सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र सरकार, पुराना सचिवालय बिल्डींग, प्रथम माला, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई-400 032 (म.रा.)	022-22842634/70 /022-22043571 9869085152 / 9820297349 mahaculture@gmail.com sanjay.bagade@nic.in	सदस्य
8	श्री आर.पी. मिश्रा आई.ए.एस. आयुक्त, सांस्कृतिक विभाग मध्यप्रदेश सरकार, संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल- 462003	0755-6730000 / F -2770597 mptrbalmuseum@gmail.com directorculture@rediffmail.com	सदस्य
9	डॉ. सजिथ, ई.एन., निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक कैंद्र 56/1, सिविल लाईन्स, नागपुर	मो.7507300000/दू.0712-2565107 director@sczcc.gov.in	सदस्य सचिव

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

01.04.2016 से 31.03.2017 अवधि के लिए कार्यकलाप प्रतिवेदन

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	स्थल / राज्य/संघ राज्य	अवधि	प्रस्तुत किए गए कला का प्रकार	सम्मिलित कलाकारों की संख्या		कार्यक्रमों की संख्या		व्यय की गई राशी (रुपयों में)	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	सम्मिलित वीआईपी व्यक्तियों का विवरण
					पुरुष	स्त्री	ग्रामीण तथा मोफसिल क्षेत्र	शहरी क्षेत्र			
1.	आनंदम योग शिबिर	केंद्र का परिसर, नागपुर	01.4.2016 to 30.04.2016	योगा	35	15		शहरी	--	50	नियमित आयोजन
2.	राष्ट्रीय महामुर्ख सम्मेलन	केंद्र का परिसर, नागपुर	01.04.2016	श्री सुरेंद्र शर्मा श्री हरीओम पवार श्री सुरेंद्र दूबे श्री प्रदीप चौबे श्री किरण जोशी सरदार मनजीत सिंह श्रीमती अंजुम राहबर श्री जी.के.बंसल	07	01	-	शहरी		2500	द्वारा उदघाट्न किया गया
3.	मुझे भी कुछ कहना है	केंद्र का परिसर, नागपुर	03.04.2016	सम्मिलित कलाकार	7	5		शहरी	5,000/-	150	नियमित आयोजन
4.	ब्रम्हनाद	केंद्र का परिसर, नागपुर	10.04.2016	पंडित संजीव अभ्यंकर (गायन)	5	--	--	शहरी	1,50,000/-		नियमित आयोजन
5.	बैसाखी महोत्सव	जबलपुर (म.प्र)	16.04.2016	भांगडा जिंदवा और पंजाबी लोकगीत	16	07	-	शहरी	1,65,000/-	-	कार्यक्रम का आयोजन पंजाबी हिंदू असोसिएशन जबलपुर(म.प्र.) द्वारा
6.	ग्राम पंचायत के आदिवासीमहिलाओं की राष्ट्रीय स्तर की बैठक	विजयवाडा (आंध्र प्रदेश)	18.04.2016	कक्सर (छ.ग.)	08	07	-	शहरी	--	--	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन
7	सिहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनी मंच उज्जैन	22.04.2016	पं. जसराज - गायन	05	01		शहरी	6,00,000/-	1500	श्री मनोजश्रीवास्तव , आय.ए.एस., प्रधान सचिव सांस्कृतिक विभाग, मध्य प्रदेश

											सरकार द्वारा श्री राजेशप्रसाद मिश्रा आय.ए.एस. निदेशक सांस्कृतिक विभाग तथा डॉ. पियूष कुमार निदेशक द.म.क्षे सां.कैंद्र, नागपुर के उपस्थिती में उदघाटीत
8	सिहस्थ कुंभ मेला	भोज मंच सदावल,उज्जैन (म.प्र.)	22.04.2016 To 26.04.2016	ककसर गेडी नृत्य (छ.ग) पंथी (छ.ग) देवर गायन (छ.ग.) पंडवानी गायन(छ.ग)	11 16 08 06	04 -- 01 01	-	शहरी	2,00,000/-	2500	
9	संस्कारभारती रंगोली कार्यशाला	उज्जैन	22.04.2016 To 28.04.2016	ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रतिभागी	18	12	-	शहरी	2,00,000/-	3000	
10	आदिवासी तथा लोक चित्रकला कार्यशाला	गडकलिका मंच उज्जैन	22.04.2016 To 28.04.2016	झारखंड बिहार से प्रतिभागी कलाकार	02 02			शहरी	1,30,000/-		
11	सिहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनी मंच उज्जैन	23.04.2016	श्री रतनमोहन शर्मा भजन	05			शहरी	1,00,000/-	1500	
12	पारंपारीक चित्रकला कार्यशाला	गडकलिका मंच उज्जैन	25.04.2016 To 15.05.2016	कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश ,जम्मु कश्मिर ,राजस्थान, असम, ओडीसा, आंध्र प्रदेश केरल तथा महाराष्ट्र के कलाकार	27			शहरी	9,99,000/-		
13	समकालिन चित्रकला कार्यशाला (Contemporary Painting Workshop)	गडकलिका मंच उज्जैन	25.04.2016 To 01.05.2016	दिल्ली , कर्नाटक, चंडीगढ, हरियाणा,राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, आंध्रप्रदेश,मध्य प्रदेश, तामिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल के कलाकार	17	05		शहरी	7,37,000/-		
14	सिहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनी मंच उज्जैन	26.04.2016	नृत्य नाटीका पद्मश्री गीता महालिक	04	01			1,10,000/-	1500	
15	सिंहस्थ उत्सव	भोज मंच	27.04.2016 To	डहाका (महाराष्ट्र)	11	--		शहरी	1,50,000/-	3000	

		सद्याल, उज्जैन (म.प्र.)	01.05.2016	गुसडी/ बोनालू (आं.प्र) भर्तारी गायन (छ.ग), खंजरी वादन (महाराष्ट्र)	12 07 06	08 01 --					
16	सिहस्थ कुंभ मेला	कालिदास मंच उज्जैन (म.प्र.)	28.04. 2016	कलापिनी कोमकली	04	01		शहरी	75,000/-	1500	
17	संस्कार भारती रंगोली कार्यशाला	उज्जैन शहर (म.प्र.)	30.04.2016 To 07.05.2016	पुणे जिला के कलाकार	15	15		शहरी	2,00,000/-	3000	
18.	आनंदम योग शिबिर	नागपुर केंद्र के परीसर में	01.5.2016 - 31.05.2016	योगा	35	15		शहरी	--	50	नियमित आयोजन
19.	मुझे भी कुछ कहना हैं	नागपुर केंद्र के परीसर में	01.05.2016		7	5		शहरी	5,000/-	150	नियमित आयोजन
20.	रंग संगीत ध्वनी संस्कार कार्यशाला	नागपुर केंद्र के परीसर में	01.05.2016 To 10.05.2016	श्री आमोद भट्ट कार्यशाला निदेशक प्रतिभागी	01 35			शहरी	50,000/-	100	
21.	समकालिन चित्रकला कार्यशाला (Contemporary Painting Workshop)	गडकलिका मंच उज्जैन	02.05.2016 To 08.05.2016	सम्पूर्ण भारत से आए कलाकार	18	16		शहरी	9,90,000/-		
22.	सिहस्थ कुंभ मेला	गडकलिका मंच उज्जैन	04.05.2016	कवी सम्मेलन श्री अशोक चक्रधर तथा अन्य	05	-	-	शहरी	95,000/-	800	
23.	ब्रम्हनाद	केंद्र का परिसर,नागपुर	08.05.2016	सुश्री सुश्मिता तथा सुश्री देबप्रिया	5	--	--	शहरी	1,30,000/-	400	नियमित गतिविधि
24.	सिहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	08.05.2016	पद्मश्री पं. सतिश व्यास - संतुर	03	-	-	शहरी	1,25,000/-	1200	
25.	जनजातीय और लोक चित्रकला कार्यशाला Tribal &Folk Painting Workshop	कालिदास अकादमी उज्जैन	08.05.2016 To 14.05.2016	मध्य प्रदेश तथा असम के कलाकार	01 02	01		शहरी	1,30,000/-		
26.	संस्कार भारती रंगोली कार्यशाला	उज्जैन	08.5.2016- 15.5.2016	सोलापुर जिला के कलाकार	14	16		शहरी	2,00,000/-	3000	
27.	समकालिन	कालिदास	09.05.2016	सम्पूर्ण भारत से आए	20	05		शहरी	9,90,000/-		

	चित्रकला कैंप	अकादमी उज्जैन	To 15.05.2016	कलाकार							
28.	सिहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	10.05.2016	श्री निझामी बंधु सुफी कवाली	08	--		शहरी	2,00,000/-		
29.	मालवा उत्सव	इंदौर (म.प्र.)	10.05.2016 To 16.05.2016	थांगटा (मणिपुर) धोबिया नृत्य बारडोई शिकला	15 15 08	-- 7		शहरी	--	1500	लोक संस्कृति मंच इंदौर द्वारा कार्यक्रम का अयोजन. केंद्र ने कलाकारों को प्रायोजित किया
30.	सिंहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनि मंच, उज्जैन	11.05.2016	पदमश्री पं. विश्वमोहन भट्ट	04	--		शहरी	1,75,000/-	1700	
31.	सिंहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनि मंच, उज्जैन	12.05 .2016	पदमश्री पिनाज मसानी -भजन	06	01	--	शहरी	1,71,492/-	1000	
32.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	12.05. 2016	पद्मश्री भाई निर्मल सिंह -शब्द गायन	04			शहरी	1,25,000/-	1200	
33.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	13.05. 2016	पदमश्री पं. विजय घाटे तथा उनका समूह - शाम रंग	8	-	-	शहरी	5,88,000/-	1500	
34.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	13.05.2016	श्री चेतन जोशी -बांसुरी	03			शहरी	1,00,000/-	1200	
35.	सिंहस्थ कुंभ मेला	गडकालिका मंच उज्जैन	14.05.2016	श्री ए. आकाश -बांसुरी वादन	03	--	--	शहरी	40,000/-	800	
36.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	14.05.2016	श्री उदय भवालकर - ध्रुपद गायन	04			शहरी	75,000/-	700	
37.	सिंहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनि मंच, उज्जैन	15.05.2016	पदमश्री पं. सुरेश तळवलकर तथा समूह - ताल किर्तन	10	-	-	शहरी	4,00,000/-	2500	
38.	सिंहस्थ कुंभ मेला	गडकालिका मंच उज्जैन	15.05.2016	श्री समर्थ जानवे - गायन	03	-	-	शहरी	40,000/-	1200	
39.	जनजातीय और लोक चित्रकला कार्यशाला	कालीदास अकादमी उज्जैन	15.05.2016 To 21.05.2016	मध्य प्रदेश तथा असम राज्य के प्रतिभागी कलाकार	01 02	01	-	शहरी	1,30,000/-		
40.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	15.05.2016	पदमश्री भजन सोपोरी - संतुर वादन			-	शहरी	1,50,000/-	2500	
41.	जनजातीय और लोक चित्रकला कार्यशाला	कालीदास अकादमी उज्जैन	15.05.2016 To 21.05.2016	मध्य प्रदेश तथा असम राज्य के प्रतिभागी कलाकार	01 02	01	-	शहरी	1,30,000/-		

42.	पारंपारिक जनजातीय और लोककला कार्यशाला	कालीदास अकादमी उज्जैन	15.05.2016 To 24.05.2016	सम्पूर्ण भारत से आए कलाकार	11	04	-	शहरी	2,82,000/-		
43.	संस्कार भारती रंगोली कार्यशाला	उज्जैन	16.5.2016-22.5.2016	नागपुर जिला के प्रतिभागी	06	24	-	शहरी	2,00,000/-	3000	
44.	सिंहस्थ कुंभ मेला	गडकालिका मंच उज्जैन	16.05.2016	श्री तलेगावकर -गिटार	02		-	शहरी	60,000/-	1300	
45.	सिंहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनि मंच, उज्जैन	16.05.2016	श्री रोणू मुजुमदार - बांसुरी	05		-	शहरी	1,25,000/-	1500	
46.	सिंहस्थ कुंभ मेला उत्सव	सदावल मंच उज्जैन	17.5.2016-18.5.2016	श्रीमती तिजनबाई (छ.ग.) -पंडवानी गायन	07	01	-	शहरी	1,50,000/-	2000	
47.	सिंहस्थ कुंभ मेला	गडकालिका मंच उज्जैन	17.05.2016	श्री शिरीष भालेराव - वायोलिन	04			शहरी	50,000/-	1200	
48.	सिंहस्थ कुंभ मेला	गडकालिका मंच उज्जैन	17.05.2016	ईरा मुखर्जी -गायन	02	01	-	शहरी	50,000/-	1500	
49.	सिंहस्थ कुंभ मेला	गडकालिका मंच उज्जैन	18.05.2016	प्रो. साहित्य कुमार नाहर तथा डॉ. संतोष नाहर -सितार तथा वायोलिन जुगलबंदी	03	-	-	शहरी	35,000/- & 30,000/-	1200	
50.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	18.05.2016	पदमश्री वसुफुद्दिन डागर - धृपद गायन	05	-		शहरी	90,000/-	1500	
51.	सिंहस्थ कुंभ मेला	गडकालिका मंच उज्जैन	19.05.2016	पं राजन कुलकर्णी - सरोद वादन	03	-		शहरी	60,000/-	1200	
52.	सिंहस्थ कुंभ मेला	भोज मंच उज्जैन	19.05.2016	पं. नाथराव नेरलकर - भजन	06	-		शहरी	80,000/-	1200	
53.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	20.05.2016	डॉ. तनुजा नाफडे श्री प्रेमकुमार मलिक - धृपद गायन	04	01	-	शहरी	75,000/-	1500	
54.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	20.05.2016	श्री प्रेमकुमार मलिक - गायन धृपद	06			शहरी	85,000/-	1500	
55.	सिंहस्थ कुंभ मेला	भारतमुनि मंच, उज्जैन	21.05.2016	पदमश्री किरण सहगल	06	--	--	शहरी	1,50,000/-	1200	
56.	सिंहस्थ कुंभ मेला	त्रिवेणी मंच उज्जैन	21.05.2016	पदमश्री येला वेंकटेश्वर राव -वाद्य संगीत				शहरी	4,00,000/-	1500	

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

01.04.2016 से 31.03.2017 अवधि के लिए कार्यकलाप प्रतिवेदन

57.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	एन.ए.डी.टी. नागपुर	23.05.2016	पोवाडा, लावणी लिंगो (महाराष्ट्र)	07 08 15	-- 07 --		शहरी	1.71,110/-	--	कार्यक्रम का आयोजन एन.ए.डी.टी. नागपुर
58.	आनंदम योग शिबिर	केंद्र का परिसर, नागपुर	01.6.2016-30.6.2016	योग	35	15		शहरी	--	50	नियमित गतिविधि
59.	आदिवासी महोत्सव	फुटाला तालाब, तेलंगखेडी, नागपुर	04.06.2016	सोंगी मुखवटे (म.रा.) सैला कर्मा (म.प्र.) ककसर (छ.ग.)	15						
60.	मुझे भी कुछ कहना हैं	केंद्र का परिसर, नागपुर	05.06.2016		7	5		शहरी	1,55,000/-	150	नियमित गतिविधि
61.	आनंदम	नागपुर	01.7.2016-31.7.2016	योग	20	10	-	-	-	-	-
62.	मुझे भी कुछ कहना हैं	नागपुर	03/7/2016	गायन तथा वाद्य संगीत	10	03	-	-	5,000	100	-
63.	श्रावणसरी -2 (चित्रकला प्रशिक्षण कार्यशाला	द.म.क्षे.सा.कें परिसर,नागपुर	07/7/2016-16/7/2016	विशेषज्ञ की संख्या सहभागीयों की संख्या	14 12	01 138	-	शहरी	9,41,321	-	-
64.	ब्रम्हनाद ब्रम्हनाद	द.म.क्षे.सा.कें परिसर, नागपुर	10/7/2016	गीत गझल (1) राधिका चोप्रा (2)जुगलबंदी आदित्य मोडक तथा एस. आकाश द्वारा	01	03	-	शहरी	2,00,000	500	नियमित गतिविधि-श्री अनुप कुमार आए.ए.एस. विभागीय आयुक्त द्वारा उदघाटन किया गया
65.	आंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी	अमरकंटक (मध्य प्रदेश)	12/7/2016	कर्मा नृत्य	15	-	-	शहरी	30,000		-
66.	भारत आंतरराष्ट्रीय वस्त्र मेला नई दिल्ली	New Delhi	19/7/2016	उमा शर्मा तथा समूह , नई दिल्ली द्वारा कत्थक बॅले	05	13	-	शहरी	85,000	500	-
67.	डॉ. वसंतराव देशपांडे राष्ट्रीय युवा संगीत प्रतियोगिता	द.म.क्षे.सा.कें परिसर, नागपुर	23/7/2016 to 29/7/2016	हिंदुस्थानी / कर्नाटकी शास्त्रीय गायन तथा वाद्य संगीत प्रतियोगिता	113	41	-	शहरी	17,20,447	Daily 200	-
68.	भारत के महान संगीतकारो पर महाराष्ट्र की	राजा रवि वर्मा आर्ट गॅलरी, नागपुर तथा डॉ.	26/7/2016 to 31/7/2016	मुंबई (महाराष्ट्र राज्य) के रंगोली कलाकार	04	-	-	-	90,000	4500	-

	प्रसिद्ध रंगोली कार्यशाला का प्रदर्शन	वसंतराव देशपांडे सभागृह, नागपुर									
69.	डॉ. वसंतराव देशपाडे रजत जयंती महोत्सव -आंतरराष्ट्रीय संगीत समारोह	डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह, नागपुर	30/7/2016 से 03/8/2016 (5 दिवसीय)	**<u>30/7/2016</u>** **कार्टसन विके- जर्मनी (रुद्र वीणा)** **पं. एम. वेंकटेशकुमार (हिंदुस्थानी गायन)** **डॉ. एल. सुब्रमनियन (वायोलिन)**	03 05 04	-	-	-	91,01,176/ -	900-925	मा.मंत्री श्री नितिन गडकरी, राज्य परीवहन तथा महामार्ग, जहाजरानी मंत्रालय, न्यायाधिश श्री भुषण गवई तथा श्री देवेंद्र पारेख, अध्यक्ष, वेद
				<u>31/7/2016</u> **टाका हिरो, जपान(संतुर)** **पं. हरिप्रसाद चौरासीया (बांसुरी)** **श्री विजय घाटे (तबला) तथा पं.भावानी शंकर (पखवाज)** **शमा भाटे तथा समूह (नृत्य वसंत कथ्थक बॅले) पुणे**	02 02 01 01 06	- - - - 10	-	-	--	950 - 1000	श्री कृपाल तुमाने, मा. खासदार श्री विजय दर्डा मा. खासदार श्री अनूप कुमार , आए.ए.एस, विभागीय आयूक्त, नागपुर तथा न्यायमूर्ती भुषण गवई, श्री रंजीत देशमुख, पूर्व मंत्री .
				<u>01/08/2016</u> तरुण रोषण लाला (तबला) नागनाथ अडगांवकर (हिंदुस्थानी गायन) संगीत प्रीती संगम (संगीत नाटक साहित्य संघ मुंबई द्वारा)	02 03 24	- - 08	-	-	--	900- 1000	न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे , पं. श्यामसुंदर खडनविस, अधिवक्ता श्री दिनकरराव कुकडे, श्री कणसे तथा श्री रंजीत देशमुख, भूतपूर्व मंत्री
				<u>02/08/2016</u> -दिप्ती नामजोशी (हिंदुस्थानी गायन) डॉ. कदरी गोपालनाथ (सेक्सोफोन) तथा प्रवीण गोडखिंदी (बांसुरी) रशीद खान (हिदुस्थानी)	03 05 06	- - -	-	-	--	925-975	डॉ. श्रीमती कमलताई भोंडे तथा प्रा. अलकनंदा तुलजापुरकर ख्यातनाम कलाकार, श्री रंजीत देशमुख, भूतपूर्व मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा श्री अनूप कुमार, आए.ए.एस, विभागीय आयुक्त, नागपुर

				03/08/2016 ए. शिवमणी तथा रुणा रिझवी (विलय) राहूल देशपांडे (हिंदुस्थानी गायन) उस्ताद अमजद अली खान (सरोद)	 05 05 02		-		--	1000-1200	न्यायमूर्ती भूषण गवई , न्यायमूर्ती प्रसन्न वराले , श्री अनूप कुमार , आए.ए.एस, विभागीय आयुक्त, नागपुर श्री अमित अग्रवाल, प्रबंधक मध्यपूर्व रेल्वे नागपुर और श्री रंजीत देशमुख, भूतपूर्व मंत्री महाराष्ट्र राज्य
70.	डॉ. वसंतराव देशपांडे पर मल्टीमिडीया फोटोग्राफी प्रदर्शनी तथा महाराष्ट्र रचनात्मक रंगोली प्रदर्शनी	राजा रवि वर्मा कला दिर्घा , नागपुर	30/7/2016 to 03/8/2016	मुंबई के कलाकार	04	--	--	--	--	--	प्रदर्शनी का उदघाटन मा. मंत्री श्री नितिन गडकरी, राज्य परीवहन तथा महामार्ग, जहाजरानी और श्री देवेंद्र पारेख, अध्यक्ष, वेद
71.	तेरे नाम का दिवाना	नागपुर	31/7/2016	गायन	11	04	-	शहरी	25,000/-	600	--
72.	आनंदम	द.म.क्षे.सा.कें परिसर,नागपुर	01/8/2016 to 31/8/2016	योग	35	15	-	शहरी	-	50	नियमित गतिविधि
73.	मुझे भी कुछ कहना है	द.म.क्षे.सा.कें परिसर,नागपुर	07/8/2016	गायन तथा वाद्य संगीत	08	02	-	शहरी	5,000/-	165	--
74.	आंतरराष्ट्रीय मूल निवासी दिवस	रायपुर (छ.ग.)	09/8/2016-11/8/2016	1.सोंगी मुखवटे (म.रा) 2.सिद्दी धमाल (गुजरात) 3.पंग चोला (मणिपुर) 4.बैगा प्रढोनी (म.प्र.) 5.बार्डोहीखाला (असम) 6होजागिरी (त्रिपुरा) 7.चेराउ (मिझोराम	15 14 15 05 08 06 06	- - - 09 07 09 09	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - - - -	7,07,504	103	कार्यक्रम का उदघाटन मा. मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह, छत्तिसगढ, श्री गौरीशंकर, विधानसभा सभापति(छ.ग.) श्री दयाल दास, मा. सांस्कृतिक मंत्री (छ.ग.) तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में हुवा ।
75.	क्षेत्रिय केंद्र की शुरुवात	रायपुर (छ. ग.)	09/08/2016-15/08/2016	मधुबनी चित्रकारी	01	02	ग्रामीण	-	45,000		-- वही --

76.	क्षेत्रिय केंद्र की शुरुवात	रायपुर (छ. ग.)	10/08/2016-16/08/2016	वारली चित्रकला कार्यशाला	02	01	ग्रामीण	-	42,000		-- वही --
77.	क्षेत्रिय केंद्र की शुरुवात	रायपुर (छ. ग.)	12/08/2016-15/08/2016	रचनात्मक रंगोली प्रदर्शनी, मुंबई	06	-	-	शहरी	75,000		
78.	भारत पर्व	नई दिल्ली	12/08/2016-18/08/2016	(1)सोंगी मुखवटे(म.रा.) (2)पंडवानी गायन(छ.ग.)	15 06	- 01	-	शहरी	--	--	कार्यक्रम आयोजन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पतियाला द्वारा
79.	ब्रह्मनाद	द.म.क्षे.सा.कें परिसर,नागपुर	14/08/2016	(1) श्री ओम बोंगने, मुंबई (शास्त्रीयगायन (2) पंडीत उल्हास बापट (संतुर) मुंबई	03 02	- -	-	शहरी	1,25,000	550	नियमित आयोजन श्रीमती संगीता पियूष कुमार, डॉ. सुनितित देव, श्रीमती अरूणा राव, श्रीमती नमिता शर्मा, श्रीमती अनंजली मिनोचा के करकमलों द्वारा उदघाटीत
80.	क्षेत्रिय केंद्र की शुरुवात, रायपुर (छ.ग.)	रायपुर (छ.ग.)	15/08/2016	(1) सूफी गायन, वडाली बंधू द्वारा (2) शिव मुद्रा ढोल	10 37	- 13	-	शहरी	9,00,000	2000	(क्र. 3 के अनुसार)
81.	वर्ल्ड फोक्लोर डे	रामनगर तथा बंगलोर (कर्नाटक राज्य)	20/08/2016 to 22/08/2016	(1) चक्री भजन (कर्नाटक) (2) गणगौर(म.प्र.) (3)पंथी (छ.ग.)	15 15 15	- - -	-		2,19,605	-	अखिल कर्नाटक जनपद कलाविद्रा, बंगलोर
82.	अण्णाभाउ साठेजयंती (अण्णाभाउसाठे मानवंदना)	यशवंत नाट्य मंदीर, माटूंगा मुंबई (म.रा.)	1 अगस्त (एक दिवसीय)	महाराष्ट्र की लोककला	22	03	--	शहरी	3,30,000	1000	--
83.	आनंदम योग शिबिर	द.म.क्षे.सा.कें परिसर,नागपुर (महाराष्ट्र)	01.09.2016 to 30.09.2016	योग	25	15	-	शहरी	--	--	नियमित आयोजन
84.	ब्रिक्स सम्मेलन	शिल्पग्राम खजुराहो (म.प्र.)	02/09/2016	पंग चोलम (मणिपुर) बिहू नृत्य (असम) भवई नृत्य (राज.) भांगडा नृत्य (पंजाब)) सिधी धमाल (गुजरात) गोटीपुरा (ओडीशा) राय नृत्य (म.प्र.)	12 07 02 15 15 15 12	- 08 - - - - 04	ग्रामीण	-	64,508.00	1500	श्री राम सहाय पाण्डेय शिखए सन्मान , राज ग्रुप, लिडर द्वारा कार्यक्रम का उदघाटन
85.	मुझे भी कुछ कहना है	नागपुर (महाराष्ट्र)	04/09/2016	गायन, नृत्य वाद्य संगीत, मिमिक्री	12	04	-	शहरी	1,80,000/-	500	नियमित आयोजन

86.	काटोल फेस्टीवल	काटोल, नरखेड तथा कोंढाली	10/09/2016 to 13/09/2016	थिएटर (महाराष्ट्र) पंथी नृत्य (छ.ग.) सोंगी मुखवटे Songi राणप्पा (ओडीशा) गडम बाजा (म.प्र) बिहूनृत्य (असम) गुसडी (आंध्र प्र.)	10 1 5 15 15 15 05 12	05 - - - - 10 03	- ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रमीण ग्रामीण	शहरी - - - -	4,09,600/-	5000	आमदार श्री आशिष देशमुख द्वारा उदघाटीत .
87.	ब्रम्हनाद	द.म.क्षे.सा.कें परिसर,नागपुर (महाराष्ट्र)	11/09/2016	शास्त्रीय, अर्ध शास्त्रीय (श्रीमतीआरती टंकलीकर- टिकेकर	03	02	--	शहरी	2,00,000	500	नियमित आयोजन श्री महेश एलकुंचवार ,प्रसिद्ध नाट्यकर्मी तथा माननीय न्यायाधीश प्रसन्ना वराळे द्वारा उदघाटीत
88.	नय्यर मेला	नय्यर (केरल)	15/09/2016 to 25/09/2016	गड्डम बाजा (म.प्र.)	15	-	ग्रामीण	-	--	द.म.सा.के. तंजावर (तामील नाडु) द्वारा आयोजित	--
89.	राष्ट्रीय आदीवासी संगीत तथा नृत्य महोत्सव	गुब्बी जिला.तुम्कुर (कर्नाटक)	23/09/2016 to 25/09/2016	सोमन कुनिथा (कर्नाटक) किलु कुडेरे (कर्नाटक) पंडवानी गायन बांसुरी नृत्य और ताट्या नृत्य (म.प्र.) लिंगो नृत्य (महाराष्ट्र) संबलपुरी नृत्य (ओडीशा) प.बंगाल) छाऊ नृत्य लांबडी तथा माथुरी नृत्य (तेलंगणा)	15 10 05 08 13 07 15 07	- - 01 08 07 08 - 08	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - - - - -	8,15,348/-	1000 प्रती दिन	कार्यक्रम का उदघाटन महापौर तथा विभागीय आयुक्त तुंकुर, सभापती जिल्हा परीषद
90.	लोक कला यात्रा	जटाशंकर (म.प्र.) जिला छत्तरपुर	23/09/2016	सोंगी मुखवटे (म.रा.) पुरलिया छाऊ/पैका नृत्य (प.बंगाल) गुसडी नृत्य (आं.प्र.)	15 15 15	- - -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - -	5,31,679/-	700	श्री रविंद्र चौक्से ,एस.डी.एम, बिजावुर, श्री अरविंद अग्रवाल, सभापती शिवधाम जटाशंकर ट्रस्ट, श्री आर.आर. चाधर,

				ढोलु कुनिथा (कर्नाटक)	15	-	ग्रामीण	-			तहसिलदार , श्री परिहार थाना प्रभारी , जटाशंकर
91.	लोक कला यात्रा	जामटोली, जि. छतरपुर (म.प्र)	24/09/2016	सोंगी मुखवटे (म.रा) पुरलिया छाऊ / पैका नृत्य (प.बंगाल) गुसडी नृत्य (आं.प्र.) ढोलु कुनिथा (कर्ना.राज्य	15 15 15 15	- - - -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - -	--	1200	श्री राज बहादुर सिंह सरपंच झामटोली , श्री के.वी. सिंह, थाना प्रभारी भामिठा
92.	लोक कला यात्रा	लवकुश नगर (म.प्र.) छतरपुर	25/09/2016	सोंगी मुखवटे (म.रा) पुरलिया छाऊ /पैका नृत्य (प.बंगाल) गुसडी नृत्य (आं.प्र.) ढोलु कुनिथा (कर्ना.राज्य)	15 15 15 15	- - - -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - -	--	500	श्री धुर्वेजी , एस डी एम लवकुशनगर ., श्री मिश्रा जी , एस डी. ओ.पी , लवकुशनगर , श्री राजेंद्र देव चौरासिया, प्राचार्य उत्कर्ष हायर सेकंडरी स्कुल, लवकुशनगर

93.	विश्व पर्यटन दिवस	छत्तीसगढ	25/09/2016 To 27/09/2016	पंडीत राजन साजनमिश्रा (शास्त्रय गायन पंडीत विजय घाटे तथा अन्य (मेलोडीक रिथम)	06 07	- 01	- -	शहरी शहरी	13,00,000/-	4500	कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग तथा सांस्कृतिकमंत्रालय, छ.ग. द्वारा
94.	लोक कला यात्रा	फोरफौंड खाइ खुट जेवरा (छ.ग)	28/09/2016 to 30/09/2016	राई नृत्य(एम.पी.) लावणी (म.रा.) भरतारी गायन (छ.ग.) लोक नाट्य(छ.ग.)	10 06 05 14	02 06 01 06	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - -	6,75,949/-	12000 (तीन दिवसीय)	कार्यक्रम का उदघाटन सरपंच श्री हिम्मत चंदर फरफौद सरपंच, श्री शिव हनुमंता-खैरखुंट तथा उदय भास्कर सिंह, जेवारा
95.	सांजा लोकोत्सव	उज्जैन (म.प्र)	30/09/2016 to 02/10/2016	दंडार (म.प्र.) गेंडी नृत्य (छ.ग.) पोवाडा (म.रा.)	15 15 15	- - -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - -	2,35,673/-	--	- प्रतिकल्प सांस्कृतिक संस्था, उज्जैन (म.प्र)
96.	आनंदम (योग शिविर)	द.म.क्षे.सा.कें परिसर,नागपुर (म.रा.)	01.10.2016 & 31.10.2016	योग	25	15	-	शहरी	--	--	नियमित आयोजन
97.	दशयरा महोत्सव	मैसुर (कर्नाटक)	01/10/2016 to	लावणी (म.रा.) पंथी (छ.ग.) सैला	07 15	08 --	- ग्रामीण	शहरी -	3,27,165/-	--	कन्नड तथा सांस्कृतिक विभाग , मैसुर

			05/10/2016	कर्मा (म.प्र.)	10	05	ग्रामीण	-			
98.	मुझे भी कुछ कहना है	नागपुर (म.रा.)	02/10/2016	गायन, नृत्य, वाद्य संगित, काव्य	10	04	-	शहरी	6,100	400	नियमित आयोजन
99.	दूर्गा पूजा महोत्सव	नागपुर (म.रा.)	07/10/2016 & 08/10/2016	छाऊ नृत्य (झारखंड) गोंधल (म.रा.)	18 18	-- --	ग्रामीण -	-	--	1000	पश्चिम नागपुर बंगला समिती
100.	कोराडी महोत्सव	कोराडी नागपुर (म.रा.)	07/10/2016 to 09/10/2016	छाऊ नृत्य (झारखंड) गोंधल (म.रा.) चारुकला (उ.प्र) बहुरुपी (राज.) श्री अनूप जलोटा (भजन)	18 10 15 10 06	-- -- 06 --	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण -	- - - - शहरी	--	--	श्री चंद्रशेखर बावनकुळे , मा.उर्जा मंत्री, श्री कृपाल तुमाने, खासदार सचिन कुर्वे, कलेक्टर, नागपुर तथा आशिशजैसवाल भू. आमदार, रामटेक द्वारा उदघाटीत
101.	दशाहरा मेला	हैद्राबाद (तेलंगणा)	08/10/2016 to 12/10/2016	घूमर (हरयाणा) काकसर (छ.ग.) धनगरी राजा (म.रा.)	10 10 15	05 05 --	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - -	3,08,840/-	--	शिल्पग्राम हैद्राबाद द्वारा आयोजित
102.	ब्रम्हानाद	द.म.क्षे सा.के. नागपुर (म.रा)	09/10/2016	श्री राहुल शर्मा(नई दिल्ली) (संतूर वादन	02	--	--	शहरी	1,75,000/-	500	श्री अनूप कुमार आए.ए.एस. (विभागीया आयूक्त इस अवसर पर उपस्थित थे
103.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	I.G.N.C.A., New Delhi	09/10/2016 To 15/10/2016	लावणी (म.रा.) पंथी (छ.ग.) ढोलू कुनिथा (कर्नाटक) लेझिम (म.रा.) मथूरी (तेलंगना) पंडवानी (छ.ग.) पोवाडा (मरा.)	08 15 15 10 06 13 13	07 - - 06 05 01 02	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण - - ग्रामीण ग्रामीण	- - - शहरी शहरी - -	1,00,38,744		कार्यक्रम का उदघाटन श्री राजनाथ सिंह मान. गृह मंत्री, भारत सरकार , डॉ. महेश शर्मा, मा. सांस्कृतिक राज्यमंत्री , भारत सरकार तथा अन्य गणमान्य के उपस्थिती में संपन्न
104.	राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव	I.G.N.C.A., New Delhi	10/10/2016 to 24/10/2016	पोर्ट्रेट क्रिएटीव रंगोली महाराष्ट्र कलाकारों द्वारा	07	-	-	शहरी	Included in Sr. No.103		
105.	द्वितीय आंतरराष्ट्रीय शिल्प और	बेलगाव (कर्नाटक)	12/10/2016 to 16/10/2016	गौर मारीया (छ.ग) सोंगी मुखवटे	09 15	06 -	ग्रामीण ग्रामीण	- -	2,40,234/-	--	आयोजन कन्नड तथा संस्कृतिक मंत्रालय, कर्नाटक सरकार तथा लिझर

	सांस्कृतिक मेला			(म.रा.)							प्रा.लिमिटेड
106.	सृजन	कला दिर्घा (द.क.क्षे सा. कें (नागपुर) म.रा.	14/10/2016 to 20/10/2016	श्री सुरेश गंगाखेडकर , हैद्राबाद (तेलंगणा) द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी	01	-	--	शहरी	1,25,000/-	300 सात दिवसीय	प्रमोद बाबु रामटेके वरिष्ठ कलाकार द्वारा उदघाटीत
107.	अग्नी महओत्सव	पन्ना और खजूरहो (म.प्र.)	14/10/2016 to 16/10/2016	विमात्यम (आंध्र) थंगटा (मणिपुर) चारकुला (उ.प्र.) चारी नृत्य (राज.) बढई तथा नोर्टा (म.प्र.)	15 15 10 05 10	- 01 02 05 05	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण -	- - - - शहरी	4,06,465/-	2500 तीन दिवसीय	(1) श्रीमती जे.पी. आयरेने सिंथींग , आय.ए.एस. कलेक्टर पन्ना (3) श्री ओ.पी. त्रिपाठी, आय.पी.एस.,अधिक्षक पन्ना (3) श्री मोहनलाल उशवाह (4) सभापतीनगर पालिका, पन्ना (6) श्री ओ.पी. दूबे सी.ई.ओ. पन्ना (6) श्री एम.एस. मीना , एस.डी.एम. राजानगर खजूराहो द्वारा
108.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव (चित्रकला कार्यशाला)	I.G.N.C.A., New Delhi	15/10/2016 to 24/10/2016	प्रतिभागी	07	13	16 ग्रामीण	4 शहरी	Included in Sr. No.103	--	--
109.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव "ड्रमस ऑन फायर "	I.G.N.C.A., New Delhi -- --	15/10/2016 to 24/10/2016 -- --	**स्टार आर्टीस्ट , द.म.क्षे.सा. कें दिनांक 21st अक्तूबर , 2016** 1) शिवमणी, विश्व विख्यात तालवादक (Percussionist (MS) 2) लूईस बैंक की बोर्ड (म.रा.) 3) रवि चारी	09 ---- **09**	-- -- -- -- 09	- - - - - -	शहरी शहरी शहरी शहरी शहरी शहरी	--	3000	**अतिथि :** श्री एन.के. सिन्हा , सचिव, संस्कृतिक मंत्रालय,भारत सरकार, श्री एम.एल. श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार,श्री नवनीत सोनी,ओएसडी मान.मंत्री सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार

	"लावणी चस्का			सितार (म.रा.) 4) ओजस अधिया (म.रा.) तबला 5) माया जाधव तथा समूह लावणी (म.रा) 6) पदमश्री प्रल्हाद टिपणीया तथा समूह, कबीर गायन	13 08	-- --	-	शहरी			
110.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	I.G.N.C.A., नई दिल्ली	15/10/2016 to 24/10/2016	शिल्पी (राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, राज्य पुरस्कार प्राप्त ,एन,एम.सी. पुरस्कार प्राप्त तथा सामान्य) तथा पारंपारीक खाद्य स्टालों	15 प्रमुख + 14 सहयोगी 03	1 मुख्य, 1 सहयोगी 01	26 ग्रामीण -	4 शहरी शहरी	-- --	-- --	--
111.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	I.G.N.C.A., नई दिल्ली	16/10/2016 से 24/10/2016	श्री रघुराज देशपांडे (म.रा.) तथा सहकारी (संस्कार भारती रंगोली कलाकार)	01 04	- -	-	शहरी	Included in Sr. No.103	--	--
112.	बढती नशीली दवाओं के प्रती जागरुकता पर कार्यशाला	Khajuraho (M.P.)	16/10/2016	श्री अनूप लाइर , मन्नत सिंह , आस्था सिं, प्रो. अनूप सिंह	01	03	-	शहरी	50.000/-	--	--
113.	लोक कला यात्रा	सावंतवाडी (म.रा.)	16/10/2016	समई (गोवा) पंथी नृत्य (छ.ग.) गणगौर (म.प्र.) बार्डोईशिकला (असम) राणप्पा (ओडीशा)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - -	6,91,348/-	1500	श्री दिपक केसरकर,मान. वित्त राज्य मंत्री, ग्रामीण, गृह, नियोजन , श्री आर. पोलके, उप सभापती , सावंतवाडी नगर परिषद, श्री ए गावकर, पु.अधि. सिंधूदुर्ग द्वारा उदघाटीत

114.	लोक कला यात्रा	बांदा (म.रा.)	17/10/2016	समई (गोवा) पंथी नृत्य (छ.ग.) गणगौर (म.प्र.) बार्डोईशिकला (असम) राणप्पा (ओडीशा)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - -	--	1000	सरपंच बांदा द्वारा उदघाटीत
115.	लोक कला यात्रा	नेमाले (म.रा.)	18/10/2016	समई (गोवा) पंथी नृत्य (छ.ग.) गणगौर (म.प्र.) बार्डोईशिकला (असम) राणप्पा (ओडीशा)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - -	--	3500	श्री सदाले एच.एम. तथा नेमाले पंचकोशी द्वारा उदघाटीत
116.	लोक कला यात्रा	उगावेम (गोवा)	19/10/2016	समई (गोवा) पंथी नृत्य (छ.ग.) गणगौर (म.प्र.) बार्डोई शिकला (असम) राणप्पा (ओडीशा)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - -	6,91,348/-	1000	श्री ए. म्हाले ,सभापती, माहूली देवस्था द्वारा उदघाटीत
117.	लोक कला यात्रा	थिविम (गोवा)	20/10/2016	समई (गोवा) पंथी नृत्य (छ.ग.) गणगौर (म.प्र.) बार्डोई शिकला (असम) राणप्पा (ओडीशा)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - -	--	1000	श्री अशोक परब उप-संचालक, कला एवं सांस्कृतिक मंत्रलय गोवा राज्य द्वारा उदघाटीत
118.	लोक कला यात्रा	पेरेनेम(गोवा)	21/10/2016	समई (गोवा) पंथी नृत्य (छ.ग.) गणगौर (म.प्र.) बार्डोईशिकला (असम) राणप्पा (ओडीशा)	15 15 05 07 15	- - 10 08 -	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - - - -	--	1000	श्री एन. नाईक शिक्षा मंत्री, पेरेनेम गोवा राज्य द्वारा उदघाटीत
119.	लोकधारा	रतलाम तथा पिथमपुर (म.प्र.)	21/10/2016 to 23/10/2016	लावणी तथा कोळी नृत्य (म.रा.)	11	07	--	शहरी	66,690	--	सांकृतिक विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित.
120.	लोक कला यात्रा	सांगली (M.S.)	22/10/2016	समई (गोवा) पंथी नृत्य (छ.ग.) गणगौर (म.प्र.)	15 15 05	- - 10	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	- - -	61,000	4000	कलेक्टर सांगली तथा श्री गौतम पाटील अध्यक्ष शांतिनिकेतन सांगली (म.रा.)

				बार्डोईशिकला (असम) राणप्पा (ओडीशा)	07 15	08 -	ग्रामीण ग्रामीण	- -			द्वारा उदघाटीत
121.	आनंदम (योग शिविर)	द.म.क्षे.सा.कें परिसर, नागपुर	01.11.2016 & 30.11.2016	योग	25	15	--	शहरी	--	--	नियमित आयोजन
122.	राज्योत्सव (ड्रम्स ऑफ इंडीया	रायपुर (छ.ग)	01/11/2016	ढोल नृत्य (पंजाब) नगाडा (हरियाणा) मृदंगम (प.बंगाल) पुंग तथा ढोल चोलम (मणिपुर) मदल (छ.ग) भांगडा ढोल (पंजाब) ढोलक (हरियाणा) गुडम बाजा(म.प्र.) सिंग बाजा (म.प्र.) ब्रितचारी(हरियाणा) संबलपुरी(झारखंड)	15 05 11 15 11 03 10 13 11 01 10	--			20,58,688/-	800	डॉ. रमण सिंह, मा. मुख्यमंत्री (छ.ग) तथा गणमान्य अतिथियों द्वारा उद्घाटीत.
123.	राज्योंत्सव (लोक नृत्य)	रायपुर (छ.ग)	01/11/2016	सिद्धी धमाल (गुजरात) राठवां नृत्य (गुजरात)	15 15	-- 10	ग्रामीण ग्रामीण	-- --	Included in Sr. No.122	--	--
124.	राज्योंत्सव (ईशान्य पर्व)	रायपुर (छ.ग)	03/11/2016	बिहू नृत्य (असाम) थांगटा मार्शल आर्ट (मणिपुर)	15 08	04 --	ग्रामीण	--	3,00,000	--	डॉ. रमण सिंह, मा. मुख्यमंत्री (छ.ग) तथा गणमान्य अतिथियों द्वारा उद्घाटीत
125.	हंपी उत्सव	बल्लारी (कर्नाटक राज्य)	03/11/2016 to 05/11/2016	गुडम बाजा (म.प्र.) पंथी नृत्य (छ.ग) सोंगी मुखवटे (म.रा.)	15 15 15	-- -- --	ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण	-- -- --	2,44,792/-	--	कन्नड तथा सांस्कृतिक केंद्र, बंगलोर
126.	नाट्य महोत्सव	सिहोर (म.प्र)	04/11/2016 & 05/11/2016	रंगमंच	10	10	ग्रामीण	--	30,000	--	--
127.	मुझे भी कुछ कहना है	नागपुर (म.रा.)	06/11/2016	गायन, नृत्य, वाद्य, रंगमंच	12	02	--	शहरी	9,400	600	नियमित आयोजन
128.	नाट्योत्सव	गोवा	10/11/2016 & 11/11/2016	रंगमंच (म.प्र.) रंगमंच (छ.ग)	13 20	05 --	-- --	शहरी	1,50,000	--	संस्कृतिक विभाग , गोवा सरकार द्वारा आयोजित.

129.	ब्रम्हनाद	द.म.क्षे सा.के. नागपुर (म.रा)	13/11/2016	विद्वान गणेश तथा कुमरेश	04	--	--	शहरी	1,75,000	500	नियमित आयोजन . श्री अनूप कुमार, विभागीयआयुक्त,नागपुर दवारा उदघाटीत
130.	लोक कला यात्रा	इदिरा गांधी म्यूनिसिपल हाय स्कूल कुर्नुल (आ.प्र.)	14/11/2016	लावणी (म.रा. ढोलु कुनिथा (कर्नाटक) लांबाडी (तेलंगणा) नृत्य पंथी (छ.ग.) नोर्टा बाढाई नृत्य (म.प्र.) स्थानीय (आं प्र.)	09 15 11 15 08 05	06 -- 07 -- 07 --	-- ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण --	शहरी -- -- -- शहरी	5,22,566/-	2000	श्री आतुहू रहमान श्रीमती अनुसूया मॅडम दवारा उदघाटित
131.	लोक कला यात्रा	जी.वी.आर.जि.प. हाई स्कूल (कुडुमुरु (आं प्र.)	15/11/2016	लावणी (म.रा. ढोलु कुनिथा (कर्नाटक) लांबाडी (तेलंगणा) पंथी नृत्य (छ.ग.) नोर्टा बाढाई नृत्य (म.प्र.) स्थानीय (आं. प्र.)	09 15 11 15 08 05	06 -- 07 -- 07 --	-- ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण -- ग्रामीण	शहरी -- -- -- शहरी --	Included in Sr. No.130		श्री हनुमंथ राव से.नि. हेड मास्तर, श्री काशीनाथ से.नि. हेड मास्तर
132.	लोक कला यात्रा	जिला परीषद स्कूल फॉर गर्ल्स गुडुर (आ.प्र)	16/11/2016	लावणी (म.रा.) ढोलु कुनिथा (कर्नाटक) लांबाडी (तेलंगणा) पंथी नृत्य (छ.ग.) नोर्टा बाढाई नृत्य (म.प्र.) स्थानीय (आंध्रप्र.)	09 15 11 15 08 05	06 -- 07 -- 07 --	-- ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण -- ग्रामीण	शहरी -- -- -- शहरी --			श्री नागा भुपाल नायडू (मंडल शिक्षा अधिकारी)श्री जयराम (तेलगू पंडीत)
133.	लोक कला यात्रा	जिला परिषद स्कूल, जालापुर (तेलंगणा)	17/11/2016	लावणी (म.रा. ढोलु कुनिथा (कर्नाटक) लांबाडी (तेलंगणा) पंथी नृत्य (छ.ग.) नोर्टा बाढाई(म.प्र.) स्थानीय (आंध्रप्र.)	09 15 11 15 08	06 -- 07 -- 07	-- ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण --	शहरी -- -- -- शहरी	10,91,789/-		श्री लक्ष्मी नारायण मुख्याध्यापक , श्रीमती एरियम्मा मुख्याधिपिका(प्राथमिक शाला)

134.	लोक कला यात्रा	जिला परिषद स्कूल, उन्नड्वली तेलंगणा	18/11/2016	लावणी (म.रा.) ढोलु कुनिथा (कर्नाटक) लांबाडी (तेलंगणा) पंथी नृत्य (छ.ग.) नोर्टा बाढाई नृत्य (म.प्र.)	09 15 11 15 08	06 -- 07 -- 07	-- ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण --	शहरी -- -- -- शहरी			श्री संपत कुमार, मा. एम.एल.ए. श्री शिवप्रसाद,प्रधानाध्यापक , श्री दामोदर रेड्डी श्री सुधाकर रेड्डी (पंचायत सदस्य)
135.	लोक कला यात्रा	जिला. परिषद स्कूल आलनपुर तेलंगणा (	19/11/2016	लावणी (म.रा.) ढोलु कुनिथा (कर्नाटक) लांबाडी (तेलंगणा) पंथी नृत्य (छ.ग.) नोर्टा बाढाई नृत्य (म.प्र.)	09 15 11 15 08	06 -- 07 -- 07	-- ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण --	शहरी -- -- -- शहरी			श्री माथा जगन्नाथ मा. भू. पू खासदार , श्री जायाडू (सरपंच, अलामपुर) श्री महेशगौड (स्थानीय नेता)
136.	स्वर संस्कृती	नागपुर (म.रा)	20/11/2016	संगीत संध्या	12	03	--	शहरी	50,000/-	600	कादर म्युझिको इंटरनॅशनल, नागपुर
137.	पारंपारिक झोपडी निर्माण कार्यशाला	नागपुर (म.रा)	26/11/2016 to 07/12/2016	छत्तीसगढ राज्य के राजवाडा तथा घोटूल झोपडी कलाकार	08	--	ग्रामीण	--	25,100/-	1000	--
138.	आनंदम योग शिविर	केंद्र का परीसर, नागपुर	01.12.2016 to 31.12.2016	योग	35	15		शहरी	--	50	नियमित आयोजन
139.	मझे कुछ कहना है	चिल्ड्रेन ट्रफिक पार्क, धरमपेठ, नागपुर	04.12.2016		7	5		शहरी	5,000/-	150	नियमित आयोजन
140.	ब्रम्हनाद	केंद्र का परीसर, नागपुर	11.12.2016	पंडीत राजन साजना मिश्री तथा 4 सहयोगी	06	--	--	शहरी	5,00,000/-	500	डॉ.भाग्यश्री गंधे डॉ. स्नेहलभावे, डॉ. डॉ.निशाताई कुलकर्णी , श्रीमती कोमल साहू, श्रीमती रिता जायस्वाल तथा संगीता पियुष कुमार द्वारा उदघाटीत
141.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	13.12.2016 To 22.12.2016	सृजनात्मक रंगोली तथा पोर्ट्रेट कार्यशाला	09	-	-	शहरी	18,23,129/-	1500 प्रत्येक दिवस	

142.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न घाटों पर	15.12.2016 to 22.12.2016	पारंपारिक रंगोली (संस्कार भारती)	50	14	-	शहरी	--,,--	2000	
143.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	स्वतंत्रता भवन	16.12.2016 to 24.12.2016	पारंपारिक आदिवासी पेंटिंग कार्यशाला	24	--	--	शहरी	--,,--	1500 प्रति दिन	
144.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय i	17.12.2016	पद्मविभुषण डॉ. गिरिजा देवी तथा अन्य 6 सहयोगी	05	02		शहरी	--,,--	2000	श्री महेश शर्मा मान. सांस्कृतिक मंत्री, श्री गी.सी त्रिपाठी, उप-कुलपती, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पद्मविभुषण डॉ. गिरिजा देवी प्रख्यात शास्त्रीय गायक द्वारा उदघाटीत
145.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	17.12.2016 To 20.12.2016	सोंगी मुखवटे पंथी गड्डुक्म बाजा थांगटा पंच वाद्यम	15 15 15 15 10				--,,--	1800 प्रती दिन	
146.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	17.12.2016	श्री रितू वर्मा पंडवानी गायन	06	01		शहरी	--,,--	1200	
147.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	17.12.2016 To 20.12.2016	कबीर गायन श्री भैरवसिंह चव्हाण	08	--	--	शहरी	--,,--	1400	
148.	सृजन पेंटिग प्रदर्शनी	राजा रवि वर्मा कला दिर्घा द.म.क्षे.सा.कें	17.12.2016 To 24.12.2016	तनुश्री भट्टाचार्जी., समीर देशमुख,संजय मालधुरे,मिलिंद कलमकर , निशिकांत देशमुख	01	04	--	शहरी	21,000/-	500 per day	प्रा.श्री देवघरे महो. के द्वारा उदघाटीत
149.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	ओंकारनाथ ठाकूर ऑडीटोरियम, वाराणसी	18.12.2016	पं. अजय चक्रोबर्थी , पं. चेतन जोशी तथा विद्वान मैसूर	16	--		शहरी	--,,--	600	श्री विरेंद्र मिश्रा , डॉ. विधी नागर, प्रो.शशिकुमार द्वारा उदघाटीत

				चंदन कुमार (शास्त्रीय ऑर्केसट्रा) श्री सौरव गौरव मिश्रा (कत्थक नृत्य)							
150	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	ओंकारनाथ ठाकूर ऑडीटोरियम, वाराणसी	19.12.2016	पं. भजन तथा रुस्तम सोपोरी (संतूर जुगलबंदी) पं. छन्नूलाल मिश्रा (गायन) सुश्री सोनल डॉ. नरेंद्र मिश्रा (शास्त्रीय ऑर्केष्ट्रा	18	01		शहरी	--,,--	450	मा. उपकुलपती प्रा.गिरिषचंद त्रिपाठी द्वारा उदघाटीत
151.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	ओंकारनाथ ठाकूर ऑडीटोरियम, वाराणसी	20.12.2016	डॉ. एन. राजन, संगीता शंकर तथा नंदिनी व रगिनी शंकर (वायोलिन) श्री देबशिश डे (शास्त्रीय गायन)	6	4		शहरी	--,,--	660	डॉ. एन. राजन ,संगीता शंकर , प्रो. संगीता पंडीत, प्र. शारदा वेलेकर डॉ. विधी नागर तथा डॉ. संगीता सिंह द्वारा उदघाटीत
152.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	अस्सी घाट,तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	20.12.2016 To 22.12.2016	ढोल ताशा	40	14		शहरी	--,,--	1500	
153.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	ओंकारनाथ ठाकूर ऑडीटोरियम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	21.12.2016	डॉ. अश्विनी भिडे देशपांडे (शास्त्रीय गयन) विशाल कृष्णा (कत्थक)	20	1		शहरी	--,,--	400	
154.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी	22.12.2016	मालिनी अवस्थी (भोजपुरी गायन)	10	02		शहरी	--,,--	3000	
155.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	ओंकारनाथ ठाकूर ऑडीटोरियम, वाराणसी ,	22.12.2016	पं. प्रभा अत्रे, कलाश्रेष्ठ अंशुमन महाराज (शास्त्रीय ऑर्केष्ट्रा - नाद	11	02		शहरी	--,,--	400	

				भेदम)							
156.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	ओंकारनाथ ठाकूर ऑडीटोरियम, वाराणसी , वाराणसी	23.12.2016	पं. उल्हास कशाळकर (शास्त्रीय गायन) पं. निलदारी कुमार (सितार वादन), राहूल रोहित मिश्रा	15	-		शहरी	--,,--	450	
157.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	ओंकारनाथ ठाकूर ऑडीटोरियम, वाराणसी ,	24.12.2016	पदमश्री विजय घाटे (तबला) श्री भवानी शंकर (पखवाज) श्री राकेश चौरासिया (बांसुरी) श्री रवि चारी (सितार) पं संदिप महावीर (कत्थक)	11	06		शहरी	--,,--	500	
158.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव	स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी	22.12.2016	पंडीत जसराज	05	02	-	शहरी	--,,--	2000	
159.	सांस्कृतिक संध्या	महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	30.12.2016	पं. राजा काळे तथा 4 सहकारी (सगूण निर्गुण)	04	01	-	शहरी	1,00,000/-	1,000	कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्र द्वारा कलाकारों को प्रायोजित किया गया
160.	आनंदम योग शिविर	केंद्र का परीसर, नागपुर	01.1.2017 to 31.1.2017	योग	35	15		शहरी	--	50	नियमित आयोजन
161.	मझे कुछ कहना है	चिल्ड्रेन ट्राफिक पार्क, नागपुर	01.01.2017	गायन,नृत्य, वाद्य संगीत	06	07		शहरी	26,901/-	900	नियमित आयोजन
162.	सृजन (पेंटींग प्रदर्शनी)	राजा रवि वर्मा कला दिर्घा (द.म.क्षे.सा.कें) नागपुर	03.01.2017 To 09.01.2017	चिन्मय प्राथन नागपुर सोलो शो	01	--	--	शहरी	11,000/-	500 during exhibition	श्री चंद्रकांत चन्ने प्रख्यात दृष्य कला द्वारा उदघाटीत
163.	लोकोत्सव	गोवा	06.01.2017	तमाशा (म.रा.)	13	09		शहरी	7,10,776/-	--	कला एवं सांस्कृतिक विभाग,

			To 15.01.2017	धनगरी गाजा (म.रा.) लंबाडी कुनिथा (तेलंगणा) बढाई(म.प्र) होजगिरी (त्रिपुरा) मुंग्यता (नागालंड) शिल्पकार	16 10 09 06 -- 07	-- 6 06 09 14 03					गोवा सरकार द्वारा आयोजित
164.	ब्रम्हनाद	केंद्र का परीसर, नागपुर	08.01.2017	पं. राजा काळे तथा अमृता काळे, मुंबई (शास्त्रीय गायन)	04	01	-	शहरी	1,50,000/-	300	श्री गोयनका द्वारा उदघाटीत, पं. राजा काळे के उपस्थिती में
165.	चतुर्थ, आसाम इंटर्नेशनलएग्री-होर्टी शो2017	असम गुवाहाटी	09.01.2017	महारष्ट्रा ची लोकधारा	10	07			3,00,000/-		कार्यक्रम का आयोजन आसाम इंटर्नेशनल एग्री-होर्टी शो गुवाहाटी
166.	नॅशनल स्टोन कार्विंग कैंप	एम.आय.डी.सी परीसर, हिंगणा, नागपुर	12.01.2017 To 31.01.2017	भारत भर से आए 37 शिल्पी	33	03	-	शहरी	60,00,000/-	250 प्रति दिन	श्री अनूप कुमार, विभागीय आयूक्त, नागपुर , पद्मश्री बिमन बिहारी दास प्रख्यात शिल्पी, श्री कंद्रकांत चन्ने , श्री प्रमोदबाबु रामटेके प्रख्यात दृश्य कला रंगकर्मी, श्री देवेंद्र पारेख, चेअरमन वेद, नागपुर द्वारा उदघाटीत
167.	सृजन (चित्रकला प्रदर्शनी	राजा रवि वर्मा कला दिर्घा (द.म.क्षे.सा.कें) नागपुर	13.01.2017 To 17.01.2017	फरहान अली, बैशलिका धारा, शुभम वर्मा,धारीणी काबरा, अंकित सिंह,रविकांत सोनी, धरम सिंह नेता	01	--	--	शहरी	51,000/-	500 प्रदर्शनी के दौरान	श्री विजय बिसवाल प्रख्यात पॅन्टिग कलाकार
168.	अनहद पं. कुमार गंधर्व के 25 वी पुण्यतिथि	देवास (म.प्र.)	14.01.2017	वृंदगान (गंधर्व संगीत महाविद्यालय, दिल्ली)	21	15	--	शहरी	1,00,000/-	3000	कार्यक्रम का आयोजन कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान देवास, द्वारा . मान. शिवराज सिंह चौहान , मुख्यमंत्री,म.प्र.द्वारा

											उदघाटीत,श्री महेश एलकुंचवार प्रख्यात नाट्य लेखक की उपस्थिति में
169.	अनहद " पं. कुमार गंधर्व के 25 वी पुण्यतिथि पर "	देवस (म.प्र.)	15.01.2017	**सुबह का सत्र** सुश्री कलापिनी कोमकली , गायन **परिसंवाद** श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल श्री रवि दाते श्री सत्यशील देशपांडे, श्री उदयन बाजपई,श्री अशोक बाजपई **सायं सत्र** श्री योगेश समसी (एकल तबला) उस्ताद अमजद अली खां (सरोद)	04 05 03 03	01 --	--	शहरी	व्यय का ब्यौरा क्र. 9 पर दिया है	3000	कार्यक्रम का आयोजन कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान देवास. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम.
170.	सांस्कृतिक संध्या	हिंगणा (म.रा.)	20.01.2017	उस्ताद गफूर खान मन्गनियार तथा पार्टी	08	-	ग्रामीण	--	50,000/-	200	कार्यक्रम का आयोजन नॅशनल स्टोन कार्विंग वर्कशॉप, हिंगणा
171.	सांस्कृतिक संध्या	राजस्थानी महिलामंडल नागपुर	21.01.2017	उस्ताद गफूर खान मन्गनियार तथा पार्टी	08	-	ग्रामीण	--	50,000/-	200	कार्यक्रम का आयोजन राजस्थानी महिला मंडल, नागपुर
172.	गणतंत्र दिवस परेड	चेन्नई	23.1.2017 - 26.1.2017	लेझिम (म.रा.)	15	--	-	शहरी	--	--	कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर
173.	वार्षिक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम	PDA (C) कार्यालय मुंबई	24.01.2017	मुंबई ची मैना (लावणी)	02	07	--	शहरी	15,000/-	--	कार्यक्रम का आयोजन PDA (C) कार्यालय मुंबई
174.	सृजन (रंगोली प्रदर्शनी III)	राजा रवि वर्मा कला दिर्घा (द.म.क्षे.सा. कें) नागपुर	25.01.2017 To 31.01.2017	श्रीमती सुप्रिया दुधाल, पुणे, सोलो शो	01	--	--	शहरी	21,000/-	500 प्रदर्शनी के दौरान	प्रो. श्रीमती दिपाली मासिरकर (डी.सी.पी. झोन क्र.1,) नागपुर शहर द्वारा उदघाटीत

											द.म.सा.के., नागपुर के उपस्थिति में उदघाटित
185.	शौर्य पर्व	रामानगर बंगलोर	17.02.2017 से 20.02.2017	दांडपट्ट (म.रा.) थांगटा (मणिपुर) कलारी पटायु (केरल) कर्तब कवायत (म.प्र)	15 15 15 15			शहरी	1,10,620/-		कार्यक्रम का आयोजन साहस कला अकादमी, राम नगर, बंगलोर द्वारा
186.	अमडाली जनपद उत्सव	उत्तर कन्नडा कारवार	17.02.2017 से 19.02.2017	पंथी नृत्य (छ.ग)	15 09	-- 08		शहरी	1,71,620/-	1500 प्रतिदिन	कार्यक्रम आयोजन अमडाली जनपद उत्सव उत्सव उत्तर कन्नडा कारवार (कर्नाटक)
187.	राष्ट्रीय लोक महोत्सव	वसई (म.रा.)	17.02.2017 से 19.02.2017	लावणी नृत्य (म.रा.) भांगडा नृत्य (पंजाब) पंथी नृत्य (छ.ग) रास लिला (मणिपुर	07 15 15 11	08 -- -- 09		शहरी	4,57,964/-	-	कार्यक्रम का आयोजन , बसिन केरल समाजम, तेरेझा मॅन्शन माणिकपुर वसई रोड(प) जि. पालघर मुंबई
188.	कदम्बोत्सव	सिर्सी (कर्नाटक)	18.02.2017 To 19.02.2017	गार्गालू नृत्य (आ.प्र.) आदिवासी कोरकु नृत्य (म.रा.)	07 07	08 08		शहरी	1,18.600/-	--	कार्यक्रम का आयोजन, जिल्हा प्रशासन सिर्सी (कर्नाटक) केंद्र दवारा समूह का प्रायोजन
189.	आनंदम (योग Shivir)	द.म.क्षे.सा.कें परिसर	01.03.2017 से31.03.2017	योग	25	15	--	1	--	--	नियमित आयोजन
190.	मां नवाचंडी मेला	खंडवा (म.प्र.)	03/3/2017 से 05/3/2017	पंथी नृत्य (छ.ग.)	15	--	1	--	68,200	2000 3 दिन	--
191.	मुझे भी कुछ कहना है	नागपुर (म.रा)	05/03/2017	गायन, नृत्य, वाद्य संगीत , कविता इ.	08	08	--	1	24,948	400	नियमित आयोजन
192.	ब्रम्हनाद	द.म.क्षे.सा.के नागपुर	12/03/2017	अमीर खान (सरोद वादन)	02	--	--	1	75,000	500	नियमित आयोजन . नागपुर के गणमान्य व्यक्तित्व के कर कमलों द्वारा उदघाटित
193.	ओर्डनेंस फॅक्टरी स्थापना दिवस	चंद्रपुर (म.रा.)	18/3/2017	लावणी नृत्य (महाराष्ट्र) राठवा (गुजरात)	11 11	07 11	--	1	--	--	--
194.	आदिवासी महोत्सव	नागपुर (म.रा)	18/3/2017 & 19/3/2017	लिंगो नृत्य (म.रा.) पंथी नृत्य (छ.ग) गोंड नृत्य (म.प्र.) गौर माडीया (छ.ग) बैगा पर्धोनी (म.प्र.)	09 15 09 09 10	06 -- 06 06 05	--	1	--	--	--
195.	राष्ट्रीय	इंफाल	27/03/2017	लावणी (म.रा.)	08	04	--	1	उत्तर पूर्व	2000	कार्यक्रम का उदघाटन वरिष्ठ

175.	गणतंत्र दिवस परेड -2017 (बच्चों के समूह)	राज पथ, नई दिल्ली	26.01.2017	नागपुर शहर के विभिन्न शालाओं के विद्यार्थी - सैला नृत्य	75	90	-	शहरी	76,76,226/ -		अबुधाबी के राजकुमार मा.श्री मोहम्मद बिन झायेद अल नहायान मुख्य अतिथि थे
176.	अभिनंदन समारोह (गणतंत्र दिवस परेड-2017 (बच्चों के समूह)	द.म.क्षे.सा. के परिसर नागपुर,	31.01.2017	सैला नृत्य का 165 विद्यार्थीयों द्वारा प्रदर्शन	75	90	--	--	E व्यय का ब्यौरा क्र. 16 पर दिया है		श्री सुकुल सिंह दुर्वे, सैला नृत्य समूह नेता शाला के प्रधानाचार्य के उपस्थिति मे उदघाटीत
177.	आनंदम योग शिविर	केंद्रपरीसर नागपुर	01.2.2017 to 28.2.2017	योग	25	15		शहरी	--	40	नियमित आयोजन
178.	बिल्सा महोत्सव	बिलासपुर (छ.ग.)	03.02.2017 To 05.02.2017	बढई /नोर्टा नृत्य (म.प्र.)	07	08		शहरी	65,450/-	-	कार्यक्रम का आयोजन बिल्सा महोत्सव समिति, बिलासापुर. केंद्र द्वारा कलाकार प्रायोजित
179.	North East Festival	रविंद्र कलाक्षेत्र बंगलुरु	04.02.2017 To 05.02.2017	छेरेवु नृत्य-मिझोराम, मिताई नृत्य मणिपुर, बिहू नृत्य आसाम	12 12 10	06 06 06		शहरी	2,03,549/-	--	कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग , कर्नाटक सरकार . केंद्र द्वारा कलाकार प्रायोजित
180.	मझे भी कुछ कहना है	चिल्ड्रेन ट्रफिक पार्क, नागपुर	05.02.2017	गायन, नृत्य	05	12		शहरी	31,500/-	700	नियमित आयोजन
181.	अण्णाभाउ साठे राष्ट्रीय द्वितीय साहित्य सम्मेलन	नागपुर म.रा.	11.02.2017 To 12.02.2017	संगीत कार्यक्रम का आयोजन, सुगम संगीत, रंगमंच कार्यक्रम, परिसंवाद, कवी सम्मेलन	05 08 10 43	03 02 -- 02			1,00,000/-		कार्यक्रम का आयोजन अण्णाभाउ साठे राष्ट्रीय सम्मेलन समिति, नागपुर. केंद्र द्वारा कलाकार प्रायोजित
182.	ब्रम्हनाद	केंद्र का परीसर, नागपुर	12.02.2017	डॉ. धनंजय जोशी (शास्त्रीय गायन) नांदेड (म.रा.) 3 सहयोगी के साथ	04	--	--	शहरी	60,000/-	300	स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के कर कमलों द्वारा उदघाटित
183.	आंतर शालेय लोककला/ शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता	केंद्र का परीसर, नागपुर	16.02.2017	20 शालाओं से प्रतिभागी	150			शहरी	--	1500	कार्यक्रम का आयोजन वा एम सी ए, नागपुर द्वारा
184.	इंद्रधनुष्य (सह्याद्रीतील सात रत्ने)	केंद्र का परीसर, नागपुर	17.02.2017	श्री प्रफुल माटेगावकर	01	-		शहरी	51,000/-	400	धनंजय बापट नागपुर के प्रख्यात व्यक्तित्व के कर कमलों द्वारा तथा श्री एस. जे. पाटील, स.ले.अ.,

	संस्कृतिक महोत्सव	(मणिपुर)	to 29/03/2017	बढ (म.प्र) पंथी (छ.ग) मथूरी (आंप्र.)	09 15 11	06 -- 04			क्षेत्र सां. केंद्र दिमापुर (नागालैंड) द्वारा व्यय किया गया	(कुल 3 दिवसीय)	कलाकारों द्वारा
196.	होर्नाडू उत्सव	बौद्गया (बिहार) Bouddhgaya (Bihar)	28/03/2016 तथा 29/03/2016	1)विशेषज्ञ परिसंवाद (कर्नाटक) 2)कवी ((कर्नाटक) 3)चित्रकला कलाकार) 4)सुगम संगीत गायन (कर्नाटक) 5)भक्ति गीत (कर्ना.) 6) भरतनाट्यम (कर्ना.) 7) लोकगीत तथा संगीत (कर्ना.) 8)सितार वादन (कर्ना.) 9)पट्टकुनिथा 10) चर्मवाद्य (कर्नाटक) 11)सोमन कुनिथा (कर्नाटक राज्य) 12)पूजा कुनिथा (कर्नाटक राज्य) 13)नागरी (कर्नाटक) 14)चिटीमेला (कर्नाटक) 15)गुम्मटे पंगा (कर्ना.) 16)सुगी कुनिथा (कर्ना.) 17महिला विरगसी (कर्ना.) 18)यक्षगान	07 07 12 20 12 03 22 04 10 08 10 09 24 08 10 11 01 10 09 10	01 02 04 01 -- 02 -- -- -- -- -- 01 -- -- -- -- 11 -- --	--	1	52,53,313	--	कार्यक्रम 1) वेन सिद्धाथिसा थेरो भंते -महाबोधी सोसायटी ऑफ इंडीया 2) श्रीएन दोरजी,महासचिव बी टी एम सी बोधगया द्वारा उदघाटीत .

				(कर्नाटक) 19)बढई (म.प्र) 20)कहाले नृत्य (कर्नाटक) 21)संबलपुरी (ओडीसा) 22)बिहू (असम)	 08 10 08 **233**	 05 05 07 **39**					
197.	ईशान्य पर्व	नागपुर (म.रा.)	31/03/2017 से 02/04/2017	थांगटा (मणिपुर) अफिली कुवु (नागालैंड) घटवू (सिक्कम) चेरावू (मिझोराम) चेंग्लाईझवान (मिझोराम) ल्हासा (मणिपुर) होझागिरी (त्रिपुरा) ममिता (त्रिपुरा) रिकामपाडा (अरुणाचल प्रदेश) लाखान (असम) म्यांसिएम (मेघालय) बिहू (आसाम) **शिल्पकार** नागलैंड मणिपुर आसाम	10 -- 06 10 10 15 07 08 -- 10 10 07 -- 02 02	-- 15 09 10 05 -- 08 07 15 05 05 08 01 02 -- 	--	1	68,21,636		कार्यक्रम का उदघाटन श्रीमती नंदाताई जिचकार, मा. महापौर, नागपुर तथा श्री दिनेश पाटील, महालेखाकार तथा समापन श्री ब्रिजेश गुप्ता, विभागीय रेल प्रबंधक, मध्यरेल, नागपुर द्वारा

निदेशक

दक्षिण मध्य क्षेत्र सास्कृतिक केंद्र, नागपुर

वर्ष 2016-17 में आयोजित कार्यक्रमों के छायाचित्र



68वें गणतंत्र दिवस परेड, नई दिल्ली: 26-01-2017



फ्रांस प्ले अण्ड वर्कशॉप, नागपूर: 03-12-2016



राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, वाराणसी, उ.प्र.: 17 से 24-12-2016




श्रावण शैरी वर्कशॉप, नागपूर: 27-06-2016 से 16-07-2016



सिंहस्थ कुम्भ मेला, नाशिक (महा.): 20-4-2016 से 16-05-2016



स्वच्छता पखवाड़ा, नागपुर: 16 से 30-05-2016



तत्व मसी पेंटींग एक्ज़िव्हिज़न, नागपुर: 08 से 11-12-2016

वर्ष 2016-17 में आयोजित कार्यक्रमों के छायाचित्र



आदिवासी एवं लोक नृत्य, नागपुर: 18 से 19-03-2017



अग्नि महोत्सव, खजुराहो (म.प्र.): 14 से 16-11-2016



ब्रह्मनाद, नागपुर: 08-05-2016



दशहरा मेला, हैद्राबाद: 01 से 10-10-2016



राष्ट्रीय आदिवासी संगीत एवं नृत्य महोत्सव, टुमकुर: 23 से 25-09-2016



मुझे भी कुछ कहना है कार्यक्रम, नागपुर: 05-06-2016



राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, नई दिल्ली: 15 से 25-10-2016



डॉ. वसंतराव देशपांडे संगीत समारोह, नागपुर: 30-07 से 03-08-2016

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

मध्यदक्षिणी

SCZCC

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

वार्षिक लेखे

२०१६–१७

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (SCZCC), नागपुर के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(I) तथा केंद्र के खंड 30(i) के अंतर्गत उपनियम को पढते हुए 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (SCZCC), नागपुर (केंद्र) का संलग्न स्थिति का विवरण, आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा का लेखापरीक्षण सौपा गया है| लेखापरीक्षण का कार्य 2019-20 तक होना है| इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी स्वायत्त निकाय प्रबंधन की है | हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रगट करना है |

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में वर्गीकरण को सिर्फ लेखाकर्म व्यवहार व उत्कृष्ठ लेखाकर्म अभ्यास, लेखाकर्म मानक और प्रकटीकरण के सिद्धांत इत्यादि सहित अनुपालन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की टिप्पणीयां समाहित है. निरिक्षण रिपोर्ट/ भारत के नियंत्रक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के माध्यम से कानून, नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) और दक्षता-सह निष्पादन पक्ष इत्यादि, यदि कोई हो तो, निरीक्षण प्रतिवेदन / भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा |

3. हमने सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में हमारे लेखापरीक्षा को निष्पादन किया है| इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और लेखापरीक्षा निष्पादन करे और यह सुनिश्चित करें की वित्तीय विवरण किसी भी गलत विवरण सामग्री से मुक्त है | लेखापरीक्षण में जॉच के आधार पर राशियों के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के साक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित है | लेखापरीक्षण में उपयोग मे लाये लेखाकर्म सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा निर्मित अनुमानों की सार्थकता, साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है| हमारा विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारे अभिमत के लिए समुचित आधार उपलब्ध कराता है |

4. हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर हमारी रिपोर्ट है कि:-

I. हमने सभी सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान के विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षण के उद्देशके लिए आवश्यक थे |

II. इस रिपोर्ट में जांचे गए तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित फोर्मेट के अनुसार प्रस्तुत किये गए | आगे, यह भी रिपोर्ट है की केंद्र ने आय तथा व्यय लेखों को तैयार नही किया |

III. हमारे मतानुसार केंद्र के उप नियम 29(II) के अनुरुप केंद्र द्वारा उचित लेखा पुस्तकों व अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया गया है. इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से अब तक यही प्रकट हुआ है |

IV. हमारी रिपोर्ट यह है कि:

(A) **तुलनपत्रक**

A.1 देनदारीयां

A.1.1 समग्र निधि (शेड्युल 1) रु.2562.50 लाख

एक समान लेखों के संरुप(फॉर्मेट), आय एवं व्यय लेखों में आधिक्य यदि कोई होतो तुलन पत्रक के समग्र निधी (शेड्युल 1) में अंतरण किया जाना है | केंद्र ने समग्र आधिक्य की संपूर्ण राशी रु. 133.94 लाख को आरक्षित तथा आधिक्य शिर्ष के एवज मे समग्र निधि के अंतर्गत अंतरण कर दिया है . इस कारण समग्र निधि की राशि रु.133.94 से कम दिखाई है जिसे तदनुसार आरक्षित तथा समग्र निधि मे राशि अधिक दर्शाई गई है |

A 1.2 उद्दिष्टीत निधि/ अक्षयनिधि (Endowment Fund) (शेड्युल 3)

द.म.क्षे.सा.कें ने टागोर सांस्कृतिक संकुल योजना के अंतर्गत रु.1.80 करोड बहूपयोगी सांस्कृतिक संकुल के निर्माण के लिए दिनांक 31.03.2017 को मंजूर किए थे | यद्यपि, इस अनुदान को केंद्र ने वर्ष 2016-17 के लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध नही किया था जिसके चलते उद्दिष्टीत निधि/अक्षयनिधि (Endowment Fund) में कम दर्शाए गए है तथा तदनुसार वर्तमान संपत्तीयां, ऋण तथा आग्रिम में कम दर्शाए गए है |

A. 1.3. वर्तमान देयताएं (शेड्युल 7) रु. 452.94 लाख

वर्तमान देयताएं (शेड्युल 7) के अंतर्गत रु.92.20 लाख दर्शाए गए है, यह राशि मई 1991 से मार्च 2017 तक के अवधि के लिए भाडा, पानी प्रभार, नगरपालिका कर तथा विद्युत प्रभार के लिए है|यद्यपि,हमारे रिकार्ड अनुसार इन मदों पर 31.03.2017 तक वास्तविक प्रलंबित राशि रु.89.65 लाख है | जिसके चलते वर्तमान देयताएं र.2.55 लाख से अधिक दिखाई है जिसे तदनुसार आरक्षित तथा अधिशेष में कम दिखाई गई है |

A.2 परिसंपत्ती

A.2.1 निवेश - अन्य (शेड्युल 10) रु.2990.13 लाख

द.म.क्षे.सं केंद्र ने रु.0.82 लाख के सावधी जमा की राशि को निवेश (शुड्युल 10) के अंतर्गत लेखें में नही दिखाए है| जिसके परिणाम स्वरुप निवेश रु.0.82 लाख से कम दर्शाया गया है तदनुसार लेखों में आरक्षित तथा अधिशेष कम दिखाई गई है|

A.2.2 चल संपत्ती, कर्जे तथा अग्रिम

(शेड्युल 11) रु.390.04 लाख

वर्ष 2016-17 के लिए द.म.क्षे.सं केंद्र द्वारा रखे गए पांच बैंक लेखा-समाधान विवरणों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है की 52 धनादेश जिनका मूल्य रु.9.00 लाख है जो दिसंबर 2016 तक जारी किए गए थे चेक की समयावधी समाप्ती (time barred)हो गए है जिस की राशि लेखों में पुन: लेनी है (written back in the accounts). यद्यपि, केंद्र ने पुराने चेकों के एवज में लेखों में विरुद्ध प्रविष्टी (reverse entry) नही ली गई जिसके परिणामस्वरुप बैंक का शेष रु.9.00 लाख से कम दर्शाता है. जिसके परिणामस्वरुप वर्तमान सम्पत्ती, कर्जे तथा अग्रिम (बैंक शेषों) में रु.9.00 लाख से विविध लेनदार खातों (सैंड्री क्रेडीटर्स)में कम दर्शाया गया है|

A.2.3 चल संपत्ती, कर्जे तथा अग्रिम

(शेड्युल 11) रु.390.04 लाख

बैंक ऑफ बडौदा (बचत खाता सं.04650100005138) के लेखासमाधान विवरण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है छह डिमांड ड्राफ्ट/एनईफटी अंतरण की राशि रु.0.44 लाख का प्रभाव बैंक द्वारा खाते में नही किया है | तदनुसार, चल संपत्ती, कर्जे तथा अग्रिम खाते में (बैंक शेष) जो रु.0.44 लाख से अधिक दर्शाया गया है तदनुसार आरक्षिती तथा अधिशेष में अधिक दर्शाया (overstated) है |

A.2.4 चल संपत्ती, कर्जे तथा अग्रिम

पेंशन योजना व्यय (शेड्युल 11) रु.390.04 लाख

सांस्कृतिक मंत्रालय ने द.म.क्षे.सा.के. लिए 2014-15 से कलाकारों के 'पेंशन योजना तथा कल्याण निधि' के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के निबंधन तथा शर्तों पर योजना लागू की है | वार्षिक लेखों के अनुसार केंद्र ने 5.40 लाख रु. वर्ष 2014-15 में, 10.58 लाख रु वर्ष 2015-16 तथा 13.15 लाख रु.2016-17 (कुल 29.13 लाख रु.) के इस योजना पर खर्च किए है | मंत्रालय द्वारा इन व्ययों की प्रतिपूर्ति द.म.क्षे.स.केंद्र को करना है, जो अभितक नही हुई |

केंद्र द्वारा मात्र 18.00 लाख रु. के शेड्यूल 11 के अंतर्गत वर्तमान संपत्ती, विविध देनदार के अंतर्गत कर्जे तथा अग्रिम में प्रतिबिंबित किए है | वर्तमान संपत्ती, कर्जे तथा आग्रिम को अत: 11.12 लाख रु. से कम दर्शाया गया है तदनुसार आरक्षिती तथा अधिशेष मदों को कम दर्शाया (understated) है |

B. आय तथा व्यय लेखा

B.1 आय

B.1.1 आय रु.282.61 लाख

द.म.क्षे.सा.के ने पूर्व वर्ष के लिए खर्च न किए गए शेष अनुदान 554.89 लाख रुपए को वर्तमान वर्ष के लिए आय के रुप में आय तथा व्यय लेखे में मान्यता दे दी है, जो की गलत है | जैसा की केंद्र ने पहले ही इस अनुदान को पिछले वर्ष के आय तथा व्यय लेखे में लेखाबद्ध कर लिया गया था और शेष को शेड्युल 2, आरक्षिती तथा अधिशेष के अंतर्गत अंतरित किया था, इस मद को पुन: वर्तमान वर्ष मे आय के अंतर्गत दिखाना गलत है | इससे केंद्र की आय 554.89 लाख रुपए से अधिक दर्शाई (overstated) है परिणामत: आरक्षिती तथा अधिशेष मदों में अधिक राशि दर्शाई गई है |

B.1.2 अनुदान/ सहायिकी (शेड्युल 13) रु.1231.17 लाख

केंद्र के पास दिनांक 31 मार्च 2016 को 556.62 लाख रुपए का व्यय न किए गए राशि का अनुदान है तथा वर्ष 2016-17 के लिए 588.43 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुवा है (कुल 1144.95 लाख रुपए) की तुलना मे केंद्र ने मात्र 1143.33 लाख रुपए शेड्युल 13 में अनुदान/सहायिकी मद के अंतर्गत लेखे में दर्ज किए है | जिसके परिणाम स्वरुप आय को 1.62 लाख रुपए से कम दर्शाया गया परिणामत: आरक्षिती तथा अधिशेष मदों में राशि 1.62 लाख रुपए से कम दर्शाई गई है |

C. सामान्य टिप्पणीयां

भारत सरकार ने केंद्र सरकार के स्वायत्ता निकाय लेखों के रखरखाव के लिए के लेखे के एकसमान स्वरुप तथा पारदर्शकता हेतु निर्धारीत लेखों का संरुप (format) प्रणाली प्रस्तावित की है, जिसे आय तथा व्यय के विवरणी में तैयार कर वार्षिक लेखों के साथ संलग्न करना है | द.म.क्षे.सा.के ने आय तथा व्यय के विवरणी को तैयार नही किया, जब की इस संदर्भ में इस पर पिछले लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी भी की थी |

2.AS 12 'सरकार से प्राप्त अनुदान का लेखाकरण' के संबंध में लेखों की टिप्पणी मे निम्न तथ्य का प्रकटीकरण करना है:

i). सरकारी अनुदानों के लिए अवलंबित लेखा निति तथा उसका वित्तिय विवरणी में प्रकटीकरण से है |

ii). सरकारी अनुदानों की स्वाभाविकता तथा व्यापकता जो वित्तिय विवरणों मे माने जाते है जिसके अंतर्गत गैर-आअर्थिक हितलाभ की संपत्तीयां जो रियायती दरों या मुफ्त में दि गई हो | यद्यपि संस्थान द्वारा लेखों की टिप्पणी के अंतर्गत सरकारी अनुदानों के लेखाकरण की नितियों का प्रकटीकरण नही किया है |

3. केंद्र के अंतर्गत सात सद्स्य राज्य है, जो की इस प्रकार है, महाराष्ट्र,कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही नए बने हुए राज्य, तेलंगणा तथा गोआ | बैठक की कार्यसूची के अनुसार बैठक में लिए गए निर्णय जो कार्यवृत्त द्वारा जारी किए गए है के अनुसार प्रत्येक सदस्य राज्य को 2.00 रुपए करोड का अंशदान समग्र निधि के अंतर्गत देना होता है | भारत सरकार के निर्देशानुसार ऐसे सदस्य राज्य जो समग्र निधि, जिसे राज्यों द्वारा देना है का ब्यौरा नही देते, तथा उनके ऐसे प्रलंबित अंशदान को जैसा लेखो की टिप्पणी के परिच्छेद 1 के अंतर्गत दिया गया है लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापित नही किया जा सकता |

4. द.म.क्षे.सा.के ने स्वायत्त केंद्र निकाय के लिए खाते के रखरखाव के लिए निर्धारीत एकसमान स्वरुप का पुर्णत: पालन नही किया :

i) तुलनपत्र (स्थायी परिसंपत्तीयां) को शेड्युल 8 के निर्धारीत प्रपत्र में नही दर्शाई गई |

1. द.म.क्षे.सा.के ने केंद्र के कुछ कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार की सी बी आई दर्ज में शिकायत के लिए मंत्रालय से अगस्त 2016में प्राप्त सूचना नुसार कोई कार्रवाई नही की. निधि के दुर्विनियोजन की रिपोर्ट पर संबंधित कर्मचारीयों से अभी तक वसूली नही की गई |

2. द.म.क्षे.सा.के. ने सेवा कर रिटर्न/आयकर रिटर्न समयपर दर्ज नही की | सरकारी लेखों में व्यवसाय कर कटौती के भुगतान तथा सेवार्थी इत्यादी के मूल स्त्रोत पर कटौती के लिए अत्याधिक समय का विलंब हुआ है । सेवाकर/ व्यवसाय कर/ मूल स्त्रोत पर कटौती के भुगतान के लिए दो माह से उन्नीस माह तक का विलंब हुआ है | केंद्र ने रु.9.74 लाख ब्याज/मूल स्त्रोत पर कटौती के लिए दंड के रुप में भुगतान किया (शेड्युल 21 (U) परंतु ब्याज/ दंड के लिए लेखे मे कोई प्रावधान नही है |

3. द.म.क्षे.सा.के ने स्वायत्त केंद्र निकाय के लिए खाते के रखरखाव के लिए निर्धारीत एकसमान स्वरुप का पुर्णत: पालन नही किया :

i) तुलनपत्र (स्थायी संपत्तीयां) को शेड्युल 8 के निर्धारीत प्रपत्र में नही दर्शाई गई |

ii) उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दिमापुर को 30.00 लाख रुपए का सिंहस्थ कुंभ मेला में शामिल होने के लिए आग्रिम दिया गया था जिसे दिमापुर केंद्र ने पूर्णत: उपयोग मे नही लाया तथा अव्ययित शेष राशि 14.51 लाख रुपए विविध देनदार (सँड्री डेटर्स) के अंतर्गत दर्शाए गए है जिसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को वापसी के अंतर्गत दर्शाया जाना था |

iii)द.म.क्ष.सा.कें. को कर्नाटक सरकार की ओर से 92.00लाख रुपए होरांडु उत्सव के लिए अनुदान के रुप में प्राप्त हुए जिसे आय तथा व्यय लेखों में 'शेड्युल 13-अनुदान/ राज्य द्वारा सहायिकी' के अंतर्गत दर्शाना था |

iv) केंद्र को विविध राज्य/ संगठनों से 50.11लाख रुपए प्राप्त हुए जिसे शेड्यल 13 अनुदान/सहायिकी के अंतर्गत दर्शाना था. यद्यपि, यह राशि केंद्र द्वारा 'अन्य आय' के अंतर्गत दर्ज की गई, जो की केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय के लिए निर्धारित एकसमान लेखों की शर्तों के विपरित है |

5. ललित कला अकादमी, नई दिल्ली द्वारा द.म.क्षे.सा.कें.नागपुर को उज्जैन स्थित सिंहस्थ कैंम्प 2016, चलाने के लिए 50.00 लाख रुपए की वित्तिय सहायता के रुप में मंजूर किए गए, जिसके अंतर्गत 75 प्रतिशत अनुदानित राशि जो की 37.50 लाख रुपए बनती है केंद्र को जारी की गई | उर्वरित 25 प्रतिशत राशि, 37.50 लाख के उपयोजन प्रमाणपत्र (utilisation certificate) के प्रस्तुतीकरण करने के शर्त पर मंजूर की जानी थी की | द.म.क्षे.सा.कें. नागपुर द्वारा उपयोजन प्रमाणपत्र (utilisation certificate) समयावधि में प्रस्तुत नही किया, अत: मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया उर्वरित अनुदान केंद्र के पक्ष में जारी नही किया गया, केंद्र द्वारा इस मद के अंतर्गत कुल 54.33 लाख रुपए भी खर्च किए गए | जैसा की केंद्र द्वारा 16.84 लाख रुपए का इस लेखे के अंतर्गत अधिक व्यय किये गए है, जिसे केंद्र द्वारा अन्य मदों के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों में से समायोजित किया गया जो अनियमित है | आगे इस तथ्य को लेखाकरण मानक 1 के अंतर्गत लेखों की टिप्पणी में दर्शाया जाना था, जो दर्शाया नही गया |

6. द.म.क्षे.सा.कें. नागपुर को '25 वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला' के लिए 100.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसे इस मेले पर खर्च नही किया गया और अव्ययित राशि (unspent amount) को स्विकृती पत्र में दर्शाए नियम तथा शर्तो के अनुसार अनुसार मंत्रालय को वापस करना था, जो नही किया गया |

7. द.म.क्षे.सा.कें. ने उत्तर-पूर्व कार्यक्रमों के लिए 100 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया था तथा परंतु आय तथा व्यय के अनुसूची 25 के अनुसार कार्यक्रम पर 112.00 लाख रुपए का व्यय हुआ | यद्यपि कार्यसूची के टिप्पणी के अनुसार उत्तर-पूर्व कार्यक्रमों के लिए 126.51 लाख रुपए का खर्चा दिखाया गया है | द.म.क्षे.सा.कें ने बैठक (BoG) के कार्यवृत्त के अंतर्गत व्यय मे 14.51 लाख रुपए की बढोतरी के लिए उचित कारण नही दर्शाए |

8. केंद्र ने छुट्टी नकदीकरण के वास्तविक मूल्यन के अनुसार प्रावधान नही बनाया तथा छुट्टी नकदीकरण का भुगतान नकद में किया जाता है । केंद्र द्वारा छुट्टी नकदीकरण हेतु वास्तविक (accrual) आधार पर लेखाकरण मानक-15 के अनुसार प्रावधान बनाए जाना अपेक्षित है |

9. द.म.क्षे.सा.के. ने पिछले तीन वर्ष के लिए अर्थात वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए सेवा कर रिटर्न/आयकर रिटर्न दर्ज नही किया | सरकारी लेखों में व्यवसाय कर कटौती के भुगतान तथा सेवार्थी इत्यादी के मूल स्त्रोत पर कटौती के लिए अत्याधिक समय का विलंब हुआ है । केंद्र ने 0.61 लाख रुपए ब्याज/मूल स्त्रोत पर कटौती के लिए दंड के रुप में भुगतान किया (शेड्युल 21 (t) |

10. पूंजी आरक्षिति (Capital Reserve) (शेड्युल 2) जिसमें संपत्ती (भवन) के मूल्यह्रास की किमत सम्मिलित है अत: मूल्यह्रास द्वारा 7.86 लाख रुपए राशि के अंतर का सुधार परिशोधन प्रविष्ठी (rectification entry) द्वारा करना है | इस मामले को लेखापरीक्षा द्वारा लगातार इंगित करने पर भी केंद्र द्वारा इस में सुधार नही किया गया |

C. सहायता अनुदान

वर्ष 2016-17 के अंतर्गत द.म.क्षे.सा.कें को 3.39 करोड रुपए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ZCC head), 2.25 करोड़ रुपए सिंहस्थ कुंभ मेला (SKM) तथा 0.24 करोड रुपए आदिवासी उप योजना (TSP) (कुल 5.88 करोड रुपए) प्राप्त हुए | केंद्र के पास 1.40 करोड रुपए उत्तर-पूर्व क्रियाकलाप (NEA) तथा 4.16 करोड रुपए क्षेत्रिय सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत पिछले वर्ष के अव्ययित शेष थे | इसके अलावा, केंद्र को अन्य राज्यों/ प्राधिकरण से 1.80 करोड रुपए (कुल 13.24 करोड रुपए) प्राप्त हुए | केंद्र द्वारा नॉर्थ ईस्ट ॲक्टीविटीज के अंतर्गत 1.12 करोड रुपए, 10.91 करोड झोनल कल्चरल सेंटर (जिसमे 3.64 करोड रुपए सिंहस्थ कुंभ मेला के सम्मिलित है) 0.28 करोड रुपए ट्राईबल सब प्लान तथा 2.69 करोड रुपए अन्य राज्य/ प्राधिकरण (कुल 15.01 करोड रुपए) का उपयोग किया | केंद्र के पास 0.28 करोड रुपए नॉर्थ ईस्ट ॲक्टीविटीज के अंतर्गत उपयोग ना किये जाने के कारण अ-व्ययित शेष है| केंद्र द्वारा व्यय के अन्य मदों के अंतर्गत 2.04 अतिरिक्त व्यय हुवा है, जो अंतर्गत राजस्व के प्राप्तियों से किया है |

केंद्र ने विशिष्ट लेखे जैसे सिंहस्थ कुंभ मेला तथा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के लिए प्राप्त अनुदान के लिए अलग लेखे का अनुरक्षण नही किया है, जो अनुचित है इस कारण प्रत्येक शिर्ष के अंतर्गत अव्ययित शेष का आकलन लेखापरीक्षा के दौरान नही किया जा सका |

D. प्रबंधन पत्र

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो भी कमीयां रह गई है उनके प्रति उपचारी/ सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संस्थान को अलग से पत्र जारी कर सूचित किया गया है |

V. पूर्व अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणीयों के आधार पर यह, आय तथा व्यय का लेखा तथा प्राप्ती तथा खर्चों का लेखा, लेखा पुस्तिका के आधार पर तैयार किये गए है तथा लेखों से मेल खाते है |

VI. हमारी मान्यता तथा जानकारी और जो स्प्ष्टीकरण हमे प्राप्त हुआ है, के अनुसार, कथित वित्तिय विवरण को लेखा नितियों तथा लेखा टिप्पणीयों का मिलान करने पर तथा उपर्यूक्त महत्वपूर्ण विषय एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिए गए अन्य विषय, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांता नुसार सही एवं निष्पक्ष रुप में स्वीकार्य है |

(a) जहां तक द.म.क्षे. सा.कें के 31.03.2017 तक के तुलनपत्रक तथा कार्यो की स्थिती से संबंधित है | और

(b) जहॉ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय-व्यय लेखों से संबंधित है |

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक
के लिए तथा की ओर से
हस्ता./-
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्र)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08/05/2018

संलग्नक

1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** केंद्र के पास आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष नही है | सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2011 से केंद्र की आंतरिक लेखापरीक्षा जांच नही की | केंद्र की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटंट द्वारा उपविधि 30(iii) के अंतर्गत की जानी थी जो नही की गई तथा वार्षिक लेखों में कई खामियां सामने आई है जिसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे विस्तृत में दिया है |
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली काफी कमजोर है तथा केंद्र के विस्तार तथा कार्य की प्रकृति के अनुरुप नही है (i). द.म.क्षे.सा.कें ने सी.बी.आई द्वारा जांच के परीणाम स्वरुप तथ्य के आधार पर कर्मचारी द्वारा निधि के दुर्विनियोजन के संदर्भ में कर्मचारी से वसूली नही की, जब की इस संदर्भ में मंत्रालय से रिपोर्ट पर अगस्त 2016 को निर्देश प्राप्त हुए थे | (ii). केंद्र ने केंद्रिय स्वायत्त निकाय के लिए खाते के रखरखाव के लिए निर्धारीत एकसमान स्वरुप का पुर्णत: पालन नही किया | (iii). केंद्र ने हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर लगातार टिप्पणीयों के बावजूद आय तथा व्यय का लेखा तैयार नही किया| (iv). विभिन्न राज्यों तथा प्राधिकरणों से विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु प्राप्त अनुदानों को अलग से लेखाबद्ध नही किया गया तथा कई कार्यक्रमों मे प्राप्त अनुदानों की तुलना में अनुदान प्राप्ति से अधिक व्यय किया गया | (v). केंद्र द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रवेश हेतु टिकट बेचा जाता है तथा इस टिकट बिक्री से प्राप्त आय का लेखा रखने की कोई पारदर्शक प्रणाली केंद्र के पास उपलब्ध नही है तथा संबंधित रिकार्ड भी लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही किया गया |
3	**परिसंपत्तीयों का वास्तविक सत्यापन:** केंद्र द्वारा परिसंपत्तीयों का वास्तविक सत्यापन नही कराया गया| केंद्र के पास स्थायी परिसंपत्तीयों की पंजी का रखरखाव भी नही है |
4	**वस्तु सूची की वास्तविक सत्यापन प्रणाली:** वर्ष के दौरान वस्तु सूची से वस्तुओं के वास्तविक सत्यापन तथा जांच नही की गई तथा इस संबंध में रिपोर्ट नही प्रस्तुत की गई | सीबीआई से अगस्त 2016 में प्राप्त सूचना नुसार कोई कार्रवाई नही की | निधि के दुर्विनियोजन की रिपोर्ट पर संबंधित कर्मचारीयों से अभी तक वसूली नही की गई |
5	**सांविधिक देयताएं के भुगतान संबंधी विनियामक:** द.म.क्षे.सा.के. ने सांविधिक देयताओं का भुगतान समयपर नही किया तथा सेवा कर रिटर्न/आयकर रिटर्न समयपर दर्ज नही किए | सरकारी लेखों में व्यवसाय कर कटौती के भुगतान तथा सेवार्थी इत्यादी के मूल स्त्रोत पर कटौती कर सरकारी लेखे में जमा करने के लिए अत्याधिक समय का विलंब हुआ है ।

हस्ता./-
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्र)

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष,
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,
56/1 एम.एल.ए. होस्टेल के सामने,
सिविल लाईस, नागपुर 440 001 (म.रा.)

1. हमने दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर के इस के साथ संलग्न 31 मार्च 2017 को समाप्त स्थिति का विवरण तथा संलग्न आय व व्यय लेखा का लेखापरीक्षण किया | इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी स्वायत्त निकाय प्रबंधन की है | हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रगट करना है|
2. हमने सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में हमारे लेखापरीक्षा को निष्पादन किया है| इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और लेखापरीक्षा निष्पादन करे और यह सुनिश्चित करें की वित्तीय विवरण किसी भी गलत विवरण सामग्री से मुक्त है | लेखापरीक्षण में जॉच के आधार पर राशियों के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के साक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित है | लेखापरीक्षण में उपयोग मे लाये लेखाकर्म सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा निर्मित अनुमानों की सार्थकता, साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है| हमारा विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारे अभिमत के लिए समुचित आधार उपलब्ध कराता है |
3. हमने संलग्नक "क" मे मुंबई लोक न्यास अधिनियम 1950 के धारा 33 तथा 34 तथा नियम19 उपबंधित नियमानुसार अलग से प्रतिवेदन संलग्न किया है | हमारे रिपोर्ट के प्रश्नके बिना,संवैधानिक अनुपालन में त्रुटीयों के संबंध में अनुलग्नक "क" मे दर्ज किए गए मामलों पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करते है |
4. "लेखों की टिप्पणीयों" के परिच्छेद 10 जो केंद्रिय जॉच ब्यूरो के भ्रष्टाचार निर्मूलन स्कंध नागपुर के तलाशी के संदर्भ में की जून 2015 मे की गई थी | इन पर केंद्रिय जॉच ब्यूरो से प्राथमिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है तथा कोई विशेष आरोप अधिरोपित नही किए गए है जिससे केंद्र के लेखों पर इनका प्रभाव पडें | केंद्र द्वारा अंतिम निर्णय लेने से लंबित रहने के कारण कार्यक्रम हेतु श्री गोपाल बेटावार दिया गया 10.58 लाख रु के आग्रिम का समायोजन लंबित रखा गया है |
5. आगे उपरोक्त के संदर्भ में, यह प्रतिवेदित किया जाता है कि :-
   - i. आय-व्यय का लेखा तथा तुलना विवरण लेखा पुस्तिका के आधार पर तैयार किये गए है |
   - ii. हमारी राय के अनुसार तथा जो जानकारी हमें दी गई है तथा जो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ है तदनुसार, इन लेखों को अनुलग्नक "अ" के शेड्युल 28 में दि गई टिप्पणी के साथ पढते हुए यह जानकारी मुंबई लोक प्रन्यास अधिनियम 1950 के अनुसार दि जा रही है तथा इससे भारत में भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखों का सही और स्पष्ट स्थिती प्रकट हो रही है|

   अ.) तुलनपत्रक से निकाय के कार्य की 31 मार्च 2017 की स्थिती ; तथा
   आ.) जहा तक आय तथा व्यय के लेखे तथा व्यय से अधिक आय की इस तिथी की स्थिती दी जा रही है |

नागपुर
दिनांक : 15 जुलाई 2017

कृते केदार गोखले & कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटंट
FR No.131980 W
हस्ता./-
CA केदार गोखले
भागीदार M No.039140

31/03/2017 के तुलन पत्रक की स्थिती विवरण

समग्र / पूंजीगत निधी और देंनदारियां	शेड्यूल	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधी	1	25,62,50,000	256,250,000.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	78,197,322	71,305,634
नियुक्त / एंडोमेंट् निधी	3	-	
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
डेफर्ड क्रेडिट देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियों और प्रावधान	7	45,293,880	
कुल		**379,741,202**	**409,934,568.31**
परिसंपत्ती			
स्थिर परिसंपत्तीयां	8	41,724,263	42,719,000.96
निवेश - निर्धारित/ एंडोमेंट् निधी से	9	-	-
निवेश अन्य	10	299,013,000	297,200,000.00
वर्तमान संपत्ति, ,ऋण अग्रिम इ.	11	39,003,940	70,015,567.35
विविध व्यय			
(जहां तक नही लिखा गया या सामायोजित)			
कुल		**379,741,202**	**409,934,568.31**

स्थान: नागपुर
दिनांक 15 जुलाई 2017

हस्ता./-
वरिष्ठ लेखा तथा प्रशा. अधि.
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर

हस्ता./-
निदेशक
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर

कृते केदार गोखले & कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटंट
FR No.131980 W
हस्ता./-
CA केदार गोखले
भागीदार M No.039140

31.03.2017 के तुलन पत्रक के लिए शेड्युल

शेड्युल 1 कॉर्प्स/पूंजीगत निधी

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के शुरुवात में शेष राशि	256,250,000.00	256,250,000.00
वर्ष के अंत के रुप में शेष राशि	256,250,000.00	256,250,000.00

शेड्युल : 2 आरक्षित और अधिशेष

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. संपत्ति कोष /पूंजी संचय		
गत वर्ष के लेखे अनुसार	8,761,000	8,761,000
(+)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(-)घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	-	
2.आय तथा व्यय खाते में शेष		
गत वर्ष के लेखे अनुसार		
(+)वर्ष के दौरान परिवर्धन	23,794,634	14,150,238.74
(-)घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	6,744816	13,394,495.57
		37,50,000.00
अंत शेष		
	30,539,450.00	23,794,634.31
4.सामान्य रिजर्व		
गत वर्ष के लेखे अनुसार		
(+)वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(-)घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	38,750,000	350,00,000.00
		3,750,000.00
अंत शेष		-
	387,50,000.00	387,50,000.00
कुल	**78,050,450**	**71,305,634.31**

अनुसूची (शेड्युल):3 निर्धारित / एंडोवमेंट निधी

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
कुल		

अनुसूची : 4- सुरक्षित ऋण तथा उधार:

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.केंद्र सरकार 2.राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थाए क)सावधि ऋण ख) प्रोद्युत(accrued) व्याज तथा प्राप्य(due) बैंक : क)सावधि ऋण - प्रोद्युत(accrued) व्याज तथा प्राप्य(due) ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) प्रोद्युत(accrued) व्याज तथा प्राप्य(due) 5. अन्य संस्थाएं तथा अभिकरण 6. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स 7. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल		
नोट :एक वर्ष के प्राप्य (due) होनेवाली राशि		

अनुसूची : 5- असुरक्षित ऋण तथा उधार:

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.केंद्र सरकार 2.राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थाए 4 बैंक : क)सावधि ऋण ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) 5. अन्य संस्थाएं तथा अभिकरण 6. डिबेंचर्स और बॉण्ड्स 7. सावधि जमा 8.ऋण (उल्लेख करें)		
कुल		
नोट : एक वर्ष के प्राप्य (due) होनेवाली राशि		

अनुसूची: 6 डिफर्ड क्रेडिट देयताएं

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियां के ढांचे द्वारा सुरक्षित स्वीकृति		
ख) अन्य		
कुल		
नोट: एक वर्ष के प्राप्य (due) होनेवाली राशि		

अनुसूची: 7 वर्तमान देनदारियां और प्रावधान

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क. वर्तमान देनदारियां		
1. स्वीकृतियां		
2. विविध (सैंड्री) लेनदार (क्रेडीटर्स)		
अ) सामान के लिए		
आ) अन्य (उप अनुसूची 1)		
3. स्वीकृतियां प्राप्त		
4. प्रोद्युत (accrued) व्याज लेकिन प्राप्य (due) नही	39,778,750.00	13,57,256.00
अ) सुरक्षित ऋण/ उधार		
आ) असुरक्षित ऋण/ उधार		
5. वैधानिक देयताएं		
अ) अतिदेय		
आ) अन्य (उप अनुसूचि 2)		
6. अन्य वर्तमान देनदारियां (उप अनुसूची 3 से 6)		
	5,05,417.00	10,63,683.00
	50,09,713.00	4,15,00,134.00
कुल (क)	**4,52,93,880.00**	**8,23,78,934.00**
ख. प्रावधान		
1. करों के लिए		
2. ग्राच्युएटी		
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन		
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी/दावा		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)	**4,52,93,880.00**	**8,23,78,934.00**

अनुसूची : 5- असुरक्षित ऋण तथा उधार

31.03.2017 के तुलन पत्रक के लिए A से L की अनुसूची
अनुसूची 8 स्थिर परिसंम्पत्तीयां; उप-अनुसूची F-1 चल संपत्तीया

विवरण	घिसावट की दर	01/04/2016 को शेष	अन्य शीर्षों में स्थानांतरण	संवर्धन		अतिरिक्त घिसावट का समायोजन	कुल	मुल्यह्रास का बकाया	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31/03/2017 को शेष
				01/04/2016-30/09/2016	1/10/2016-31/03/2017					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
ए.सी एकक	15%	78,630.94	-	-	-	-	78,630.94		11,794.64	66,836
दृश्य श्रव्य उपस्कर	20%	46,122.21	-	-	-	-	46,122.21		9,224.44	36,898
केसेट	20%	226.34	-	-	-	-	226.34		45.27	181
कम्प्यूटर पेंटेंट स्किम	15%	77,281.30	-	-	-	-	77,281.30		11,592.19	65,689
डेड स्टॉक विद्युट लाईट	15%	1,92,268.44	-	-	-	-	1,92,268.44		31,169.78	161,099
डेड स्टॉक ध्वनी प्रणाली	20%	1,82,176.00	-	-	-	-	1,82,176.00		36,435.20	145,741
विद्युत उपस्कर	15%	2,91,555.49			170,162.00		461,717.49		56,495.47	405,222
विद्युत यंत्र	15%	43,231.55	-	-	-	-	43,231.55		6,484.73	36,747
प्रदर्शन एवं कार्यक्रम संपत्तीयां	20%	878.71	-	-	-	-	878.71		175.74	703
फर्निचर पेंटंट स्किम	10%	2,05,542.00	-	-	-	-	2,05,542.00		20,554.20	184,988
फर्निचर और फिक्श्चर शिल्पग्राम	10%	8,082.18	-	-	-	-	8,082.18		808.22	7,274
फर्निचर और फिक्श्चर	10%	7,72,257.14	-	-	-	-	7,72,257.14		77,225.71	695,031
एल.सी.डी.	15%	9,317.36	-	-	-	-	9,317.36		1397.60	7,920
घास कटाई मशिन	15%	31,067.51	-	-	-	-	31,067.51		5,482.49	25,585
लाईब्ररी की पुस्तके	10%	1,58,602.91		21,850.00	5,048.00		185,500.91		18,297.69	1,67,203
मोबाईल फोन	15%	9,423.64	-	-	-	-	9,432.64		1,414.90	8,018
संगित उपकरण	10%	637.77	-	-	-	-	637.77		63.78	574
कार्यालय उपकरण /डेड स्टॉक	15%	2,85,013.03		45,828.00	25,890.00		356,731.03		51,567.90	305,163

कार्यालय उपकरण कॅमेरा	15%	31,384.68		202,000.00	-		233,384.68		35,007.70	198,377
कार्यालय उपकरण कम्प्यूटर नोट बुक	15%	1,10,250.00	-	-	-	-	1,10,250.00		16,537.50	93,713
कार्यालय उपकरण कम्प्यूटर	15%	4,32,692.75		38,100.00			470,792.25		70,618.91	400,174
कार्यालय उपकरण एच.पी. प्रिंटर	15%	4,990.00	-	-	-	-	4,990.00		748.50	4,242
कार्यालय उपकरण एच.पी. स्कॅनर	15%	14,396.00	-	-	-	-	14,396.00		2,159.40	12,237
कार्यालय उपकरण सुट केस	15%	12,580.00	-	-	-	-	12,580.00		1,887.00	10,693
कार्यालय उपकरण टेलिफोन	15%	5,763.00	-	-	-	-	5,763.00		864.45	4,899
कार्यालय उपकरण टिन बॉक्सेस	15%	8,787.00	-	-	-	-	8,787.50		1,318.13	7,469
कार्यालय उपकरण झेरॉक्स मशिन	15%	1,71,293.00	-	-	-	-	1,71,293.00		25,693.95	145,599
कार्यालय उपकरण- बायोमेट्रीक	15%			20,045.00			20,045.00		3,006.75	17,038
कार्यालय उपकरण EPABX	15%	-	-	-	29,364.00		29,364.00		2,202.30	27,162
कार्यालय उपकरण- Storewell with Glass	15%	-	-	-	25,718.00		25,718.00		1,928.85	23,789
फोटोग्राफी उपकरण	15%	2163.72	-	-	-	-	2163.72		324.56	1,839
उपहार वसुएं	5%	2,67,719.63	-	-	-	-	2,67,719.63		9,330.61	258,389
प्रिंटर पेंटंट स्किम	15%	10,614.38	-	-	-	-	10,614.38		1,592.16	9,022
सोलर लाईट खाता	15%	3,32,804.45	-	-	-	-	3,32,804.45		49,920.67	282,884
सोलर वाटर हीटर सिस्टीम	15%	31,396.96	-	-	-	-	31,396.96		4,709.54	26,867
चाय और कॉफी विक्रय मशीन	15%	12,645.20	-	-	-	-	12,645.20		1,896.78	10,748
वाहन	20%	20,66,880.54	-	-	-	-	20,66,880.54		5,16,720.14	1,550,160
कुल		5908,685.31		327,823.00	256,182.00		6,492,690.31		984,257.33	5,508,433

अचल संम्पतियां

विवरण	घिसावट की दर	01/04/2016 को शेष	अन्य शीर्षो में स्थानांतरण	संवर्धन		अतिरिक्त घिसावट का समायोजन	कुल	मुल्यहास का बकाया	वर्ष के दौरान मूल्यहास	31/03/2016 को शेष
				01/04/2016-30/09/2016	1/10/2016-31/03/2017					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H-J
कला दीर्घा	5%	1,82,086.82	-	-	-	-	1,82,086.82	-	9,104.34	172,982
सरकारी बिल्डींग,महाराष्ट सरकार	5%	1,68,706.13	-	-	-	-	1,68,706.13	-	8,435.31	160,271
भवब एवं सडक	%%	47,48,330.20	-	-	-	-	47,48,330.20	-	237,416.51	4,510,914
कैफेटेरिया का निर्माण	5%	75,803.68	-	-	-	-	75,803.68	-	3,790.18	72,013
क्राफ्ट स्टॉलो का निर्माण	5%	1,54,294.11	-	-	-	-	1,54,294.11	-	7,714.71	146,579
हरित कक्षों का निर्माण	5%	18,04,629.07	-	-	-	-	18,04,629.07	-	90,231.45	1,714,398
डॉर्मेटरी बिल्डींग	5%	124,32,169.44	-	-	-	-	124,32,169.44	-	621,608.47	11,810,561
भूमि और भवन महाराष्ट्र सरकार	0%	75,30,000.00	-	-	-	-	75,30,000.00	-	-	7,530,000
मध्यप्रदेश सरकार की भूमि	0%	4,45,000.00	-	-	-	-	4,45,000.00	-	-	445,000
नाला निर्माण	5%	8,76,464.84	-	-	-	-	8,76,464.84	-	43,823.24	832,642
शिल्पग्राम खजुराहो	5%	81,39,231.31	-	-	-	-	81,39,231.31	-	406,961.57	7,732,270
कुआ और ड्रेनेज	5%	2,53,600.04	-	-	-	-	2,53,600.04	-	12,680.00	240,920
TCC योजना (निर्माणाधीन कार्य)				205,106.00	642,174.00		847,280.00	-	-	847,280
कुल		**3,68,10,315.65**		**205,106.00**	**642,174.00**		**37,657,595.65**	-	**1,441,765.78**	**36,215,830**
कुल चल/अचल परिसंपत्तीयां		**427,19,000.96**		**532,929.00**	**898,356.00**		**44,150,285.96**	--	**2,426,023.11**	**41,724,263**

-बचत खाते में(उप-अनुसूची 2) ख) गैर अनुसूचित बैंको में -चालू खाता -जमा खातों पर -बचत खाते में 5. डाक घर बचात खाते	24,022,530	60,144,415.25
कुल (A)	30,627,588	62,687,393.25
B ऋण ,आग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां **1. ऋण** a) कर्मचारी (त्यौहार तथा अस्थायी ऋण+ चिकित्सा)	1,37,907	197,676.00
2. वसूलने योग्य आग्रिम तथा अन्य राशी जो रोकड तथा वस्तु के रुप में प्राप्त करनी हो a) पूंजीगत लेखों पर b) पूर्व भुगतान कर्मचारी को व्यय हेतु आग्रिम (उप अनुसूची(4+5+6) माल तथा सेवाओं के पूर्ती कर्ता को अग्रिम(उप अनुसूचि 7) उपयोगिता जमा (उप अनुसूची-9) c) अन्य नामें शेष(उप अनुसूची -9)	1,904,891 2,743,510	2,045,048.00 2,718,058.00
3. अर्जित आय a) निर्धारित निवेश/ एंडोमेंट निधीयों पर b) अन्य निवेश पर(उप अनुसूची 10) c) ऋण तथा आग्रिमों पर d) अन्य (अनुदान आदि.)(अप्राप्त आय सम्मिलित)	408,448 416,607	3,76,892.00 915,621.00
4. **दावा प्राप्य (Claims receivables)**	2,149,159	530,060.00
कुल (B)	8,376,351	7,328,174.10
कुल (A+B)	39,003,940	7,00,15,567.35

अनुसूची 9 - निर्धारित निवेश / एन्डोवमेंट

विवरण		वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		-
2.	अन्य अनुमोदित/स्वीकृत प्रतिभूतियां		-
3.	शेअर्स		-
4.	डिबेंचर्स तथा बॉण्ड्स		-
5.	सहायक और संयुक्त उपक्रम		-
6.	अन्य (उल्लेखित करे)		-
	कुल		-

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य

विवरण		वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित/स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3.	शेअर्स		0.00
4.	डिबेंचर्स तथा बॉण्ड्स		
5.	सहायक और संयुक्त उपक्रम		
6.	अन्य (उल्लेखित करे)	299,013,000	297,200,000.00
	कुल	299,013,000	297,200,000.00

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, आग्रिम आदि.

विवरण		वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
A वर्तमान परिसंपत्तियॉ			
1.	वस्तु -सूची		
क)	भांडार और पुर्जो		
ख)	फुटकर औजार(लूज टूल्स)		
ग)	बिक्री माल (स्टॉक इन ट्रेड)		
निर्मित माल			
निर्माणधीन उत्पादन			
कच्चा माल			
2.	विविध देनदार (सैंड्री डेटर्स)		
क)	छह माह से अधिक की अवधी के लिए बकाया ऋण		
ख)	अन्य (उप अनुसूची 8)	6,598,051	2,495,476.00
3.	नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)	7,007	
4.	बैंक शेष		47,502.00
क)	अधिसूचित बैंको में		
-चालू खाता(कॅनरा बैंक, खजुराहों)		0	0.00
-जमा खातों पर (मार्जिन राशि के साथ)			

31.03.2016 के तुलन पत्र के लिए सूची की उप अनुसूची

देयताओं की उप अनुसूची

उप अनुसूची -1 सैंड्री क्रेडिटर्स & अन्य क्रेडीट शेष

अनुसूची 7.2 का भाग

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
भारत सिक्युरिटी एजंसी	-	22,635
मे. कलोती सिक्युरिटी एजंसी	159,754	87,870.00
युनिवर्सल फॅसिलिटीज तथा मॅनेजमेंट सर्विसेज	127,180	438,600.00
आर.सी. बग्गा	40,000	80,000.00
निदेशक ई.सी.सी.सी.झेड, कोलकता	-	99,500.00
ग्लोबल टूर्स एंड ट्रवेल्स	-	17,782.00
कार्यक्रम व्यय हेतु कर्मीयों को देय	34,**195**	9,842.00
कर्मीयों को यात्रा व्यय देय	41,955	143,502.00
GSLI दावा प्राप्त	74,502	74,502.00
स्टेट धनादेश (स्टेट चेक्स)	-	383,023.00
आमदार निवास कर्मचारी ग्रा.सहकारी संस्था	590,750	-
ॲडमास ॲड्वरटाईजमेंट	300,000	-
अलका पांडे	93,181	-
अमिर खान (सरोद वादन)	25,000	-
अर्जून चव्हाण	280,000	-
कला दिर्घा भाडा देय	9,219,704	-
असोसिएशन ला बोल्टे ए सेल फ्रांस	68,800	-
महानिदेशक लेखापरीक्षा(सांस्कृ.) को लेखापरीक्षा शुल्क देय	589,305	-
बजानिया (सूर्य प्रकाश गुरु संबलपूर)	94,450	-
ब्लॅक डायमंड रेस्टारेंट & कॅटरर्स	454,214	-
भावना टेंट & डेकोरेशन	128743	-
कॅरामल बिल्डर्स & फायब्रोटेक इं.प्रा.लि.	627,795	-
सेंट्रम इंडिया टेलिविजन (CITV)	4,768	-
दिलिप कुमार पेंटू हैद्राबाद	399,960	-
मे. डी.के. क्रेंस, नागपुर	379,577	-
मे. राज विडीयो शुटींग & फोटोग्राफी	77,500	-
बिजली प्रभार देय	73,281	-
हॉटेल हेरिटेज 2001	13,621	-
हॉटेल सुरभी इंटरनॅशनल, सारनाथ	85,000	-
इनोवेटर्स नागपुर	727	-
जना कलेक्टीव्ज, नई दिल्ली	400,000	-
केदार गोखले & कंपनी	45,800	-
मे. कनकश्री सर्विसेस, नई दिल्ली	2,850,000	-
व्यय के लिए देयताएं	10,241,146	-
LIC प्रिमियम देय	21,442	-
मिरा कुरम	145,000	-

मुल्क राज	22,500	-
म्युझिक ब्रोडकास्ट प्रा.लि.	4,979	-
नाईक आर्ट रिसर्च सेंटर (प्रो. अजय नगराळे)	240,000	-
समाचार पत्र और नियतकालिकाए	2,000	-
मे. प्रमोशंस	111,490	-
टेलिफोन व्यय हेतु प्रावधान	16,517	-
रिलाएबल आटोमेशन	6,890	-
रिया फ्लॉवर्स लेखा	2,550	-
वेतन तथा मजदूरी देय	7,724	-
सप्तर्षी सांस्कृतिक लोककला अकादमी(श्रीमती रंजू देवी)	94,725	-
शिवम गेस्ट हाउस, सारनाथ	205,500	-
श्री साई कॅटरर्स	820	-
श्री प्रल्हाद टिपनिया	155,000	-
सलिम शेख	3,000	-
शाम डेकोरेशन वर्क्स	5,748,382	-
सोनम आंबे	80,000	-
विभा प्रेस प्रा. लि. नई दिल्ली	205,000	-
विजय डेकोरेश वर्क्स, नागपुर	39,690	-
विनिता डोहारे सागर	74,425	-
वंदना दत्ता	11,750	-
ग्रेस ईवेंट & एंटरटेनमेंट लेखा	10,648	-
ग्रेड 1 सिक्यूरीटी फोर्स, नागपुर	141,475	-
जय हिंद पेस्ट कंट्रोल	7,777	-
नॅशनल को.-ऑप. फेडरेशन ऑफ इंडीया लि.	19,646	-
प्रदिप पेंटस् अँड हार्डवेयर	152,742	-
प्रोसाउंड लाईट & साउंड	112,700	-
कर्नाटक सरकार, सांस्कृतिक विभाग	2,410,361	-
निदेशक राष्ट्रीय नाट्य शाला	750,000	-
निदेशक साहित्य अकादमी	501,333	-
कुल- अनुसूची 7 की उप अनुसूची 1	**39,778,750**	**1,357,256.00**

उप अनुसूची - '2' अनुसूची 7 वैधानिक देयताएं

विवरण	**राशी (रु.) 31.03.2017**	**राशी (रु.) 31.03.2016**
सी.पी.एफ अंशदान देय	93,149	76,778.00
जी.आय.एस. अभिदान लेखा	60	540.0
जी.पी.एफ. अभिदान देय	14,998	175,009.00
जी.एस.एल.आय. प्रिमियम देय	1,887	1,887.00
छुटी वेतन/पेंशन देय	391,123	777,973.00
व्यावसायिक कर देय	4,200	4,100
अन्य वसूली लेखा	-	27,396.00
कुल -उप अनुसूची 2 अनुसूची 7	**505,417**	**10,63,683.00**

उप अनुसूची - '3' व्यय के लिए देयताएं

अनुसूची 7

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
वेतन तथा मजदूरी देय	-	15,724.00
ॲडमास ॲडव्हरटाजिंग	-	1,026,435.00
आर्ट गॅलरी भाडा देय	-	8,500,000.00
अमित टेंट हाउस	-	100,880.00
लेखापरीक्षा शुल्क देय	-	186,701.00
DGA (C) मुंबई को लेखापरीक्षा शुल्क देय	-	290,605.00
बियॉन्ड ट्रेंड, हैद्राबाद	-	32,802.00
सेंट्रल इंडीया टेलिविजन	-	79,592.00
ईस्टर्न झोनल कल्चरल सेंटर	-	474,832.00
विद्युत प्रभार देय	-	110,220.00
फेअर ऑफसेट	-	18,980.00
गफुर खान बझार	-	9,000.00
गितिका अरोरा	-	14,000.00
गिरिसन्स बॉम्बे डाईग	-	76,838.00
गोलमार्ट पब्लिसिटी	-	54,767.00
गोपिका वर्मा	-	45,000.00
गुरु शिष्य परंपरा देय	-	17,250.00
हॉटेल हेरिटेज	-	17,981.00
इनोवेटर्स नागपुर	-	284,090.00
जोग हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि.	-	15,943.00
ज्योती हेडगे	-	36,000.00
केदार गोखले & कंपनी	-	45,800
खंडेलवाल ट्रावेल्स	-	71,072
कोमल पब्लिसिटी & एंटरटेनमेंट	-	45,863.00
व्यय के लिए देयताएं	-	2,146,803.00
L.I.C.प्रिमियम देय	-	24,622.00
लक्ष्मी टेंट खजुराहो	-	43,598.00
मंग्रुसियन मरारी	-	107,700.00
मनिषा ट्रावेल्स	-	42,844.00
एम.पी. स्टेट टूरिझम	-	48,550.00
श्रीमती अर्चना सप्रे	-	42,750.00
नितिन सचदेवा & कंपनी	-	39,275.00
मुकेश दरबार	-	80,000.00
मुल्ख राज लेखा	-	22,500.00
म्युझिक ब्रॉडकास्ट प्रा.लि.	-	4,979.00
नरेन करमरकर	-	82,586.00
समाचार पत्र तथा नियतकालिकाएं देय राशी	-	2,385.00
ओशन टूर्स & ट्रावेल्स	-	42,822.00
पंकज ॲडव्हरटाईजिंग ग्वालियर	-	63,965.000

पिनाज मसानी	-	160,819.00
परफेक्ट ओक्टीव मिडीया	-	44,880.00
पूजा कामद	-	99,996.00
रेनबो सोसायटी जयपुर	-	25,000.00
टेलिफोन व्यय के लिए प्रावधान	-	18,460.00
रामिंदर खुराणा	-	60,000.00
रामाजोगा राव	-	135,825.0
रिलाएबल ऑटोमेशन	-	449,332.00
ऋतुराज मोरे साउंड सिस्टीम	-	160,900.00
रिया फ्लॉवर्स लेखा	-	3,650.00
श्री गोपाल सिंह गोंड	-	87,950.00
श्याम डेकोरेशन वर्क्स	-	5,163,183.00
श्याम मॅजिशियन	-	5,000.00
श्याम टूरिस्ट दिल्ली	-	15,225.00
श्रीमती कोमकली कलापनी	-	63,000.00
श्रीमती मालिनी अवस्थी	-	180,000.00
श्रीमती ललिता कुमारी	-	10,000.00
श्रीमती रिम्पा शिवा	-	54,007.00
स्टेट गॅलरी ओफ आर्ट		120,000.00
सुबोध परमानिक		89,400.00
सुषमा बहल		80,000.00
तानसेन रेसिडेंसी		18,717.00
ट्रावेल लिंक्स		1,836.00
वानकर कनबाई पूनम		14,800.00
वेदापल्ली श्रीनिवास		109,200.00
पानी बिल देय		1,516.00
उदय अनंत डावल		16,528.00
यात्रा रिसोर्सेस		44,750.00
कुल-3 अनुसूची 7		**21,599,728.00**

अनुसूची 7 की उप अनुसूची - 4 : सिक्युरिटी जमा

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
आर्ट गॅलरी के लिए सिक्युरिटी जमा आर्ट गॅलरी	10,000.00	10,000.00
कॅटरींग के लिए सिक्युरिटी जमा- अमोल कॅटरर्स	250,000.00	250,000.00
CCTV के लिए सिक्युरिटी जमा(OCCM)	3,000	3000.00
बोर्डीग राईट्स,नागपुर के लिए सिक्युरिटी जमा	50,000	50,000.00
ग्रीन रुम निर्माण के लिए सिक्युरिटी जमा	-	48,603.00
बगिचा रखरखाव के लिए सिक्युरिटी जमा	5,000	5,000.00
कलोती सिक्युरिटी सर्विसेस सिक्युरिटी जमा	25,000	25,000.00
शिल्पग्राम डेकोरेशन सिक्युरिटी जमा	200,000	20,000.00
शिल्पग्राम डेकोरेशन ध्वनी &प्रकाश हेतु	25,000	25,000.00
शाम डेकोरेशन सिक्युरिटी जमा	350,000	350,000.00
सॉफ्टेक कम्प्यूटर्स सिक्युरिटी जमा	15,000	15,000.00
स्टेशनरी सिक्युरिटी जमा	20,000	5000.00
खुला मंच सिक्युरिटी जमा	364,248	20,000.00
लॉन/हॉल/ओपीटी/डोर्मेटरी के लिए सिक्युरिटी जमा		307,948.00
प्रिंटींग के लिए सिक्युरिटी जमा - इनोवेटीव	25,000	25,000.00
विडीओग्राफी सिक्युरिटी जमा	2,000	2,000.00
कॅफेटेरिया नागपुर सिक्युरिटी जमा	300,000	300,000.00
प्रलेखन (Documentation) सिक्युरिटी जमा	5,000	5,000.00
युनिवर्सल सेवाएं सिक्युरिटी जमा	50,000	50,000.00
नंदा पब्लिसिटी	20,000	-
प्रदीप अॅडव्हरटाईजिंग एजंसी	10,000	-
राजकामे मिडीया वेव्हस प्रा. लि.	10,000	-
चंद्रदीप टूर्स & ट्रावेल्स	10,000	-
ग्रेड 1 सिक्यूरिटी फोर्स	50,000	-
वाहन के लिए निविदा	5,000	-
आर्ट गॅलरी के लिए जमा	2,000	-
साईन पोस्ट इंडीया प्रा.लि. EMD	20,000	-
कुल -4	**1,836,248**	**1,696,551.00**

उप अनुसूची 5 शुल्क तथा कर (Duties & Taxes)

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
सेवा कर देय	-	281,182.00
TDS 92 A (वेतन पर देय)	52,497	3,090.00
TDS 94 C देय	47,498	240,360.00
TDS 94 J (Prof) देय	37,778	262,250.00
TDS/आय कर देय	222,289	223,170.00
कुल- उप अनुसूची -5- अनुसूची 7	**360,062**	**1,010,052.00**

अनुसूची 7 की उप-अनुसूची '6' अ-व्यय अनुदान (Unspent Grant)

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
अ-व्यय अनुदान (Unspent Grant) ZCC (NCEP)	**-**	**41,638,375.00**
अ-व्यय अनुदान (Unspent Grant) उत्तर पूर्व कार्यकलाप (activity)	**2,813,403**	**14,013,289.00**
कुल सूची 7 की उप अनुसूची 6	**2,813,403**	**55,651,664.00**
कुल – उप अनुसूची 3 से 6 - अनुसूची 7	**5,009,713**	**79,957,995.00**

31.03.2017 के तुलन पत्र के लिए सूची की उप अनुसूची – संपत्तीयां

उप अनुसूची '7' निवेश तथा जमा

विवरण	**राशी (रु.) 31.03.2017**	**राशी (रु.) 31.03.2016**
मियादी जमा - ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2,500,000	2,500,000.00
मियादी जमा -बैंक ऑफ बडौदा	34,343,000	8,260,000.00
मियादी जमा -स्टेट बैंक ऑफ इंडीया	12,600,000	30,804,000.00
मियादी जमा - कॅनरा बैंक	-	33,000,000.00
आर.बी.आय बॉण्ड्स- कॉरपस फंड	96,166,000	30,166,000.00
लॉग टर्म फिक्सड डिपॉझिट- स्टेट बैंकऑफ इंडीया	-	2,200,000.00
स्टेट बैंक ऑफ पतियाला	62,404,000	182,570,000.0
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	-	7,700,000.00
शॉर्ट टर्म डिपाझिट (अलाहाबाद बैंक)	-	-
अलाहाबाद बैंक - कॉर्पस	91,000,000	-
कुल	**299,013,000.00**	**297,200,000.00**

अनुसूची 11 की उप अनुसूची '1' विविध देनदार तथा अन्य नामे शेष (Sundry Debtors & other Debit Balances)

विवरण	**राशी (रु.) 31.03.2017**	**राशी (रु.) 31.03.2016**
विविध देनदार :		
निदेशक(NCZCC अलाहाबाद	1,451,191	-
अनुदान प्राप्तकर्ता TPS	332,942	-
अनुदान प्राप्तकर्ता क्षित्रीय सांस्कृ. केंद्र	2,318,442	-
अनुदान प्राप्तकर्ता - गांधी शिल्प बजार	695,476	695,476.00
अनुदान प्राप्तकर्ता - पेंशन योजना	1,800,000	1,800,000.00
कुल,	**6,598,051**	**2,495,476.00**

अनुसूची 11 की उप अनुसूची '2' बैंक खाता

विवरण	**राशी (रु.) 31.03.2017**	**राशी (रु.) 31.03.2015**
बैंक शेष :		
बैंक ऑफ बडोदा - FFD	2,010,777	12,865,777.00
बैंक ऑफ बडोदा - बचत खाता	(674,066)	(1,764,474.29)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र बचत	21,917,364	10,147,917.83
कैनरा बैंक नागपुर	(274,740)	1,104,444.00
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	800,539	575,188.90
स्टेट बैंक ऑफ इंडीया -बचत	212,274	2,204,034.91
लघू सावधी जमा	-	35,000,000.00
कॅनरा बैंक खजुराहो	30,382	11,526.90
कुल	**24,022,530**	**60,144,415.25**

उप अनुसूची 3 अनुसूची "11" कर्मचारीयों को अग्रिम

Advances to Staff

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
3. सूचीनुसार कर्मचारीयों को अग्रिम	137,907	187,226.00
कुल	**137,907**	**187,226.00**

उप अनुसूची 4 अनुसूची "11" कर्मचारीयों को कार्यक्रम हेतु अग्रिम

Advances to Staff for programme

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
सूचीनुसार	1,305,857	1,838,284.00
कुल	1,305,857	1,838,284.00

उप अनुसूची 5 अनुसूची "11" कर्मचारीयों को यात्रा हेतु अग्रिम

Travelling Advances to Staff

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
सूचीनुसार	5,79,143	171,905.00
कुल	**5,79,143**	**171,905.00**

उप अनुसूची 6 अनुसूची "11" कर्मचारीयों को अग्रदाय (हेतु अग्रिम)

Imprest Advances to Staff

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
सूचीनुसार	19,891.00	34,589.00
कुल	**19,891.00**	**34,589.00**

उप अनुसूची 7 अनुसूची "11" अन्य वस्तुएं तथा सेवाओं के लिए अग्रिम

Advances to others for Goods and services

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
अमोल कॅटरर्स	5,00,406.00	5,00,406.00
डॉ. सेनगुप्ता खाता अग्रिम	19,850.00	19,850.00
कपुरचंद खाते में अग्रिम	26,000.00	26,000.00
शाहीन कारवान खाते में अग्रिम	21,000.00	21,000.00
सुरेंद्र चेदाम अग्रिम खाता	5,000.00	5,000.00
पी.एल.देशपांडे अकादमी अग्रिम	3,371.00	3,371.00
शंकर बंगासकर खाता आग्रिम	30,000.00	30,000.00
बुद्ध महोत्सक अग्रिम खाता	30,000.00	30,000.00
सी.पी.डब्ल्यू डी.नागपुर को अग्रिम(कार्य हेतु)	2,045,531.00	2,045,531.00
धीशाराम जोशी	6,900.00	6,900.00
ईश्वर श्रीराम (यात्रा भाता प्राप्य)	25,452.00	-
जेनेफर मडेरा अग्रिम लेखा	30,000	3,0000.00
कुल -	**2,743,510.00**	**2,718,058.00**

अनुसूची 11 की उप अनुसूची "8" उपयोगिता जमा Utility Deposits

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
एच.पी.गॅस डोमेस्टिक सर्विसेज के साथ जमा	2,900	2,900.00
सुरक्षा गार्ड हेतु (house-keeping) प्रतिभूति जमा (OCCM)	2,000	2,000.00
K.S.R.T.C होस्पेट (कर्नाटक राज्य. रोड ट्रा. कॉर्पो.)	15,848	15,848.00
म.प्र. विद्युत बोर्ड	9,050	9,050.00
म.रा. विद्युत बोर्ड	70,950	40,160.00
समूह ग्राच्युएटी प्रिमियम एल.आय.सी. पूर्वसंदत्त (prepaid)	2,17,000	2,17,000.00
पूर्वसंदत्त बीमा	51,500	36,684.00
प्रतिभुति जमा- स्पॅन्को	-	16,550.00
टेलिफोन जमा	26,200	26,200.00
पानी हेतु जमा (वाटर डिपोझिट)	10,000	10,000.00
प्रतिभुति जमा (BSNL)	3,000	500.00
कुल	**408,448**	**3,76,892.00**

अनुसूची 11 की उप अनुसूची "9" अन्य नामे शेष Other Debit Balances

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
टेलिफोन चार्जेस रिसीवेबल	51,111	51,111.00
जी.पी.एफ अंशदान लेखा	4,998	4,998.00
न्याप्रविष्ठ प्रकरणों हेतु देय राशि	21,868	21,868.00
ए.एस. पद्मनाभ	89,690	89,690.00
शिल्पग्राम सेल्स इंपोरियम	1,91,204	3,91,204.00
यशवंत सरदेशपांडे	-	6,750.00
लिला मिडीया कॉरपोरेशन	-	3,50,000.00
NIFT मुंबई	1,927	-
KKC	53,636.02	-
सेवा कर	2,173.25	-
कुल नामे शेष (A+B)	**416,607.27**	**915,621.00**

अनुसूची 11 की उप अनुसूची 10 निवेश पर प्रोद्वन ब्याज (Interest accrued on Investment)

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
ब्याज अर्जित परंतु देय नही (Interest accrued but not due)	2,149,159.00	3,908,807.81
कुल	**2,149,159.00**	**3,908,807.81**

अनुसूची 11 की उप अनुसूची 11 दावा प्राप्तियों (Claims Receivables)

विवरण	राशी (रु.) 31.03.2017	राशी (रु.) 31.03.2016
आय के स्त्रोत पर कटौती की प्राप्तियां TDS Receivable A/c	144,332.00	73,322.00
आय कर की वापसी / प्राप्तियां	471,497.10	471,497.10
कुल	**615,829.10**	**544,819.10**

अनुसूची-11 की उप अनुसूची - 3: अग्रिम

अग्रिम	**राशी**	**राशी**
अनिल ठाकरे - त्यौहार अग्रिम	2,500	
भुपेंद्र सिंह त्यौहार अग्रिम	2,500	
दंदे त्यौहार अग्रिम	2,500	
धाबेकर त्यौहार अग्रिम	2,500	
दिपक पाटील त्यौहार अग्रिम	2,500	
गजानन शेल्के त्यौहार अग्रिम	2,500	
गणवीर त्यौहार अग्रिम	2,500	
ईश्वर श्रीरामे- त्यौहार अग्रिम	2,500	
जाधव त्यौहार अग्रिम	2,500	
कर्मचारीयों को चिकित्सा अग्रिम	20,000	
मूलचंद खुशवाह त्यौहार अग्रिम	2,500	
पांडे त्यौहार अग्रिम	2,500	
पुनवानी त्यौहार अग्रिम	2,500	
शेंडे त्यौहार अग्रिम	2,500	
श्रीवास्तव त्यौहार अग्रिम	2,500	
श्रीमती यु.वी इंदुरकर त्यौहार अग्रिम	2,500	
ईश्वर श्रीरामे को अस्थाई अग्रिम	15,000	
अनिल खंडागले को अस्थाई अग्रिम लेखा	6,000	
बी शेंडे को अस्थाई अग्रिम लेखा	6,250	
जी.एन. थोरात को अस्थाई अग्रिम	26,672	
दिनकर धाबेकर को अस्थाई अग्रिम	1,979	
उज्वला इंदुरकर को अस्थाई अग्रिम	25,006	
	137,907.00	

अनुसूची 11 की उप अनुसूची 3 अग्रिम

यात्रा अग्रिम	**राशी**	**राशी**
बेतावार - यात्रा अग्रिम	37,498	
दंदे - यात्रा अग्रिम	10,500	
दिपक पाटील - यात्रा अग्रिम	64,254	
डॉ. पियूष - यात्रा अग्रिम	150,992	
डॉ. सजथ इ.एन. - यात्रा अग्रिम	66,139	
इंदुरकर - यात्रा अग्रिम	-	
ईश्वर श्रीरामे - यात्रा अग्रिम	1,148	
जाधव - यात्रा अग्रिम	5,679	5,145.00
खंडागळे - यात्रा अग्रिम	8,000	
कोचे - यात्रा अग्रिम	-	
कुलकर्णी - यात्रा अग्रिम	-	
प्रजापती - यात्रा अग्रिम	25,051	
राव - यात्रा अग्रिम	7,771	3,67.00
शेल्के - यात्रा अग्रिम	-	24,237.00
शेंडे - यात्रा अग्रिम	18,000	-
सिंगल - यात्रा अग्रिम	55,473	-
एस.जे.पाटील - यात्रा अग्रिम	6,000	1,824.00
सोनपिपरे- यात्रा अग्रिम	6,477	-
ठाकरे - यात्रा अग्रिम	-	-
थोरात - यात्रा अग्रिम	53,199	-
तिवारी - यात्रा अग्रिम	58,996	-
वानखेडे - यात्रा अग्रिम	3,966	7,079.00
कुल - A	**579,143**	**41,955.00**

अनुसूची 11 की उप अनुसूची 4: अग्रिम

कार्यक्रम अग्रिम	**राशी**	**राशी**
बेतावार - कार्यक्रम अग्रिम	1,058,153	
दंडे - कार्यक्रम अग्रिम	11,980	
दीपक पाटिल - कार्यक्रम अग्रिम		15,499.00
धाबेकर - कार्यक्रम अग्रिम		
ईश्वर श्रीरामे - कार्यक्रम अग्रिम	4,155	
खंडागले - कार्यक्रम अग्रिम		5,000.00
खोचे - कार्यक्रम अग्रिम	34,098	
कुलकर्णी - कार्यक्रम अग्रिम		
मुकुलचंद - कार्यक्रम अग्रिम	20.000	1,320.00
प्रजापती - कार्यक्रम अग्रिम	133,452	
सोनपिपरे - कार्यक्रम अग्रिम	990	
ठाकरे - कार्यक्रम अग्रिम		12,376.00
थोरात - कार्यक्रम अग्रिम	18,893	
तिवारी - कार्यक्रम अग्रिम	8,405	
वानखेड़े - कार्यक्रम अग्रिम	10,731	
कुल B	**1,305,857**	**34,195.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा की अनुसूची

अनुसूची 12 - बिक्री तथा सेवाओ से आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. बिक्री से आय		
a) तैयार माल की बिक्री		-
b) कच्चे माल की बिक्री		-
c) स्क्रेप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		-
a) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		-
b) पेशेवर/ पराअमर्श सेवाएं		-
c) एजंसी कमीशन और ब्रोकरेज		-
d) रखरखाव सेवाएं		
e) अन्य (उल्लेख करें) उप-अनुसूची -1)	0.00	15,193,210.00
कुल	**0.00**	**15,193,210.00**

अनुसूची 13 - अनुदान/ सहयिकी (Subsidy)	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
(स्थिर अनुदान तथा सब्सिडी प्राप्त)		
1.केंद्र सरकार - संदर्भ अनुदान के अनुलग्नक	114,332,645	5,993,499.00
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजंसियां		
4. संस्थएं/कल्याणकारी निकायों -पेंशन योजनाओं के लिए अनुदान		
5. आंतरराष्ट्रीय संघटन		
6. अन्य (उल्लेखित करें)(प्रायोजित अनुदान (उप अनुसूची- (अनुलग्नक-6)	8,785,000	72,567,064

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान (सदस्यता (subscriptions)	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क- उप- अनुसूची -1	318,950	552,350.00
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श सेवाएं (फिस)		
5. प्रवेश पासेस तथा प्रवेश टिकट उप अनुसूची 2	736,300	1,811,760.00
कुल	**1,055,250**	**2,364,110.00**
नोट:प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नितीयों का खुलासा किया गया		

अनुसूची 15 - निवेश से आय विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज		
a) सरकारी प्रतिभूतियों पर		
b) अन्य बॉण्ड्स/ डिबेंचर्स		
2. लाभांश		
a) शअर्स पर		
b) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3. भाडा (किराया)		
4. अन्य (उल्लेखित करें)		
कुल		

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय (उप अनुसूची -15)	12	00	15,193,210.00
अनुदान /सहायिकी (Annexure Grant)			
शुल्क/अंशदान (उप अनुसूची 26) (निवेश से आय	13	123,117,645	78,560,563.00
(उद्दिष्टीत/ एंडोवमेंट निधी से निधी को हस्तांतरीत	14	1,055,250	2,364,110.00
कर निवेश से आय)	15		
रॉयल्टी, प्रकाशन ई. से आय			
ब्याज की प्राप्ती (उप अनुसूची 17)	16		
अन्य आय (उप अनुसूची 18)	17	29,259,457	28,261,406.00
निर्मित माल / प्रगति पर कार्य के माल स्टॉक में	18	17,292,915	2,376,229.00
बढोतरी/ (कमी)	19		
कुल (A)		**170,725,267**	**126,755,518.00**
व्यय			
आस्थापना व्यय	20	17,825,612	17,955,362.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि.	21	11,264,370	14,322,675.00
अनुदान, सहायिकी इ. पर व्यय	22		
ब्याज	23		
नियमित कार्यक्रम पर व्यय	24	72,577,897	72,567,064.0
विशेष कार्यक्रम पर व्यय	25	59,739,677	5,993,499.00
घिसावट (Depreciation) (अनुसूची 8 के अनुरुप			
वर्ष के अंत में कुल निवल)	26	2,426,023	2,522,422.43
कुल (B)		**163,833,580**	**113,361,022.43**
व्यय पर आय का अधिक होने का शेष Balance being excess of the income over expenditure (A-B)		6,891,688	13,394,495.57
जोडना : प्रारंभिक शेष		23,794,634	14,150,138.74
जोडना : JV मे पारीत तथा समायोजित			
घटाईये: विशेष आरक्षित हेतु स्थानांतरीत((प्रत्येक को उल्लेखित करें)			3,750,000.00
घटाईयें/जोडें: सामान्य आरक्षित को / से स्थानांतरीत			
अधिक्य/(कमी) के शेष से कॉर्पस/ पूजी निधी को अग्रयन (carried)		**30,686,322**	**23,794,634.31**
महत्वपूर्ण लेखा नितियां		**27**	
लेखों संबंधी टिप्पणीया		**28**	

नागपुर :

दिनांक : जुलाई 15, 2017

हस्ता./	हस्ता./	हस्ता./ (केदार गोखले)
वरिष्ठ लेखा तथा प्रशा. अधिकारी	**निदेशक**	**केदार गोखले & कंपनी**
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर	**दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर**	**चार्टर्ड अकाउंटंट**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा की अनुसूची

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन इ. से आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		-
2. प्रकाशन से आय		-
3. अन्य (उल्लेख करें)		-
कुल		

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधी जमा पर :		
a) अनुसूचित बैंक से- उप अनुसूची-1	27,576,712	274,96,413.00
b) गैर-अनुसूचीत बैंक		
c) संस्थाओं में		
d) अन्य		
2. बचत खातों पर		
a) अनुसूचित बैंक से	1,682,745	7,64,993.00
b) गैर-अनुसूचीत बैंक		
c) डाक घर बचत खातों से		
d) अन्य		
3. ऋण पर :		
a) कर्मचारी/स्टाफ		
b) अन्य		
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तीयों पर ब्याज		
कुल	**29,259,457**	**282,61,406.00**
स्त्रोत पर कर की कटौती सूचित करे		

अनुसूची 18 - अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. बिक्री/प्रयोज्य (निपटान योग्य) सम्पत्ती से आय		
a) स्वामित्व संपत्ती (owned assets)		
b) अनुदान से अर्जित सम्पत्ती , या नि:शुल्क प्राप्त		
2. निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्राप्य		
3. अन्य आय - उप अनुसूची-1	17,218,960	2,349,804.00
4. शिल्पग्राम से विविध आय उप अनुसूची-2	73,955	26,425.00
कुल	**17,292,915**	**2,376,229.00**

अनुसूची 19 - तैयार माल तथा प्रगति पर कार्य से स्टॉक में वृद्धी/कमी	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) अंत शेष		
-तैयार माल		-
-प्रगति पर कार्य से		-
b) घटाएं: प्रारंभिक शेष		
- तैयार माल		-
- प्रगति पर कार्य से		-
निवल बढोतरी/ (घटाव) (a-b)		-

अनुसूची 20- स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
वेतन तथा मजदूरी	13,597,929	14,212,621.00
महंगाई भत्ता लेखा	240,100	1,35,729.00
भत्ते तथा बोनस	227,964	84,335.00
बाल शिक्षा भत्ता	138,343	178,532.00
प्राविडंट फंड में अंशदान	1,164,325	1,081,157.00
अन्य निधी में अंशदान (छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान) (उल्लेखित करे)		
छुट्टी वेतन		
कर्मचारी के सेवनिवृत्ती,सेवांत हितलाभ- ग्राच्युएटी प्रिमियम	488,899	777,973.00
पेंशन योजना व्यय	291,000	
वेतन से कटौती	1,315,040	1,057,731.00
अन्य (उल्लेख करें) चिकित्सा प्रतिपूर्ती	25,000	
	337,012	427,284.00
कुल	**17,825,612**	**17,955,362**

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय इ.	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) क्रय		
b) मजदूरी तथ प्रक्रिया व्यय उप अनुसूची -19	3,644,848	21,36,398.00
c) कार्टेज तथा माल आवक पर भाडा		-
d) बिजली तथा पावर	1,030,940	10,26,450.00
e) जल प्रभार	11,723	43,539.00
f) बीमा	52,514	16,154.00
g) मरम्मत तथा रखरखाव -उप अनुसूची -20	2,904,304	41,96,792.00
h) लॉकर भाडा	-	1,254.00
i) भाडा,दर,कर (Rent,Rate,Taxes)	719,704	7,79,728.00
j) वाहन रखरखाव	108,831	1,45,387.00
k) पोस्टेज,टेलिप्जोन तथा संदेशवहन प्रभार-उप अनुसूची 21	383,629	2,87,971.00
l) प्रिंटींग तथा स्टेशनरी	235,317	3,79,177.00
m) यात्रा तथा वाहन व्यय - उप अनुसूची 22	254,486	4,08,836.00
n) प्रोविडंट ब्याज वसूली	-	2,80,312.00
o) पूर्व कालावधी का व्यय	-	17,88,464.00
p) व्यवसाय कर	-	4600.00
q) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	430,124	2,26,480.00
r) व्यवसायिक प्रभार	48,300	1,07,720.00
s) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
t) स्त्रोत से आयकर के कटौती पर ब्याज	60,938	9,74,240.00
u) कार्यक्रम समिती व्यय	-	39,300.0
v) स्वातंत्रता दिवस व्यय	1,000	3,523.00
w) विज्ञापन और प्रचार	183,309	28,143.00
x) अन्य (उल्लेख करें) उप अनुसूची 5	1,194,404	14,52,207.00
कुल	**11,264,370**	**143,22,675.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा की अनुसूची

अनुसूची 22 - अनुदान, सहायिकी (सब्सिडी) इ. पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) नियमित कार्यक्रमों पर व्यय उप अनुसूची 1	-	-
b) विशेष कार्यक्रमों पर व्यय उप अनुसूची 2	-	-
c) थिएटर योजना पर व्यय उप अनुसूची 3	-	-
d) शिल्पग्राम कार्यकलाप उप अनुसूची 4	-	-
कुल	-	-
नोट: संस्था, उनके कार्यकलाप तथा उनके लिए अनुदान/सब्सिडी आदि. का ब्यौरा दें		

अनुसूची 23 - ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) नियत ऋण पर	-	-
b) अन्य ऋण पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
c) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 24 - नियमित कार्यक्रमों पर व्यर	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) NCEP कार्यक्रम पर व्यय उप अनुसूची 1	71,993,552	71,491,642.00
b) रंगमंच कार्यक्रम पर व्यय उप अनुसूची 2	584,345	20,000.00
कुल	**72,577,897**	**71,511,642.00**

अनुसूची 25 - विशेष कार्यक्रमों पर व्यर	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
a) विशेष कार्यक्रम उप अनुसूची 1	59,612,925	5,993,499.00
b) शिल्पग्राम कार्यकलाप उप अनुसूची 2	126,752	1,055,422.00
कुल	**59,739,677**	**7,048,921.00**

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा की अनुसूची

अनुसूची 12 की उप अनुसूची 1 : अन्य आय

विवरण	2016-17	2015-16
24 वां ओसीसीएम (OCCM) क्राफ्ट स्टॉल बुकींग		2,766,000.00
24 वां ओसीसीएम (OCCM) फुड स्टॉल बुकींग		1,656,532.00
IFR विशाखापटनम स्टॉल बुकींग		790,678.00
IFR विशाखापटनम कार्यक्रम प्राप्तीयां		9,990,000.00
कुल	**0.00**	**15,193,210.00**

अनुसूची 14 की उप अनुसूची 1 : प्रवेश शुल्क से आय

विवरण	2016-17	2015-16
कार्यशाला के प्रवेश शुल्क से आय		54,600.00
29th NECA प्रवेश शुल्क		461,500.00
MBKKH प्रवेश शुल्क		12,750.00
प्रवेश शुल्क	318,950.00	23,500.00
कुल	**318,950.00**	**552,350.00**

अनुसूची 14 की उप अनुसूची 2 : प्रवेश शुल्क तथा टिकट से आय

विवरण	2016-17	2015-16
प्रवेश शुल्क	736,300.00	569,950.00
ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला प्रवेश टिकट से आय		1,241,810.00
कुल	**736,300.00**	**1,811,760.00**

अनुसूची 17 की उप अनुसूची 1 : दीर्घकालिक जमा पर ब्याज

विवरण	2016-17	2015-16
दीर्घकालिक जमा पर ब्याज	20,827,407.00	22,583,975.00
भारतीय रिजर्व बैंक बॉण्ड्स (एफ डी आर) पर ब्याज	6,640,722.00	1,688,135.00
लघु अवधि जमा पर ब्याज	318,583.00	3,224,303.00
ब्याज प्राप्य		
कुल	**27,576,712.00**	**27,496,413.00**

अनुसूची 17 की उप अनुसूची 2 : बचत खाते पर ब्याज

विवरण	2016-17	2015-16
बचत खाते पर ब्याज	1,682,745.00	764,993.00
कुल	**1,682,745.00**	**764,993.00**

अनुसूची 18 की उप अनुसूची 1 : परिसर तथा लॉन से प्राप्ती

विवरण	2016-17	2015-16
परिसर तथा लॉन बुकिंग से प्राप्तीयां	1,554,200.00	1,254,755.00
खजुराहों लॉन बुकिंग से प्राप्तीयां	-	80,000.0
कला दिर्घा बुकिंग से प्राप्तीयां	7,500.00	-
कार्यक्रम से प्राप्तीयां	5,36,810.00	-
कार्यालय वाहन की बिक्री	50,786.00	-
अन्य विविध प्राप्ती	302,780.00	489,549.00
28 वा अखिल भारतीय पेंटींग प्रतियोगिता से पेंटींग की वापसी	394,225.00	32,000.00
अन्य रखरखाव प्रभार		
टेंडर फॉर्म की बिक्री	141,500.00	-
कर्नाटक सरकार (होरंडू उत्सव)से निधी	20,500.00	18,500.00
प्रायोजित कार्यक्रम	5,010,730.00	475,000.00
कुल	**17,218,960.00**	**2,349,804.00**

अनुसूची 18 की उप अनुसूची 2 : शिल्पग्राम से आय

विवरण	2016-17	2015-16
शिल्पग्राम विविध प्राप्तीयां	73,955.00	26,425.00
कुल	**73,955.00**	**26,425.00**

अनुसूची 21 की उप अनुसूची 1: मजदूरी तथा बाह्य स्त्रोत (outsourcing) हेतु व्यय

विवरण	2016-17	2015-16
बाह्य स्त्रोत एजंसी को भुगतान	2,684,720.71	1,372,049.00
सुरक्षा रक्षकों को मजदूरी	960,127.19	764,349.00
कुल	**3,644,847.90**	**2,136,398.00**

उप-अनुसूची 2 (शेड्यूल) - अनुसूची 21- मरम्मत और रखरखाव व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रेक्षक दिर्घा (आर्ट गॅलरी) रखरखाव	3,500.00	6,740.00
कैम्पस का सौंदर्यीकरण	43,000.00	7,42,589.00
बगिचा रखरखाव	328,182.00	83,890.00
शिल्पग्राम -भूमी विकास तथा स्थल विकास का	-	-
परीक्षेत्र का रखरखाव	574,126.00	9,80,659.00
कार्यालय भवन/परीक्षेत्र की मरम्मत तथा रखरखाव	617,289.00	17,33,985.00
कार्यालय उपस्कर की मरम्मत तथा रखरखाव	32,113.00	97,792.00
शिल्पग्राम रखरखाव व्यय	834,506.00	5,30,932.00
स्थल विकास और भूमी सौंदर्यीकरण	282,454.00	-
टागोर सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स व्यय	-	-
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का रखरखाव	45,244.00	-
प्रेक्षक दिर्घा (आर्ट गॅलरी) रखरखाव	-	5,870.00
कार्यालय कम्प्यूटर की मरम्मत तथा रखरखाव	102,949.00	8,925.00
कार्यालय वाहन की मरम्मत तथा रखरखाव	40,941.00	5,410.00
कुल	**2,904,304.00**	**41,96,792.00**

उप-अनुसूची 3 (शेड्यूल) - 21-डाक,टेलिफोन और संचार प्रभार

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
डाक व्यय	40,507.00	43,671.00
एस एम एस व्यय	15,000.00	-
टेलिफोन व्यय	316,983.00	2,33,161.00
वेबसाइट व्यय	11,139.00	11,139.00
वाई-फाई व्यय		-
कुल	**383,629.00**	**2,87,971.00**

उप-अनुसूची (शेड्यूल) - 22 - यात्रा तथा वाहन व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थानीक यात्रा		-
यात्रा व्यय	254,486.00	4,04,836.00
कुल	**254,486.00**	**4,04,836.00**

उप-अनुसूची (शेड्यूल) - 23 - अन्य व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
लिवरीज	5,586.00	18,924.00
बैंक प्रभार	103,156.50	48,255.00
बैठक व्यय	825,582.00	11,23,245.00
समाचार पत्र तथा आवधिक (periodicals)	28,596.00	29,170.00
कार्यालय तथा विविध व्यय	61,358.00	1,02,033.00
DPR तैयारी हेतु व्यय		0.00
संम्पत्ती बीमा	11,180.00	
सत्कार व्यय	158,945.00	1,30,580.00
कुल	**1,194,403.50**	**14,52,207.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा के उप-अनुसूची

उप अनुसूची 1 अनुसूची 24 नियमित कार्यक्रमों पर व्यय

A) **NECP कार्यक्रम**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
24 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला नागपुर		10,698,013.00
28 वा ऑल इंडीया कॉन्टेप्री पेंटींग्ज एक्झेबिशन	-	1,325,961.00
29 वां नॅशनल एक्झेबिशन ऑफ कॉन्टेप्री आर्ट		7,299,282.00
शताराम पंत खिरवाडकर संगीत समारोह	-	164,525.00
ऑल वुमन वर्ल्ड फोक आर्ट फेस्टीवल बंगलोर		33,200.00
आंबेडकरी जलसा कार्यक्रम	-	228,000.000
अष्टपहलू कालिदास समारोह	-	55,062.00
बैसाखी महोत्सव जयपुर/नागपुर		14,758.00
बसंत बहार	-	69,500.00
ब्रम्हानंद कार्यक्रम		2,005,120.00
चिखलदरा पर्यटन उत्सव		137,355.00
क्लासिकल डांस प्रोग्राम, नागपुर		20,000.00
समकालिन (contemporary) कला कॅम्प, गुरगाव		14,758.00
कल्चरल ईविनिंग एन ए डी.टी, नागपुर		40,000.00
ओ.एफ.सी. सांस्कृतिक कार्यक्रम		190,000.00
15 अगस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम		10,000.00
डांस जठारे बंगलोर		35,000.00
दस्तावेजी व्यय		668,804.00
डॉ. वसंतराव देशपंडे स्मृती समारोह, नागपुर		2,193,346.00
फोक फेअर, जगन्नाथपुरी लेखा		106,250.00
फोकलोर कार्यक्रम व्यय लेखा		103,640.00
फुड फेस्टीवल, धारवाड		134,961.00
स्थापना दिवस समारोह		40,000.00
गांधी शिल्प बजार नागपुर लेखा		49,290.00
ग्राम महोत्सव, गोठणगाव		192,633.00
गुरुशिश्य परंपरा व्यय		172,500.00
हॅप्पी स्ट्रीट लेझिम डांस लेखा		5,000.00
हिंदी पखवाडा		11,206.00
हिंदू युवजन संगम		278,708.00
आंतरराष्ट्रीय धृपद समारोह		2,282,810.00
इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्हुव विशाखापटनम		9,378,857.00
आंतररष्ट्रीय योग दिवस		87,125.00
जननी संगित महोत्सव		15,000.00
जनभरी नॅशनल थिएटर फेस्टिवल		45,000.00
कबीर महोत्सव		1,283,194.00
काला घोडा महोत्सव, मुंबई		134,900.00
कला महोत्सव, औरंगाबाद व्यय		677,068.00
कॅलिडिओस्कोप लेखा		8,000.00
करवा-ए-अदब (अखिल भारतीय मुशायरा)		751,205.00

लोहा शिल्प कार्यशाला लेखा		4,708.00
लोक कला यात्रा आंध्र में		727,363.00
लोक कला यात्रा बेलगांव (कर्नाटक)		20,000.00
लोक कला यात्रा छित्तिसगढ		286,741.00
लोक कला यात्रा कर्नाटक		861,149.00
लोक कला यात्रा कारवार		774,981.00
लोक कला यात्रा मुलताई		433,535.00
लोक कला यात्रा, सांगली लेखा		8,000.00
लोक कला यात्रा उमरिया		7,547.00
लोक कला यात्रा वरुड		526,900.00
लोक कला यात्रा विदर्भ		526,900.00
लोक रंग उत्सव		390,831.00
लोक रंग महोत्सव भोपाल		108,488.00
लोक सांस्कृतिक संध्या		30,232.00
मां नव चंडिका मेला उत्सव लेखा		244,716.00
महामूर्ख सम्मेलन		583,320.00
मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र दर्शन		3,091,076.00
महाशिवरात्री उत्सव		60,000.00
मेक इन इंडिया, मुंबई		849,514.00
मालवा उत्सव इंदोर		120,000.00
म.प्र. दर्शन महाराष्ट्र में		14,478.00
मुझे भी कुछ कहना है		57,017.00
नॅशनल कल्चरल एक्स्चेंज प्रोग्राम		278,693.00
नॅशनल मास्क डांस & मार्शल आर्ट फेस्ट.लेखा		21,596.00
पोला उत्सव		8,600.00
पोलिस क्रिडा मिट		236,000.00
राजस्थानी लोक गायन		80,000.00
रसभक्ति संगीत शाम		2,000.00
राष्ट्रीय सांस्कृति महोत्सव		4,997,661.00
रस रंग (कव्वाली) 2016 रायपुर		1,313,879.00
गणतंत्र दिवस संचलन (परेड)		6,141,586.00
गणतंत्र दिवस संचलन (परेड) 2015		30,000.00
राज्योत्सव रायपुर (छ.ग.)		18,383.00
राष्ट्रीय भक्ती संगीत समारोह, सेवाग्राम		80,650.00
सांस्कृतिक संध्या नागपुर		165,000.00
शौर्य पर्व, बंगलुरु		274,280.00
रजत जयंती समारोह		3,047,387.00
सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन		60,561.00
स्वच्छ भारत अभियान		300,000.00
स्वर्ण जयंती ग्रामिण रोजगार सांस्कृतिक कार्यक्रम		77,880.00
ताप्ती महोत्सव		98,030.00
ताप्ती महोत्सव		36,640.00
विषयगत (Thematic) प्रदर्शन		58,905.00
आदिवासी फैशन शो		7,071.00
चित्रकारी कार्यशाला, दिल्ली		383,702.00

चित्रकारी प्रशिक्षण पर कार्यशाला - नागपुर		1,088,667.00
वहाडी हास्य सम्मेलन		50,000.00
महिला दिवस समारोह हैद्राबाद		898,822.00
युवा संगीत नृत्य कार्यक्रम नीमच		60,000.00
युवा संगीत प्रतियोगिता लेखा		511,849.00
14 वां फोक फेय्र 2016	154,905.00	
25 वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला 2017	283,820.00	
25 वां वसंतराव देशपांडे स्मृती संगीत समारोह	9,101,176.00	
29 वा नॅशनल एक्झिबिशन ऑफ कंटेंम्प्ररी आर्ट	912,841.00	
द्वितीय आंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट तथा सांस्कृतिक मेला	240,234.00	
गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड की 350 वी वर्षगांठ	25,000.00	
4 वां असम आंतरराष्ट्रीय कृषि पारंपारिक प्रदर्शनी	300,000.00	
अग्नि महोत्सव - पन्ना जिला.	406,465.00	
अमादल्ली जनपद फोक सांस्कृतिक मेला	171,620.00	
आंबेडकरी जलसा कार्यक्रम	300,000.00	
अण्णा भाउ साठे मराठी संगीत कार्यक्रम	330,000.00	
वार्षिक दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम PDACC,मुंबई	15,000.00	
आषाढी एकादशी उत्सव,कोल्हापुर	300,000.00	
बैसाखी महोत्सव जबलपुर/नागपुर लेखा	165,000.00	
ब्रम्हानाद कार्यक्रम, नागपुर	1,732,483.00	
क्लासिकल कार्यक्रम,ड्रॅगन पॅलेस, कामठी	100,000.00	
मिट्टी के बर्तन (clay workshop) कार्यशाला, गडचिरोली	96,285.00	
सांस्कृतिक कार्यक्रम - तेरे नाम का दिवाना	25,000.00	
एन ए डी.टी में सांस्कृतिक कार्यक्रम	171,110.25	
नागपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम	100,000.00	
सांस्कृतिक कार्यक्रम एम.टी.डी.सी खाद्य महोत्सव,नागपुर	75,000.00	
सांस्कृतिक कार्यक्रम ओ.एफ.सी	75,000.00	
दस्तावेज व्यय लेखा	4,752,517.00	
डॉ. वसंतराव देशपांडे युवा संगीत प्रतियोगिता	1,720,447.00	
गुरु-शिष्य परंपरा व्यय	275,130.00	
हिंदी पत्राचार 2016-17	13,100.00	
होरांडू उत्सव अमरकंटक	342,404.00	
होरांडू उत्सव बोधगया (ZCC)	168,875.00	
होरांडू उत्सव सारनाथ झेड सी सी	128,290.00	
भारत आंतरराष्ट्रीय गारमेंट फेअर 2016 नई दिल्ली	85,000.00	
इंद्रधनुष 2016-17	51,000.00	
आंतरराष्ट्रीय धृपद समारोह ग्वालियर	49,422.00	
आंतरराष्ट्रीय सेमिनार अमरकंटक	30,000.00	
कबीर महोत्सव व्यय	9,599.00	
कदम्बोत्सव सिरसी (कर्नाटक)	118,600.00	
काला घोडा महोत्सव, मुंबई	2,400.00	
खार-दुसार प्रतियोगिता	82,667.00	
लोक कला यात्रा गोवा	691,348.00	
महाराष्ट्र में लोक कला यात्रा	691,348.00	
म.प्र.में लोक कला यात्रा	531,679.00	

कर्नूल (आ.प्र.) लोक कला यात्रा	357,336,00	
मेहबूबनगर (तेलंगना राज्य) लोक कला यात्रा	855,299.00	
लोकोत्सव गोवा	297,601.00	
लोकोत्सव सांगली	58,600.00	
मध्य दक्षिणी आर्टीस्ट प्रमोशन कार्यक्रम	150,000.00	
महामूर्ख सम्मेलन, नागपुर	1,086,973.00	
महाराष्ट्र दर्शन मध्य प्रदेश में	10,250.00	
मेक इन इंडीया मुंबई	7,054.00	
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कार्यक्रम, वर्धा	127,680.00	
होरांडू उत्सव मुंबई	200,000.00	
मुझे भी कुछ कहना है	389,501.00	
मैसुर दशाहरा महोत्सव, मैसुर (कर्नाटज राज्य)	327,165.00	
राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, नागपुर	39,158.00	
राष्ट्रीय लोककला महोत्सव (झेड सी सी शिर्ष)	137,775.00	
राष्ट्रीय ट्राईबल संगित/नृत्य महोत्सव, गुब्बी	815,348.00	
नाट्य महोत्सव सिहोर (म.प्र.)	30,000.00	
15 अगस्त2016 सांस्कृतिक कार्य. रायपुर	1,717,469.00	
राज्योत्सव सांस्कृ.कार्यक्रम, रायपुर (सी.जी)	2,058,688.00	
रंग संगीत ध्वनी कार्यशाला	44,695.00	
राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव नई दिल्ली	10,038,744.00	
राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, वाराणसी	1,82,129.00	
गणराज्य दिवस परेड समारोह 2016 मेला,	253,771.00	
गणराज्य दिवस परेड समारोह 2017	7,676,26.00	
सांजा लोकोत्सव उज्जैन	235,67300	
संविधान दिवस	3,335.00	
शगुन- निर्गुन सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्धा	100,000.00	
शिल्पग्राम दशहरा मेला 2016, हैद्राबाद	308,840.00	
शौर्य पर्व बंगलूरु	110,620.00	
श्रावणसरी चित्रकारी प्रशिक्षण कार्यशाला	941,321.00	
सृजन 2016 (पेंटींग प्रदर्शनी)	125,000.00	
स्टोन कार्विंग कार्यशाला उदयपुर	2,685,645.00	
स्टोन स्कल्पचर कैम्प, नागपुर	11,21,113.00	
स्वच्छता अभियान	810.00	
स्वच्छ भारत अभियान, भिवंडी (म.रा.)	4,360.00	
स्वर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नागपुर	50,000.00	
परंपरागत हट कार्यशाला, नागपुर	25,100.00	
आदिवासी फैशन शो मुंबई	1,183,903.00	
आदिवासी तथा लोक कला चित्रकारी कार्यशाला, चंडीगढ	59,000.00	
उस्ताद गणपतराव कवठेकर स्मृती महोत्सव,मिरज	100,000.00	
विश्व लोक-साहित्य दिवस	219,605.00	
विश्व पर्यटन दिवस	1,300,000.00	
झेड सी सी दिवार चित्रकारी कार्यशाला दिल्ली		440,000.00
कुल (A)	**71,993,552.25**	**71,491,642.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31/03/2017 के लिए आय एवं व्यय लेखा की उप अनुसूची

उप अनुसूची 2 अनुसूची 24 नियमित कार्यक्रमों पर व्यय

B) रंगमंच योजना

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
लोक नाट्य पर शिबिर अकोला लेखा		-
राष्ट्रीय खान महोत्सव, जबलपुर लेखा		-
राष्ट्रीय नाट्य समारोह लेखा		-
राष्ट्रीय नाट्य शाला महोत्सव, नासिक		-
रोटी वाली गली रंगमंच शो		20,000.00
फ्रेंच नाटक शो नागपुर	249513.00	
गोवा नाट्य उत्सव	196968.00	
राष्ट्रीय रंगमंच समारोह, गुब्बी (कर्नाटक राज्य)	137864.00	
कुल (B)	**584,345.00**	**20,000.00**

उप अनुसूची 1 अनुसूची 25 विशेष कार्यक्रमों पर व्यय

A) विशेष कार्यक्रम

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
24 वा ऑरेंजसिटी क्राफ्ट मेला (NEA कार्यक्रम)		231,080.00
अखिल भारतीय शिल्प मेला		435,027.00
भारत लोकरंग महोत्सव		474,832.00
दशहरा महोत्सव, छत्तीसगड.		526,658.00
ड्रम्स ऑफ इंडीय, रामनगर		654,622.00
लोक कला यात्रा NEA		32,060.00
लोक कला यात्रा मुलताई		108,024.00
लोक कला यात्रा मोर्शी		108,025
मंडई महोत्सव		96,776.00
उत्तर पूर्व कार्यकलाप/ हस्तशिल्प ग्राम बंगलोर		141,800.00
पचमढी महोत्सव		126,161.00
सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम		454,167.00
शौर्य पर्व बंगलोर		180,217.00
उत्कल बंगला उत्सव		174,050.00
दस्तावेजी व्यय लेखा सिंहस्थ कुंभ मेला	4,078,311.00	
होरंडू उत्सव- बुद्धगया	4,989,713.00	
होरंडू उत्सव - मुंबई	2,911,466.00	
होरांडू उत्सव- सारनाथ	1,298,750.00	
इंटरनॅशनल फ्लिट रिव्हू - विशाखापट्नम	13,220.00	
सिहस्थ कुंभ मेला -2016	32,325,637.00	
कुल A	**45,617,097.00**	**3,743,499.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31/03/2017 के लिए आय एवं व्यय लेखा की उप अनुसूची

उप अनुसूची 1 अनुसूची 25 विशेष कार्यक्रमों पर व्यय

B) आदिवासी उप योजना TSP

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
बिल्सा महोत्सव		126,017.00
गीता गायत्री		253,356.00
लोक कला यात्रा छत्तीसगढ.		248,279.00
लोक कला यात्रा (आंध्र प्रदेश)		780,771.00
बंगलोर मे लोकोत्सव		96,170.00
लोपमुद्रा अमरावती		86,875.00
राजीम कुंभ कार्यक्रम		365,027.00
पारंपारीक लोक चित्रकला		49,980.00
भारत के आदिवासी महोत्सव (Tribal festival of India)		243,525.00
आदिवासी महोत्सव फुटाला लेक नागपुर	155,000.00	
बिल्सा महोत्सव, बिलासपुर	65,450.00	
हम्पी महोत्सव	244,792.00	
काटोल महोत्सव (सांस्कृतिक कार्यक्रम)	409,600.00	
लोहा शिल्प कार्यशाला, छत्तीसगढ़	674,700.00	
लोक कला यात्रा आं.प्र.(टी.एस.पी)	165,230.00	
लोक कला यात्रा तेलंगणा (टी.एस.पी)	389,208.00	
लोकोत्सव गोवा. (टी.एस.पी)	236,490.00	
राष्ट्रीय लोकनृत्य महोत्सव बसवकल्याण (कर्नाटक रा.)	110,420.00	
राष्ट्रीय लोक महोत्सव वसई (टी.एस.पी)	120,552.00	
पारंपारीक आदिवासी पेंटींग कार्यशाला, नागपुर	89,057.00	
क्षे.सांस्कृ,. केंद्र दिवार चित्रकारी कार्यशाला (2016-17)	6,700.00	
	128,743.00	
उत्तर पूर्व कार्यकलाप (NEA)		
अग्नि महोत्सव (NEA) पन्ना जिला	181,406.00	
आंतर राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस	719,704.00	
बस्तर लोक उत्सव 2016 जगदलपुर	4,469.00	
होरांडू उत्सव बोधगया (NER)	94,725.00	
होरांडू उत्सव सारनाथ (NER)	119,482.00	
ईशान्य पर्व 2017 (Octave)	6,821,636.00	
काटोल सांस्कृतिक महोत्सव (NEA)	106,904.00	
लोक कला यात्रा महाराष्ट्र (NEA)	162,960.00	
लोकोत्सव गोवा (NEA)	319,375.00	
राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव वसई (NEA)	231,132.00	
उत्तर पूर्व महोत्सव, बंगलोर	547,479.00	
राज्योत्सव रायपुर (NEA)	176,135.00	
शौर्य पर्व बंगलोर(NEA)	165,670.00	
सिंहस्थ कुंभ उज्जैन 2016 (NEA)	1,548,809.00	
कुल (B)	**13,995,828.00**	**2,250,000.00**
कुल (A+B)	**59,612,925.00**	**5,993,499.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

31/03/2017 के लिए आय एवं व्यय लेखा की उप अनुसूची

उप अनुसूची 2 अनुसूची 25 विशेष कार्यक्रमों पर व्यय

शिल्पग्राम कार्यकलापों पर व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
आनंदम, लेखा	-	-
आनंदम, लेखा अगस्त 2014	-	-
आनंदम, लेखा सितंबर 2014	-	-
आर्कियोलॉजिस्ट सर की क्लास	-	-
भक्ति संगीत संध्या लेखा	-	202,529.00
बुंदेली उत्सव	-	-
बाल ग्रिष्म कालीन कैम्प	-	-
डी.एम. सर की क्लास लेखा	-	-
डॉ. सर की क्लास	-	-
हिंदी संगोष्ठी		-
इंटरनॅशनल फ्लिट रिव्यू, विशाखापटनम	-	-
कलाकारी प्रतियोगिता लेखा	-	15,926.00
कलाकारी लोक गीत प्रतियोगिता	-	17,923.00
खजुराहो नृत्य सम्मेलन लेखा	-	570,000.00
खजुराहो मे लोहा शिल्प कार्यशाला	-	-
लोक नाट्य उत्सव, नाच (Naach)	-	26,667.00
लोक नाट्य उत्सव, माच (Maach)	-	125,099.00
शिल्पग्राम खजुराहो में संग्रहालय का लेखा	-	-
नारी सांस्कृतिक संध्या लेखा	-	-
नारी 'महिलाओं' के लिए कार्यक्रम,शिल्पग्राम	-	-
पारंपारिक यात्रा रैली लेखा	-	-
रंग बुंदेली शिल्पग्राम	-	77,278.00
रंगोली प्रतियोगिता लेखा	-	-
सांस्कृतिक संध्या लेखा	-	-
एस.डी.ओ.पी सर की क्लास लेखा	-	-
शिवरात्री महोत्सव खजुराहो	-	20,000.00
एस.पी.सर की क्लास लेखा	-	-
ब्रिक्स उत्सव खजुराहो	64,508.00	
कलाकारी लोक चित्रकारी प्रतियोगिता	10,646.00	-
कलाकारी लोक गीत प्रतियोगिता	10,103.00	
लोक नाट्य उत्सव नाचा	26,667.00	
रंग बुंदेली कवी सम्मेलन लेखा	7,296.00	
रंग बुंदेली लोकनृत्य उत्सव शिल्पग्राम	7,532.00	
कुल (C)	**126,752.00**	**1,055,422.00**

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर

अनुसूची 13 की उप अनुसूची 131.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा का अनुलग्नक

अनुदान प्राप्त

विवरण	2015-2016 में उपयोग न किए गए अनुदान अग्रेनीत	वर्ष 2016-17 में अनुदान प्राप्त्त/प्राप्य	अतिरिक्त अनुदान अन्य योजनाओं हस्तांतरण/ वापसी	उप कुल	अव्ययित अनुदान आगे अगेनीत	वर्ष 2016-17 मे अनुदान जमा
	1	2	3	4	5	6
				(1+2+3)		
आदिवासी उप योजना के लिए अनुदान	-	2,795,942.00	-	2,795,942.00	-	2,795,942.00
उत्तर पूर्व कार्यकलापो के लिए अनुदान	14,013,289.00	-	-	14,013,289.00	2,813,403.00	11,199,886.00
RSM 2016 के लिए NCZCC से अनुदान	-	4,285,000.00	-	4,285,000.00	-	4,285,000.00
ललितकला अकादमी से अनुदान प्राप्त	-	-	-	-	-	-
सिंहस्थ कुंभ मेला	-	-				
ललितकला अकादमी से अनुदान-स्टोन कार्विंग वर्कशॉप- उदयपुर		3,750,000.00		3,750,000.00		3,750,000.00
		750,000.00		750,000.00		750,000.00
उप कुल A	**14,013,289.00**	**11,580,942.00**	**-**	**25,594,231.00**	**2,813,403.00**	**22,780,828.00**
आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र के लिए अनुदान (सामान्य) NCEP कार्यक्रम, रंगमंच योजना सिंहस्थ कुंभ मेला इ.	41,638,375.00	58,698,442.25	-	100,336,817.25		100,336,817.25
उप कुल (B)	**41,638,375.00**	**58,698,442.25**	**-**	**100,336,817.25**	**-**	**100,336,817.25**
कुल रु. (A+B)	**55,651,664.00**	**70,279,384.25**	**-**	**125,931,048.25**	**2,813,403.00**	**123,117,645.25**

दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर

31/03/2016 को बॅलेंस शीट के भाग की अनुसूची

अनुसूची '27':- महत्वपूर्ण लेखाकर्म नीतियॉ तथा लेखों पर टिप्पणियां

(क) महत्वपूर्ण लेखाकर्म नीतियों :-

1. संस्था के लेखों का रखरखाव व्यापारिक पध्द्ति पर किया जाता है |

2. अचल संपत्तियों को आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण लागत पर लेखों में लिखा गया हैं और बॅलेंस शीट में घटते हुए मूल्य को भी दर्शाया गया है |

3. बिना अवक्षयण वाली संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अनुदान बॅलेंस शीट में " सुरक्षितपूंजी" लेखाशीर्ष में दर्शाया गया है |

4. भूमि पर कोई अवक्षयन नहीं लगाया गया है | न्यास के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार अन्य संपत्तियों पर अवक्षयन लगाया जाता है | घटते मूल्य का लेखांकन पध्द्ति से अवक्षयन लगाया जाता है |

5. अधिग्रहित संपत्तियों पर लागत से घटते हुए रुप में अवक्षयन, योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त अनुदानों में से दर्शाया गया है |

6. बहु-वर्षिय लेखांकन अवधि में संपन्न किये जाने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए प्राप्त अनुदान आय-व्यय के लेखा में तब तक दर्शाए जाते है, जब तक कि वे उस वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च कर लिए जाएं |शेष भाग को बैलेंस शीट में " विशेष अनुदान" शीर्ष दर्शाया गया है | विशेष कार्यक्रम संपन्न होने पर शेष भाग संबंधित प्राधिकारियों को वापिस किये जाने तक बैलेंस शीट में 'चालू देयता' में दर्शाया गया है |

7. विभिन्न कार्यक्रमों पर किया गया व्यय 'विशिष्ट शीर्ष' में दर्शाया गया है | सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय अलग से केंद्र के समग्र व्यय में दर्शाए गए हैं |

अनुसूची '28'

(ख) लेखों पर टिप्पणीयां

1. समग्र निधि में आंध्र प्रदेश की ओर से आने वाला 137.50 लाख रुपए राशी तथा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य के 1.00 करोड रुपए का योगदान काफी समय से लम्बित हैं |

2. तुलन पत्र की अनुसूची "10" के अनुसार कॉर्पस निधि और सामान्य जमा निधि के 2970 लाख रु. (प्रती वर्ष रु.2972 लाख) को सावधी जमा राशी/राष्ट्रीयकृत बैंक के बॉडस /भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश के रुप में जमा की है |

3. निम्नलिखित मदें कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों की ओर से पिछले एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है | श्री ए.एस. पद्मनाभ के विरुद्ध कानूनी याचिका सिविल सुट संख्या एस सी एच 497/03 तथा श्री वाई एस सरदेशपांडे के विरुद्ध कानूनी याचिका सिविल सुट संख्या 496/03 से सम्बन्धित है तथा इन मामलों पर कार्रवाई शुरु की है तथा मामला न्यायप्रविष्ठ है |

क्रमांक	विवरण	राशी वित्तीय वर्ष 31.03.2017	राशी वित्तीय वर्ष 31.03.2016
1	श्री ए.एस. पद्मनाभ	89,690/-	89,690/-
2	श्री वाय.एस.सरदेशपांडे	1,91,204/-	3,91,204/-
3	श्री ए.एस. पद्मनाभ	21,868/-	21,868/-

वर्ष 2016-17 के दौरान, 200,000 रुपए श्री सरदेशपांडे से संपूर्ण समझौते के रुप में वसूले गए है | शासित कार्यकारी बोर्ड (EBGB) से अनुमोदन प्राप्त होने पर 31.03.2017 को लेखों में शेष 1,91,204 रुपए सरकरी खाते से बट्टा खातें मे डाले जाएंगें|

4. अमोल कॅटरर्स जो कैंद्र के परीसर में घोटूल उपहारगृह चलाता है उसे रु.500,406 (प्रति वर्ष 500,406) अग्रिम दिया गया जो एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है | यह प्रकरण न्यायप्रविष्ठ है | इस संदर्भ में लेखों में कोई प्रावधान नही किया गया |

5. सांविधिक अनुपालन : केंद्र समयानुसार अधिकतर राशी संविधियों के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक अनुवृत्ति का पालन नही कर रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों /कानूनों के अंतर्गत कर भुगतान और रिर्टन फाईल देर से की गई |

i) आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वार्षिक आय कर विवरण 2009-10, 201-16 वर्ष के लिए प्रस्तुत नही किया गया |

ii) वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 से संबंधित सेवा कर विवरण प्रस्तुती का मामला लंबित है |

iii) जुलाई 2011 से केंद्र ने व्यवसाय, व्यापार, कालिंग, रोजगार अधिनियम 1975 से संबंधित महाराष्ट्र राज्य कर के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रिटर्न नहीं भरा है, कई मामलों में कर्मचारियों के वेतन से कटौती किये गए व्यवसाय कर का राज्य सरकार के लेखें मे जमा करने में विलम्ब हुआ |

iv) केंद्र द्वारा मुंबई लोक न्यास अधिनियम 1950 (मुंबई पब्लिक ट्रस्ट) के अनुच्छेद 58 के अनुसार निर्धारीत वार्षिक बजट प्रस्तुत नही किया |

6. शयनागार (Dormitory) तथा प्रशासनिक खंड का निर्माण तथा साज सज्जा का कार्य लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान पूर्ण हुआ. यह कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित (सम्पन्न)हुआ | 17.52 लाख रुपए इस मद के अंतर्गत में अप्रयुक्त फसें पडें है जब की यह कार्य नवंबर 2013 में यह कार्य संपन्न हो गया था | इस संदर्भ मे यह सूचना प्राप्त हुई है की ठेकेदार ने आरबिटर का मामला दायर किया है |

7. केंद्र ने कुछ कलाकृतियों का मूल्य लगाया जिन्हे लेखापुस्तकों में शामिल नही किया गया क्योंकि उनमें से कुछ में सुधार योग्य न थी, कुछ टूटी और उन्हे सुधारने में अधिक खर्च अपेक्षित था और ऐसी कला कृतियों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यशालाओं में प्रस्तुत किया गया था |

8. केंद्र के कर्मचारी के द्वारा ना-उपयोग में लाए गए छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान नही है. मुंबई लोक न्यास के अनुच्छेद 58 अनुसार अंशदान दिया जाता है |

9. केंद्र द्वारा वसंतराव देशपांडे सभागृह मे स्थित कला दिर्घा के भाडे (रेंट) 92.20 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 85.00 लाख रुपए) का भुगतान राज्य के लोकनिर्माण विभाग से विवाद होने की वजह से राज्य को नही किया गया | इस मांग का केंद्र ने विरोध किया है . यद्यपि, इस निधी का लेखों में प्रावधान खाते में किया है |

10. श्री गोपाल बेतावर को कार्यक्रम हेतु दिया गया आग्रिम 10.58 लाख रुपए (गत वर्ष 14.04 लाख रुपए) प्रलंबित है | सी.बी.आई ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दे दी है | अत: लेखों में समायोजनार्थ प्रविष्टी प्रलंबित है |

11. कुछ कार्यक्रमों के अग्रिम के लेखे, यात्रा अग्रिम, अन्य अग्रिम का लेखा समाधान के अधिन है |

12. गत वर्ष के आंकडे आवश्यकतानुसार पुर्नस्वीकृत या पुर्नवयस्थित किये गए है |

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के लिए	केदार गोखले अँड कंपनी के लिए
हस्ता./-	हस्ता./-
(डॉ. ई. एन. साजिथ)	
निदेशक	चार्टर्ड अकाउंटंट
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,नागपुर	(केदार गोखले)
दिनांक 15 जुलाई,2017	भागीदार

अनुसूची IX-C
(नियम 32 के अधिन)
लोक न्यास का नाम : **दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर,56/1 सिविल लाईंस,**
आमदार निवास के सामने, नागपुर
पंजीयन क्र. : **F-7231**
लोक न्यास पंजीयन सं : **महाराष्ट्र 489/86 (नागपुर)**
आय में योगदान करने के लिए वर्ष के समाप्ती पर विवरणी: 31 मार्च 2017

राशी		**(रुपए.)**
	I) आय तथा व्यय लेखों (विवरीणी) में दर्शायी गई आय (अनु. IX)	**17,07,25,267**
	II) धारा 58 तथा नियम 32 के अंतर्गत अंशदान में न दर्शाए गए मदें	
I.	**अन्य लोक न्यास तथा धर्मदास से प्राप्त चंदा**	
II.	**सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान**	**12,31,17,645**
III.	**ऋण शोधन या अवक्षयन निधि पर ब्याज**	
IV.	**धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य हेतु व्यय**	
V.	**चिकित्सा सहायता के उद्देश्य हेतु व्यय**	
VI.	**जानवरों के इलाज के लिए पशुचिकित्सा के उद्देश से व्यय**	
VII.	**अकाल,सुखा,बाढ़ आग या अन्य प्राकृतिक विपदा के लिए प्राप्त चंदा/अनुदान से व्यय**	
VIII.	**कृषि के प्रयोजन हेतु भूमी के आय से कटौती**	
	a) भू राजस्व तथा स्थानीय निधि सेस	
	b) श्रेष्ठ भूस्वामी को देय किराया	
	c) मूल्य या उत्पादन, यदि भूमी में न्यास द्वारा खेती हेतु प्रयोग मे लाई जा रही है	
IX.	**गैर कृषि के प्रयोजन हेतु भूमी के आय से कटौती**	
	a) निर्धारण, सेस तथा अन्य सरकार या निगम कर	
	b) श्रेष्ठ भूस्वामी को देय ग्राउंड किराया	
	c) बीमा प्रिमियम	
	d) मरम्मत हेतु भवन के किराया के कुल10% राशी	
	e) किराया पर दिए गए इमारत के किराया संकलन हेतु 4% ग्राउंड रेंट	
X.	**आय के संकलन हेतु या प्रतिभूती से प्राप्तीयां, स्टॉक इत्यादी से आय के 1 प्रतिशत व्यय**	
XI.	**ऐसी इमारत जो किराए पर नही दि गई या जिससे कोई आय नही है उसके संभावित किराए के 10% की राशी की मरम्मत हेतु कटौती**	
	कुल वार्षिक आय अंशदान को भारित	**4,76,07,622**
	(अंशदान की राशी का अभिकलन दर, अनुसूची 58 के उप- अनुसूची (1) की नियत दर के अनुसार	**9,52,152**

यह प्रमाणित किया जाता है उपर दर्शाए गए अनुसूची मे कटौती का दावा करते समय उपरोक्त कटौतीयां स्वीकार्य है , हमने उपर दर्शाए गए किसी भी मदों का या किसी भी राशी का दोबारा, पूर्णत: या अंशत: दावा नही किया, जिससे दोबारा कटौती का प्रभाव हो "

कृते
केदार गोखले & कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटंट
FR No.131980W
हस्ता./-
CA केदार गोखले, भागीदार, M No.03914, स्थान: नागपुर, दिनांक: जुलाई 15, 2017

31.03.2017 को समाप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - A

मुंबई लोक न्यास अधिनियम, 1950 के नियम 19 अनुसूची 33 तथा 34 के अंतर्गत लेखों की लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षण का प्रतिवेदन

1	लोक न्यास का नाम	**दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर,56/1 सिविल लाईंस,** **आमदार निवास के सामने, नागपुर**
2	पंजीयन क्रमांक	**F-7231**
3	PTR No.	**महाराष्ट्र 489/86 (नागपुर)**
4	वर्ष के समाप्ती के लिए लेखे	**31 मार्च 2017**
5 a)	क्या लेखों का नियमित रुप से तथा अधिनियम के प्रावधान तथा नियमों के अंतर्गत रखरखाव किया जाता है	लेखों का नियमित रुप से तथा अधिनियम के प्रावधान तथा नियमों के अंतर्गत रखरखाव किया जाता है
B	क्या प्राप्ती तथा संवितरण को उचित तथा सही ढंग से लेखों मे दिखाया गया है	प्राप्ती तथा संवितरण को उचित तथा सही ढंग से लेखों मे दिखाया गया है
C	क्या रोकड शेष तथा वाउचर लेखापरीक्षा के दिन दौरान व्यवस्थापक या न्यासी (ट्रस्टी) के हिरासत में थे	रोकड शेष तथा वाउचर लेखापरीक्षा के दिन दौरान प्राधिकृत अधिकरी के हिरासत सुरक्षित थे तथा उनका लेखों के साथ मिलान किया हुआ है
D	क्या सभी लेखापुस्तके, विलेख (Deeds) लेखा वाउचर्स या अन्य प्रलेख या दस्तावेज लेखापरीक्षक द्वारा मांगने पर उन्हे प्रस्तुत किए गए	सभी लेखापुस्तके, विलेख (Deeds) लेखा वाउचर्स या अन्य प्रलेख या दस्तावेज लेखापरीक्षण के प्रस्तुत किए गए
E	क्या व्यवस्थापक या ट्रस्टी या अन्य कोई व्यक्ती लेखपरीक्षण के समय लेखापरीक्षक के के सन्मुख उपस्थित थे, और लेखापरीक्षक को जानकारी प्रस्तुत की |	हमने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण जो लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक थे केंद्र के निदेशक तथा अधिकारी से प्राप्त किए |
F	क्या न्यास की कोई संपत्ती या निधी न्यास के उद्देश या कारण के अलावा कार्य हेतु उपयोग मे लायी गई |	न्यास की कोई संपत्ती या निधी न्यास के उद्देश या कारण के अलावा किसी कार्य हेतु उपयोग मे नही लायी गई |
G	राशी एक वर्ष से अधिक अवधी के लिए प्रलंबित है तथा बट्टे खाते में डाल दी गई, यदी कोई है |	शून्य
H	क्या 1,00,000/- रुपए से अधिक के मरम्मत या निर्माण कार्य हेतु निविदाएं मंगाई गई थी	1,00,000/- रुपए से अधिक के मरम्मत या निर्माण कार्य हेतु निविदाएं मंगाई गई थी
I	क्या न्यास के अनुच्छेद 35 में दर्शाए गए प्रावधान के अलावा लोक न्यास की किसी राशी का अन्य कार्य हेतु निवेश किया गया	न्यास के अनुच्छेद 35 में दर्शाए गए प्रावधान के अलावा लोक न्यास की किसी भी राशी का अन्य कार्य हेतु निवेश नही किया गया
J	अचल संपत्ती का अनुच्छेद 36 के अलावा यदि कोई हो तो अन्य संक्रामण(alienation), की स्थिती लेखापरीक्षा के समय निदर्शन में आई थी |	केंद्र की अचल संपत्ती का अधिनियम में दर्शाए गए अनुच्छेद 36 के अलावा अन्य संक्रामण (alienation), के लिए प्रयोग नही किया गया |
K	कोई विशेष मामला,जो लेखापरीक्षक को जरुरी लगता है की उप या सहायक धर्मदाय आयुक्त के निदर्शन में लाया जाय (अति आवश्यक मामले)	***1. केंद्र के द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 58(1) के अंतर्गत आवश्यक अंशदान राशी की अदायगी नही की गई |*** ***2. केंद्र द्वारा सेवा कर तथा व्यवसाय कर विवरण(returns)को समय पर प्रस्तुत नही किया गया*** ***3. कार्यक्रम हेतु दिए गए कुछ ऋण तथा अग्रिम, यात्रा***

		तथा अन्य अग्रिम लेखा-समाधान (under reconciliation) के स्थिती मे है
L	सभी अनियमितताओं , अवैध या अनुचित व्यय, राशी की वसूली में विफलता ,चूक या अन्य संपत्ती जो लोक न्यास के अंतर्गत आती है के राशी या संपत्ती की बर्बादी और खर्च करने विफलता,चूक, या हानी या बर्बादी या विश्वास का घात करना या गलत उपयोग या न्यास के अंतर्गत न्यासी व्यक्ती के (ट्रस्टी)या अन्य व्यक्ती द्वारा न्यास के व्यवस्थापन में दुराचार या गैरव्यवहार के मामलें I	लेखापरीक्षा के अवधी के दौरान हमे ऐसे कोई प्रसंग या मामले जो अनियमित, अवैध या व्यय को ठीक ढंग से ना करने या अनुचित व्यय या चूक या राशी की वसूली में गलती, विश्वास का घात या राशी का गलत प्रयोग जहां तक न्यासी का संबंध है निदर्शन में नही आये I
M	क्या बज्ट को नियम16 (A) में दर्शाए गए अनुसार दायर किया गया है	केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष बजट तयार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है I यद्यपी बजट को धर्मदाय आयुक्त को दायर नही किया जाता I केंद्र को सलाह दी जाती है की अनुमोदीत बजट की प्रती वित्तीय वर्ष के शुरु होने के में कम से कम एक माह पूर्व आयुक्त को मुंबई लोक न्यास्स अधिनियम 1950 मे दर्शाए गए अनुच्छेद 31A नुसार प्रस्तुत करें I
	लेखापरीक्षक के रिपोर्ट मे दर्शाए गए अतिरिक्त मदें	
I	**क्या न्यासी के अधिकतम और न्युनतम संख्या को बनाए रखा है**	हॉ
II	**क्या दस्तावेज में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार नियमित बैठके आयोजित की जाती है**	हॉ
III	**क्या बैठक के कार्यवाही के कार्यवृत्त की पुस्तिका बनाए रखी है**	हॉ
IV	**क्या किसी ट्रस्टी को न्यास के निवेश मे रुची है**	नही
V	**क्या कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के देनदार या लेनदार है**	नही
VI	**क्या विगत वर्ष के लेखे में लेखापरीक्षक द्वारा अनियमितताएं निदर्शन मे लाई गई थी जिसे ट्रस्टी द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान लेखों से संकलित (compiled) किया गया**	हॉ

कृते केदार गोखले & कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटंट
FR No.131980 W
हस्ता./-
CA केदार गोखले
भागीदार M No.039140
स्थान: नागपुर
दिनांक जुलाई 15, 2017



दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

South Central Zone Cultural Centre

Ministry of Culture, Government of India

56/1, Civil Lines, Nagpur 440001 (MS) INDIA | 56/1, सिविल लाईन, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र)

■ Tel.: (0712) 2562974, 2565107 ■ Fax: 0712-2560966 ■ E-mail: sczccnagpur1986@gmail.com; director@sczcc.gov.in

■ https://www.sczcc.gov.in ■ www.facebook.com/sczcc ■ www.youtube.com/sczcc ■ www.flickr.com/sczcc